



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2569]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2010/पौष 7, 1932

No. 2569]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2010/PAUSHA 7, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3049(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 23 अप्रैल, 2010 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 938(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2010 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, पंजाब राज्य के पटियाला जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र, द ट्रिब्यून में तारीख 19 मई, 2010 और रोजानाअजीत में तारीख 19 मई, 2010 को प्रकाशित किया गया था;

और, एक सौ बाइस आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्ण रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के तहसील रोजपुरा, जिला पटियाला में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली भूमि का अर्जन की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिगृहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूमिस्वामी का नाम/हितबद्ध
1	2	3	4	5	6	7
1	मेहमदपुर	929	पंजाब वकफ बोर्ड	कृषि	0.0574	पंजाब वकफ बोर्ड
		928	पंजाब वकफ बोर्ड	कृषि	0.4037	पंजाब वकफ बोर्ड
		926	पंजाब वकफ बोर्ड	कृषि	0.2332	पंजाब वकफ बोर्ड
2	शम्भू खुर्द	421	पंजाब सरकार व अवादी देह	सड़क व अवादी	0.2376	पंजाब सरकार अवादी गाव
		416	पंजाब सरकार व नगर पंचायत	सड़क व नगर कृषि	0.1144	पंजाब सरकार नगर पंचायत देह
		258	निजी	कृषि	0.1813	रणजीत सिंह पुत्र कहर सिंह पुत्र सरूप सिंह 1/2 हिस्सा भूपेंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र कहर सिंह 1/2 हिस्सा
		256	निजी	कृषि	0.0618	रणजीत सिंह पुत्र कहर सिंह पुत्र सरूप सिंह 1/2 हिस्सा भूपेंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र कहर सिंह 1/2 हिस्सा
		255	निजी	कृषि	0.1871	हरिंदरजीत सिंह - सरवजीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वः वः
		237	निजी	कृषि	0.0631	हरिंदरजीत सिंह - सरवजीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वः वः
		240	निजी	कृषि	0.0026	हरिंदरजीत सिंह - सरवजीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वः वः
		254	निजी	कृषि	0.2912	हरिंदरजीत सिंह - सरवजीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वः वः

1	2	3	4	5	6	7
		236	निजी	रास्ता	0.0042	श्रीमती कुलदीप कौर विधवा व जसप्रीत कौर वः वः 1/12 हिस्सा प्रीत मोहन पुत्र मोहन सिंह पुत्र शेर सिंह 1/12 हिस्सा अमरजीत सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र ईशर सिंह 1/12 हिस्सा बलवीर सिंह पुत्र नगीना सिंह पुत्र ईशर सिंह 5/12 हिस्सा सुरिंदर सिंह - रविंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र नगीना सिंह वः वः 5/12 हिस्सा कमलजीत कौर - मनजीत कौर पुत्रीयां नगीना सिंह पुत्र ईशर सिंह वः वः 1/6 हिस्सा श्रीमती कुलवंत कौर विधवा व हरभजन सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र शेर जवर जंग सिंह पुत्र जसवंत सिंह वः वः 1/4 हिस्सा संपुरन सिंह पुत्र जसवंत सिंह पुत्र ईशर सिंह 1/4 हिस्सा श्रीमती वरिंदर कौर विधवा व रविंदर कौर - मनिंदर कौर - हरिंदर कौर - जसविंदर सिंह पुत्र व पुत्रीयां करन सिंह पुत्र जसवंत सिंह वः वः 1/4 हिस्सा श्रीमती सतवंत कौर पत्नी चरनजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 512/7426 हिस्सा चरनजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र लज्जा सिंह 340/7426 हिस्सा गुरप्रीत कौर पत्नी सतिंदरपाल सिंह पुत्र मनोहर सिंह 374/7426 हिस्सा मनोहर सिंह पुत्र सुंदर सिंह पुत्र गुरदिल्ल सिंह 250/7426 हिस्सा अमरीक सिंह - परमजीत सिंह पुत्र विकरम सिंह पुत्र जसवंत सिंह वः वः 16/7426 हिस्सा विकरम सिंह पुत्र जसवंत सिंह पुत्र ईशर सिंह 729/7426 हिस्सा दर 1/3 हिस्सा व श्रीमती चरन कौर विधवा व मुखराज सिंह उर्फ जंग बहादुर सिंह - गुरदीश सिंह - बलजीत कौर - टिकु पवला पुत्र व पुत्रीयां महाराज सिंह पुत्र शेर सिंह वः वः 1/12 हिस्सा
		259	पंजाब सरकार व अयादी देह	रास्ता	0.2011	श्रीमती कुलदीप कौर विधवा व जसप्रीत कौर वः वः 1/12 हिस्सा प्रीत मोहन सिंह पुत्र शेर सिंह 1/12 हिस्सा अमरजीत सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र ईशर सिंह 1/12 हिस्सा बलवीर सिंह पुत्र नगीना सिंह पुत्र ईशर सिंह 5/12 हिस्सा सुरिंदर सिंह - रविंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र नगीना सिंह वः वः 5/12 हिस्सा कमलजीत कौर - मनजीत कौर पुत्रीयां नगीना सिंह पुत्र ईशर सिंह वः वः 1/6 हिस्सा श्रीमती कुलवंत कौर विधवा व हरभजन सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र शेर जवर जंग सिंह पुत्र जसवंत सिंह वः वः 1/4 हिस्सा संपुरन सिंह पुत्र जसवंत सिंह पुत्र ईशर सिंह 1/4 हिस्सा श्रीमती वरिंदर कौर विधवा व रविंदर कौर - मनिंदर कौर - हरिंदर कौर - जसविंदर सिंह पुत्र व पुत्रीयां करन सिंह पुत्र जसवंत सिंह वः वः 1/4 हिस्सा श्रीमती सतवंत कौर पत्नी चरनजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 512/7426 हिस्सा चरनजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र लज्जा सिंह 340/7426 हिस्सा गुरप्रीत कौर पत्नी सतिंदरपाल सिंह पुत्र मनोहर सिंह 374/7426 हिस्सा मनोहर सिंह पुत्र सुंदर सिंह पुत्र गुरदिल्ल सिंह 250/7426 हिस्सा अमरीक सिंह - परमजीत सिंह पुत्र विकरम सिंह पुत्र जसवंत सिंह वः वः 6/7426 हिस्सा विकरम सिंह पुत्र जसवंत सिंह पुत्र ईशर सिंह 729/7426 हिस्सा दर 1/3 हिस्सा व श्रीमती चरन कौर विधवा व मुखराज सिंह उर्फ जंग बहादुर सिंह - गुरदीश सिंह - बलजीत कौर - टिकु पवला पुत्र व पुत्रीयां महाराज सिंह पुत्र शेर सिंह वः वः 1/12 हिस्सा पंजाब सरकार

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
3	हाशमपुर	287	निजी	कृषि	0.3176	मलकीत सिंह पुत्र खड़क सिंह पुत्र उजागर सिंह 791½/1392 हिस्सा कुलदीप सिंह पुत्र गुरशरण सिंह पुत्र ध्यान सिंह 300/1392 हिस्सा कमलजीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह पुत्र खड़क सिंह 150/1392 हिस्सा कमलप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह पुत्र खड़क सिंह 150½/1392 हिस्सा बंत सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र संता सिंह
		288	पंजाब सरकार व निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1363	बंत सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र संता सिंह पंजाब सरकार
		289	पंजाब सरकार	गैर कृषि	0.2773	पंजाब सरकार
		290	पंजाब सरकार	गैर कृषि	0.0571	पंजाब सरकार
		291	पंजाब सरकार व निजी	गैर कृषि व कृषि	0.0027	सुरिंदर सिंह पुत्र पाल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 1/3 हिस्सा दविंदर सिंह - मनप्रीत सिंह पुत्र निरमल सिंह पुत्र पाल सिंह वः वः 1/3 हिस्सा गुरविंदर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र पाल सिंह 1/3 हिस्सा पंजाब सरकार
		292	पंजाब सरकार व अवादी देह	नहर व कृषि	0.2477	रणजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी पुराना राजपुरा... पंजाब सरकार
		293	निजी	कृषि	0.3417	रणजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी पुराना राजपुरा
		297	निजी	कृषि	0.0421	रणजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी पुराना राजपुरा
		295	निजी	कृषि	0.1548	रणजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी पुराना राजपुरा
		294	निजी	कृषि	0.2635	रणजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी पुराना राजपुरा
	हाशमपुर	18	निजी	कृषि	0.2338	श्रीमती जंगीर कौर बेवा लाभ सिंह पुत्र रचन सिंह 800/10310 हिस्सा नछेल्लर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र रचन सिंह 6370/10310 हिस्सा चरण सिंह 1940/10310 हिस्सा साहिब सिंह 400/10310 हिस्सा पुत्र जंगीर सिंह पुत्र मैहमा सिंह व बंत सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र श्याम सिंह 800/10310 हिस्सा
		15	निजी	कृषि	0.0885	श्रीमती जंगीर कौर बेवा लाभ सिंह पुत्र रचन सिंह 800/10310 हिस्सा नछेल्लर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र रचन सिंह 6370/10310 हिस्सा चरण सिंह 1940/10310 हिस्सा साहिब सिंह 400/10310 हिस्सा पुत्र जंगीर सिंह पुत्र मैहमा सिंह व बंत सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र श्याम सिंह 800/10310 हिस्सा
		17	निजी	कृषि	0.0311	श्रीमती जंगीर कौर बेवा लाभ सिंह पुत्र रचन सिंह 800/10310 हिस्सा नछेल्लर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र रचन सिंह 6370/10310 हिस्सा चरण सिंह 1940/10310 हिस्सा साहिब सिंह 400/10310 हिस्सा पुत्र जंगीर सिंह पुत्र मैहमा सिंह व बंत सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र श्याम सिंह 800/10310 हिस्सा श्याम सिंह - जगदूप सिंह - गुरवचन सिंह वः वः 30/205 हिस्सा व सुरजीत कौर - लाभ कौर - सुरिंदर कौर - बलविंदर कौर - बलजीत कौर वः वः 175/205 हिस्सा पुत्र व पुत्रीयां प्रीतम सिंह पुत्र मैहमा सिंह

1	2	3	4	5	6	7
		16	निजी	कृषि	0.2158	श्याम सिंह - जगारूप सिंह - गुरबचन सिंह वः वः 30/205 हिस्सा व सुरजीत कौर - लाभ कौर - सुरिंदर कौर - बलविंदर कौर - बलजीत कौर वः वः 175/205 हिस्सा पुत्र व पुत्रीयां प्रीतम सिंह पुत्र भैहमा सिंह
		22	निजी	कृषि	0.0137	गुरदियाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र भैहमा सिंह 218/462 हिस्सा अवतार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र निरंजन सिंह 90/462 हिस्सा अजैब सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र निरंजन सिंह 154/462 हिस्सा सरवण सिंह पुत्र भैहमा सिंह पुत्र खड़क सिंह 1/5 हिस्सा गुरदियाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1/15 हिस्सा अवतार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र 1/15 हिस्सा अजैब सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/15 हिस्सा चरन सिंह 11/100 हिस्सा साहिब सिंह 2/100 हिस्सा पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भैहमा सिंह व जंगा सिंह - जग्गा सिंह पुत्र साहिब सिंह पुत्र जंगीर सिंह 7/100 हिस्सा व श्याम सिंह - जगारूप सिंह - गुरबचन सिंह व सुरजीत कौर - लाभ कौर - सुरिंदर कौर - बलविंदर कौर - बलजीत कौर पुत्र व पुत्रीयां प्रीतम सिंह पुत्र भैहमा सिंह वः वः 1/5 हिस्सा नछतर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र रचन सिंह 1/5 हिस्सा
		113	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.0284	नगर पंचायत देह
		139	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.2018	नगर पंचायत देह
		114	नगर पंचायत	रास्ता	0.0361	नगर पंचायत देह
		28	निजी	कृषि	0.1893	गुरदियाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र भैहमा सिंह 218/462 हिस्सा अवतार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र निरंजन सिंह 90/462 हिस्सा अजैब सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र निरंजन सिंह 154/462 हिस्सा
		29	निजी	कृषि	0.2065	गुरदियाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र भैहमा सिंह 218/462 हिस्सा अवतार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र निरंजन सिंह 90/462 हिस्सा अजैब सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र निरंजन सिंह 154/462 हिस्सा
		34	निजी	कृषि	0.0025	साहिब सिंह 2/20 हिस्सा चरन सिंह 11/20 हिस्सा पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भैहमा सिंह व जंगा सिंह - जग्गा सिंह पुत्र साहिब सिंह पुत्र जंगीर सिंह 7/20 हिस्सा सरवण सिंह पुत्र भैहमा सिंह पुत्र खड़क सिंह 1/5 हिस्सा गुरदियाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र भैहमा सिंह 1/15 हिस्सा अवतार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह 1/15 हिस्सा अजैब सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/15 हिस्सा साहिब सिंह 2/100 हिस्सा चरन सिंह 11/100 हिस्सा पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भैहमा सिंह व जंगा सिंह - जग्गा सिंह पुत्र साहिब सिंह पुत्र जंगीर सिंह 7/100 हिस्सा व श्याम सिंह - जगारूप सिंह - गुरबचन सिंह व सुरजीत कौर - लाभ कौर - सुरिंदर कौर - बलविंदर कौर - बलजीत कौर पुत्रीयां प्रीतम सिंह पुत्र भैहमा सिंह वः वः 1/5 हिस्सा नछतर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र रचन सिंह 1/5 हिस्सा
		33	निजी	कृषि	0.3028	सरवण सिंह पुत्र भैहमा सिंह पुत्र खड़क सिंह साहिब सिंह 2/20 हिस्सा चरन सिंह 11/20 हिस्सा पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भैहमा सिंह व जंगा सिंह - जग्गा सिंह पुत्र साहिब सिंह पुत्र जंगीर सिंह 7/20 हिस्सा
		32	निजी	कृषि	0.0327	सरवण सिंह पुत्र भैहमा सिंह पुत्र खड़क सिंह

1	2	3	4	5	6	7
		31	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.2942	सरवण सिंह पुत्र भैरमा सिंह पुत्र खड़क सिंह
		41	निजी	कृषि	0.1191	नायव सिंह - मलकीयत सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र जंगीर सिंह वः वः
		45	निजी	कृषि	0.0025	नायव सिंह - मलकीयत सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र जंगीर सिंह वः वः
		42	निजी	कृषि	0.2191	ताबै ईन्तकाल नम्बर 481 - 487 - 498 मनजूरशुदा कलदीप सिंह - किरपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह पुत्र जगीर सिंह वः वः
		44	निजी	कृषि	0.2272	ताबै ईन्तकाल नम्बर 481 - 487 - 498 मनजूरशुदा कलदीप सिंह - किरपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह पुत्र जगीर सिंह वः वः
		43	निजी	कृषि	0.0969	ताबै ईन्तकाल नम्बर 481 - 487 - 498 मनजूरशुदा कलदीप सिंह - किरपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह पुत्र जगीर सिंह वः वः
		136	निजी	कृषि	0.0129	ताबै ईन्तकाल नम्बर 481 - 487 - 498 मनजूरशुदा कलदीप सिंह - किरपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह पुत्र जगीर सिंह वः वः
		137	निजी	कृषि	0.2616	ताबै ईन्तकाल नम्बर 481 - 487 - 498 मनजूरशुदा कलदीप सिंह - किरपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह पुत्र जगीर सिंह वः वः
		138	निजी	कृषि	0.0301	ताबै ईन्तकाल नम्बर 481 - 487 - 498 मनजूरशुदा कलदीप सिंह - किरपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह पुत्र जगीर सिंह वः वः
		140	निजी	कृषि	0.3237	ताबै ईन्तकाल नम्बर 481 - 487 - 498 मनजूरशुदा कलदीप सिंह - किरपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह पुत्र जगीर सिंह वः वः
		141	निजी	कृषि	0.2526	ताबै ईन्तकाल नम्बर 481 - 487 - 498 मनजूरशुदा कलदीप सिंह - किरपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह पुत्र जगीर सिंह वः वः
4	खैरपुर शेखां	115	निजी	कृषि	0.0928	फकीर चन्द पुत्र मुनसी राम पुत्र मातु 1156½/2313 हिस्सा सरवन राम पुत्र सिरीयां राम पुत्र राम सिंह 100/2313 हिस्सा राम सिंह पुत्र आसु 1056½/2313 हिस्सा
		114	निजी	कृषि	0.4065	फकीर चन्द पुत्र मुनसी राम पुत्र मातु 1156½/2313 हिस्सा सरवन राम पुत्र सिरीयां राम पुत्र राम सिंह 100/2313 हिस्सा राम सिंह पुत्र आसु 1056½/2313 हिस्सा
		113	निजी	कृषि	0.1749	फकीर चन्द पुत्र मुनसी राम पुत्र मातु 1156½/2313 हिस्सा सरवन राम पुत्र सिरीयां राम पुत्र राम सिंह 100/2313 हिस्सा राम सिंह पुत्र आसु 1056½/2313 हिस्सा
		112	निजी	कृषि	0.2191	फकीर चन्द पुत्र मुनसी राम पुत्र मातु 1156½/2313 हिस्सा सरवन राम पुत्र सिरीयां राम पुत्र राम सिंह 100/2313 हिस्सा राम सिंह पुत्र आसु 1056½/2313 हिस्सा
		120	निजी	कृषि	0.0098	फकीर चन्द पुत्र मुनसी राम पुत्र मातु 1156½/2313 हिस्सा सरवन राम पुत्र सिरीयां राम पुत्र राम सिंह 100/2313 हिस्सा राम सिंह पुत्र आसु 1056½/2313 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		121	निजी	कृषि	0.2799	फकीर चन्द पुत्र नुनसी राम पुत्र मातु 1156½/2313 हिस्सा सरवन राम पुत्र सिरीयां राम पुत्र राम सिंह 100/2313 हिस्सा राम सिंह पुत्र आसु 1056½/2313 हिस्सा
		123	निजी	कृषि	0.0587	भगत सिंह - साहिव सिंह - कुलवंत सिंह - बलदेव सिंह पुत्र निधान सिंह पुत्र मताव सिंह वः वः 4/5 हिस्सा श्रीमती दर्शन कौर विधवा व गुरवंत सिंह - गुरजीत सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र निधान सिंह वः वः 1/5 हिस्सा
		122	निजी	कृषि	0.2917	भगत सिंह - साहिव सिंह - कुलवंत सिंह - बलदेव सिंह पुत्र निधान सिंह पुत्र मताव सिंह वः वः 4/5 हिस्सा श्रीमती दर्शन कौर विधवा व गुरवंत सिंह - गुरजीत सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र निधान सिंह वः वः 1/5 हिस्सा
		101	निजी	गैर कृषि	0.0251	मलकीयत मालकान अराजी खेत
		38	निजी	कृषि	0.0129	दलजीत कौर वैवा व दविंदर सिंह - मानुक सिंह पुत्र व रविंदर कौर पुत्री गुरमेज सिंह पुत्र अरूड सिंह 5/36 हिस्सा वरिआम सिंह - मुलेग सिंह - बलविंदर सिंह - गुरमीत सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र अरूड सिंह पुत्र फतेह सिंह वः वः 25/36 हिस्सा श्रीमती प्यार कौर वैवा व मुखविंदर कौर - गुरमीत कौर पुत्रीयां अरूड सिंह पुत्र फतेह सिंह वः वः 1/6 हिस्सा
5	घघर सराय	611	निजी	कृषि	0.3312	दरबारा सिंह - हरदेव सिंह पुत्र श्याम सिंह पुत्र गंगा राम वः वः 744/3680 हिस्सा हरचंद सिंह - रजिंदर सिंह - कुलदीप सिंह वः वः 357/3680 हिस्सा व मुरिंदर कौर पुत्री 15/3680 हिस्सा और पुत्र शेर सिंह पुत्र श्याम सिंह व गयान सिंह - गुरनाम सिंह पुत्र रामा पुत्र गंगा राम वः वः 2192/3680 हिस्सा नरिंदर कुमार पुत्र साधु राम पुत्र यादों व वेद प्रकाश पुत्र लीला राम पुत्र मेघ राज वः वः 85/3680 हिस्सा व सतपाल सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र लाभ सिंह व मुखविंदर कौर पुत्री सतपाल पुत्र करतार वः वः 257/3680 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री श्याम सिंह पुत्र गंगा राम 30/3680 हिस्सा
		619	निजी	कृषि	0.3144	दरबारा सिंह - हरदेव सिंह पुत्र श्याम सिंह पुत्र गंगा राम वः वः 744/3680 हिस्सा हरचंद सिंह - रजिंदर सिंह - कुलदीप सिंह वः वः 357/3680 हिस्सा व मुरिंदर कौर पुत्री 15/3680 हिस्सा और पुत्र शेर सिंह पुत्र श्याम सिंह व गयान सिंह - गुरनाम सिंह पुत्र रामा पुत्र गंगा राम वः वः 2192/3680 हिस्सा नरिंदर कुमार पुत्र साधु राम पुत्र यादों व वेद प्रकाश पुत्र लीला राम पुत्र मेघ राज वः वः 85/3680 हिस्सा व सतपाल सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र लाभ सिंह व मुखविंदर कौर पुत्री सतपाल पुत्र करतार वः वः 257/3680 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री श्याम सिंह पुत्र गंगा राम 30/3680 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		620	निजी	कृषि	0.2350	दरवारा सिंह - हरदेव सिंह पुत्र श्याम सिंह पुत्र गंगा राम वः वः 744/3680 हिस्सा हरचन्द सिंह - रजिंदर सिंह - कुलदीप सिंह वः वः 357/3680 हिस्सा व मुरिंदर कौर पुत्री 15/3680 हिस्सा और पुत्र शेर सिंह पुत्र श्याम सिंह व गयान सिंह - गुरनाम सिंह पुत्र रामा पुत्र गंगा राम वः वः 2192/3680 हिस्सा नरिंदर कुमार पुत्र साधु राम पुत्र यादों व वेद प्रकाश पुत्र लीला राम पुत्र मेघ राज वः वः 85/3680 हिस्सा व सतपाल सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र लाभ सिंह व मुखविंदर कौर पुत्री सतपाल पुत्र करतार वः वः 257/3680 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री श्याम सिंह पुत्र गंगा राम 30/3680 हिस्सा
		622	निजी	कृषि	0.0585	दरवारा सिंह - हरदेव सिंह पुत्र श्याम सिंह पुत्र गंगा राम वः वः 744/3680 हिस्सा हरचन्द सिंह - रजिंदर सिंह - कुलदीप सिंह वः वः 357/3680 हिस्सा व मुरिंदर कौर पुत्री 15/3680 हिस्सा और पुत्र शेर सिंह पुत्र श्याम सिंह व गयान सिंह - गुरनाम सिंह पुत्र रामा पुत्र गंगा राम वः वः 2192/3680 हिस्सा नरिंदर कुमार पुत्र साधु राम पुत्र यादों व वेद प्रकाश पुत्र लीला राम पुत्र मेघ राज वः वः 85/3680 हिस्सा व सतपाल सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र लाभ सिंह व मुखविंदर कौर पुत्री सतपाल पुत्र करतार वः वः 257/3680 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री श्याम सिंह पुत्र गंगा राम 30/3680 हिस्सा
		612	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.0692	नगर पंचायत देह
		614	निजी	कृषि	0.1207	अचतार सिंह - नरिंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सिंह वः वः 1/3 हिस्सा गुरमेल सिंह - बलदेव सिंह - तरलोचन सिंह - मोहन सिंह पुत्र हजुरा सिंह वः वः 1/3 हिस्सा नरिंदर सिंह - बलजिंदर सिंह - रजिंदर सिंह पुत्र लाभ सिंह वः वः 1/3 हिस्सा दरवारा सिंह - हरदेव सिंह पुत्र श्याम सिंह पुत्र गंगा राम वः वः 744/3680 हिस्सा हरचन्द सिंह - रजिंदर सिंह - कुलदीप सिंह वः वः 357/3680 हिस्सा व मुरिंदर कौर पुत्री 15/3680 हिस्सा और पुत्र शेर सिंह पुत्र श्याम सिंह व गयान सिंह - गुरनाम सिंह पुत्र रामा पुत्र गंगा राम वः वः 2192/3680 हिस्सा नरिंदर कुमार पुत्र साधु राम पुत्र यादों व वेद प्रकाश पुत्र लीला राम पुत्र मेघ राज वः वः 85/3680 हिस्सा व सतपाल सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र लाभ सिंह व मुखविंदर कौर पुत्री सतपाल पुत्र करतार वः वः 257/3680 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री श्याम सिंह पुत्र गंगा राम 30/3680 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		613	निजी	कृषि	0.5088	अवतार सिंह - नरिंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सिंह वः वः 1/3 हिस्सा गुरमेल सिंह - बलदेव सिंह - तरलोचन सिंह - मोहन सिंह पुत्र हजुरा सिंह वः वः 1/3 हिस्सा नरिंदर सिंह - बलजिंदर सिंह - रजिंदर सिंह पुत्र लाभ सिंह वः वः 1/3 हिस्सा दरबारा सिंह - हरदेव सिंह पुत्र श्याम सिंह पुत्र गंगा राम वः वः 744/3680 हिस्सा हरचंद सिंह - रजिंदर सिंह - कुलदीप सिंह वः वः 357/3680 हिस्सा व सुरिंदर कौर पुत्री 15/3680 हिस्सा और पुत्र शेर सिंह पुत्र श्याम सिंह व गयान सिंह - गुरनाम सिंह पुत्र रामा पुत्र गंगा राम वः वः 2192/3680 हिस्सा नरिंदर कुमार पुत्र साधु राम पुत्र यादों व वेद प्रकाश पुत्र लीला राम पुत्र मेघ राज वः वः 85/3680 हिस्सा व सतपाल सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र लाभ सिंह व सुखविंदर कौर पुत्री सतपाल पुत्र करतार वः वः 257/3680 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री श्याम सिंह पुत्र गंगा राम 30/3680 हिस्सा
		615	निजी	कृषि	0.3647	नायब सिंह 3270/3340 हिस्सा मेवा सिंह 70/3340 हिस्सा पुत्र शाम सिंह पुत्र गंगा राम
		617	निजी	कृषि	0.0117	मेवा सिंह 188½/537 हिस्सा नैव सिंह 268½/537 हिस्सा पुत्र शाम सिंह पुत्र गंगा राम व जोगिंदर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र हरभजन सिंह 80/537 हिस्सा
		616	निजी	कृषि	0.3534	मेवा सिंह 188½/537 हिस्सा नैव सिंह 268½/537 हिस्सा पुत्र शाम सिंह पुत्र गंगा राम व जोगिंदर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र हरभजन सिंह 80/537 हिस्सा
		621	निजी	कृषि	0.3110	मेवा सिंह 188½/537 हिस्सा नैव सिंह 268½/537 हिस्सा पुत्र शाम सिंह पुत्र गंगा राम व जोगिंदर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र हरभजन सिंह 80/537 हिस्सा
		792/ 619	निजी	कृषि	0.1861	अवतार सिंह 2/193 हिस्सा नरिंदर सिंह 32/193 पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र बखतौर सिंह व जोगिंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र हरभजन सिंह 30/193 हिस्सा गुरमेल सिंह - बलदेव सिंह - तरलोचन सिंह - मोहन सिंह पुत्र व बलवंत कौर पत्नी हजुरा सिंह पुत्र दलीप सिंह वः वः 64½/193 हिस्सा नरिंदर सिंह - रजिंदर सिंह - बलजिंदर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र बखतौर सिंह वः वः 64½/193 हिस्सा
		634	निजी	कृषि	0.3708	सुरजीत सिंह पुत्र कहर सिंह पुत्र गोपाल सिंह 96/120 हिस्सा गुरचरन सिंह - गुरवचन सिंह वः वः 16/120 हिस्सा पुत्र कहर सिंह पुत्र गोपाल सिंह व सुरिंदर कौर वेवा व ईकवाल सिंह - परविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र व गुरदीप कौर - दविंदर कौर - राजिंदर कौर पुत्रीयां बलजीत सिंह पुत्र कहर सिंह वः वः 8/120 हिस्सा
		635	निजी	कृषि	0.0206	सुरजीत सिंह 172/429 हिस्सा गुरचरन सिंह - गुरवचन सिंह पुत्र कहर सिंह पुत्र गोपाल सिंह वः वः 171/429 व सुरिंदर कौर वेवा व ईकवाल सिंह - परविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र व गुरदीप कौर - दविंदर कौर - राजिंदर कौर पुत्रीयां बलजीत सिंह पुत्र कहर सिंह वः वः 86/429 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
6		636	निजी	कृषि	0.2434	सुरजीत सिंह 172/429 हिस्सा गुरचरण सिंह - गुरवचन सिंह पुत्र कहर सिंह पुत्र गोपाल सिंह वः वः 171/429 व सुरिंदर कौर बेवा व ईकवाल सिंह - परविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र व गुरदीप कौर - दविंदर कौर - राजिंदर कौर पुत्रीयां बलजीत सिंह पुत्र कहर सिंह वः वः 86/429 हिस्सा
		रास्ता		रास्ता	0.0126	रास्ता
		638	निजी	कृषि	0.1056	भूपेंदर सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह पुत्र साहिब सिंह वः वः
		639	निजी	कृषि	0.0197	भूपेंदर सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह पुत्र साहिब सिंह वः वः
		641	नगर पंचायत	रास्ता	0.0632	नगर पंचायत देह
		642	निजी	कृषि	0.0452	समशेर सिंह - कुलदीप सिंह - अजीत सिंह - निरमैल सिंह - निरमल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह वः वः
		643	निजी	कृषि	0.0545	समशेर सिंह - कुलदीप सिंह - अजीत सिंह - निरमैल सिंह - निरमल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह वः वः
	गंडा	199	निजी	कृषि	0.2124	श्रीमती सुरजीत कौर बेवा व रघुवीर सिंह - सुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र वंता सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा समशेर सिंह - कुलदीप सिंह - अजीत सिंह - निरमैल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह वः वः 1/2 हिस्सा वासी घगर सराय
		198	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1839	श्रीमती सुरजीत कौर बेवा व रघुवीर सिंह - सुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र वंता सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा समशेर सिंह - कुलदीप सिंह - अजीत सिंह - निरमैल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह वः वः 1/2 हिस्सा वासी घगर सराय
		197	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.0153	श्रीमती सुरजीत कौर बेवा व रघुवीर सिंह - सुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र वंता सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा समशेर सिंह - कुलदीप सिंह - अजीत सिंह - निरमैल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह वः वः 1/2 हिस्सा वासी घगर सराय
		186	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.3691	रचनी कौर विधवा व चंद सिंह - हजारा सिंह - सरदारा सिंह - बाला सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र मनसा राम वः वः
		187	निजी	कृषि	0.0025	रचनी कौर विधवा व चंद सिंह - हजारा सिंह - सरदारा सिंह - बाला सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र मनसा राम वः वः
		185	निजी	कृषि	0.1817	रचनी कौर विधवा व चंद सिंह - हजारा सिंह - सरदारा सिंह - बाला सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र मनसा राम वः वः
		357/184	निजी	कृषि	0.1998	दियाल पुत्र निक्का राम पुत्र मनसा राम 1/5 हिस्सा व रघवीर सिंह - सुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र वंता सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः 1/5 हिस्सा राम रघी विधवा व बलजिंदर कौर - कुलविंदर कौर व सुरिंदर कुमार पुत्र व पुत्रीयां जीत सिंह पुत्र निक्का राम वः वः 1/5 हिस्सा व राम सिंह पुत्र जोत राम पुत्र गुज्जर 1/5 हिस्सा समशेर सिंह - करनैल सिंह - सुच्चा सिंह वः वः 1/9 हिस्सा गुरमीत सिंह 4/45 हिस्सा पुत्र सरूप सिंह पुत्र चुहड सिंह

1	2	3	4	5	6	7
		181	निजी	कृषि	0.2034	दियाल पुत्र निक्का राम पुत्र मनसा राम 1/5 हिस्सा राम रखी विधवा व बलजिंदर कौर - कुलविंदर कौर पुत्रीयां व सुरिंदर कुमार पुत्र जीत राम पुत्र निक्का राम वः वः 1/5 हिस्सा व रघवीर सिंह - मुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र वंत सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः 1/5 हिस्सा राम सिंह पुत्र जोत राम पुत्र गुज्जर 1/5 हिस्सा समशेर सिंह - करनैल सिंह - सुच्चा सिंह वः वः 9/62 हिस्सा गुरमीत सिंह 17/310 हिस्सा पुत्र सरूप सिंह पुत्र चुहड सिंह
		180	निजी	कृषि	0.1974	दियाल पुत्र निक्का राम पुत्र मनसा राम 1/5 हिस्सा राम रखी विधवा व बलजिंदर कौर - कुलविंदर कौर पुत्रीयां व सुरिंदर कुमार पुत्र जीत राम पुत्र निक्का राम वः वः 1/5 हिस्सा व रघवीर सिंह - मुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र वंत सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः 1/5 हिस्सा राम सिंह पुत्र जोत राम पुत्र गुज्जर 1/5 हिस्सा समशेर सिंह - करनैल सिंह - सुच्चा सिंह वः वः 9/62 हिस्सा गुरमीत सिंह 17/310 हिस्सा पुत्र सरूप सिंह पुत्र चुहड सिंह
		174	निजी	कृषि	0.1989	दियाला 1/10 हिस्सा प्रेम चंद - अजमेर सिंह - बलदेव सिंह पुत्र निक्का राम वः वः 341/1330 हिस्सा व राम रखी विधवा जीत सिंह पुत्र निक्का राम 1/10 हिस्सा धनी राम - हरी राम - बनवारी लाल - जोगिंदर सिंह पुत्र चेतु उर्फ चेत राम पुत्र मनसा राम वः वः 2/5 हिस्सा दियालो वेवा व बलकार सिंह - गुरमीत सिंह - चरन दास तरसेन कुमार पुत्र व गुरमीत कौर पुत्री अमर नाथ पुत्र चेतु उर्फ चेत राम वः वः 3/35 हिस्सा व राज रानी वेवा व हरदीप सिंह - दलीप सिंह पुत्र मुखविंदर सिंह पुत्र अमरनाथ वः वः 1/70 हिस्सा समशेर सिंह - करनैल सिंह - सुच्चा सिंह वः वः 1/133 हिस्सा गुरमीत सिंह 2/285 हिस्सा पुत्र सरूप सिंह पुत्र चुहड सिंह व रघवीर सिंह - मुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र वंत सिंह वः वः 58/1995 हिस्सा दियाल चंद पुत्र निक्का राम पुत्र मनसा राम 1/5 हिस्सा व राम रखी विधवा व बलजिंदर कौर - कुलविंदर कौर पुत्रीयां व सुरिंदर कुमार पुत्र जीत सिंह पुत्र निक्का राम वः वः 1/5 हिस्सा व रघवीर सिंह - मुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र वंत सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः 1/5 हिस्सा राम सिंह पुत्र जोत राम पुत्र गुज्जर 1/5 हिस्सा समशेर सिंह - करनैल सिंह - सुच्चा सिंह वः वः 21/170 हिस्सा गुरमीत सिंह 13/170 हिस्सा पुत्र सरूप सिंह पुत्र चुहड सिंह
		173	निजी	कृषि	0.0294	विक्रम सिंह - निरमल सिंह पुत्र राम लाल पुत्र जोत राम वः वः
		173/1	नगर पंचायत	कृषि	0.1733	नगर पंचायत देह
		167	पंजाब सरकार व निजी	नहर व कृषि	0.1859	पंजाब सरकार..... राम रतन - राम लाल - जगीर सिंह - सुच्चा सिंह - नैव सिंह पुत्र जोत राम पुत्र गुज्जर सिंह वः वः 111/133 हिस्सा हरदेव सिंह पुत्र राम रतन पुत्र जोत राम 1/38 हिस्सा दलवीर सिंह - रणधीर सिंह पुत्र सरूप पुत्र अमर सिंह वः वः 15/133 हिस्सा मनिंदर सिंह पुत्र जोत राम पुत्र गुज्जर सिंह 1/38 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		165	पंजाब सरकार व निजी	नहर व कृषि	0.1872	पंजाब सरकार..... राम रतन - राम लाल - जगीर सिंह - मुच्चा सिंह - नैव सिंह पुत्र जोत राम पुत्र गुज्जर सिंह वः वः 111/133 हिस्सा हरदेव सिंह पुत्र राम रतन पुत्र जोत राम 1/38 हिस्सा दलवीर सिंह - रणधीर सिंह पुत्र सूरूप पुत्र अमर सिंह वः वः 15/133 हिस्सा मनिंदर सिंह पुत्र जोत राम पुत्र गुज्जर सिंह 1/38 हिस्सा
		164	पंजाब सरकार	नहर	0.1819	पंजाब सरकार
		159	पंजाब सरकार	नहर	0.1254	पंजाब सरकार
		157	निजी	कोलड सटोर व कृषि	0.0375	राम सूरूप पुत्र अमर सिंह पुत्र प्रताप सिंह राम किशन - राम नाथ - हरनेक सिंह - दलेर सिंह पुत्र कुरडीयां पुत्र जै राम
		158/1	निजी	कोलड सटोर व गैर कृषि	0.0073	राम सूरूप पुत्र अमर सिंह पुत्र प्रताप सिंह
		152/2	निजी	गैर कृषि	0.0262	सरदारा सिंह 38/559 हिस्सा गुलजार सिंह 103½/559 हिस्सा पुत्र उत्तम सिंह पुत्र कहर सिंह व गुरमीत सिंह - हरमीत सिंह पुत्र सुरजीत कौर पत्नी सरदारा सिंह वः वः 77/559 हिस्सा चेतन कौर पुत्री फकीरीआ पुत्र छज्जू 1/559 हिस्सा गुरदेव सिंह - बलवंत सिंह - नछेल्लर सिंह पुत्र चमेली बेवा नरायन सिंह वः वः 237½/559 हिस्सा जसपाल कौर पुत्री सूरूप सिंह पुत्र चमेली 13/559 हिस्सा सीमा पत्नी केवल कुमार पुत्र जै नरायन 89/559 हिस्सा
		151	निजी	कृषि	0.1931	सरदार सिंह गुलजार सिंह पुत्र उत्तम सिंह पुत्र कहर सिंह वः वः 23/159 हिस्सा गुरमीत सिंह - हरमीत सिंह पुत्र सुरजीत कौर पत्नी सरदारा सिंह वः वः 23/159 हिस्सा चेतन कौर पुत्री फकीरीआ पुत्र छज्जू 23/159 हिस्सा गुरदेव सिंह - बलवंत सिंह - नछेल्लर सिंह पुत्र चमेली बेवा नरायन सिंह वः वः 45/106 हिस्सा राज रानी पत्नी राम परताप पुत्र कुडा राम व अशोक कुमार पुत्र राम परताप पुत्र कुडा राम वः वः 15/106 हिस्सा
		150	निजी	कृषि	0.1673	सरदार सिंह गुलजार सिंह पुत्र उत्तम सिंह पुत्र कहर सिंह वः वः 23/159 हिस्सा गुरमीत सिंह - हरमीत सिंह पुत्र सुरजीत कौर पत्नी सरदारा सिंह वः वः 23/159 हिस्सा चेतन कौर पुत्री फकीरीआ पुत्र छज्जू 23/159 हिस्सा गुरदेव सिंह - बलवंत सिंह - नछेल्लर सिंह पुत्र चमेली बेवा नरायन सिंह वः वः 45/106 हिस्सा राज रानी पत्नी राम परताप पुत्र कुडा राम व अशोक कुमार पुत्र राम परताप पुत्र कुडा राम वः वः 15/106 हिस्सा
		142	निजी	कृषि	0.1758	नछेल्लर कौर विधवा व सरनजीत कौर - जसपाल कौर पुत्रीयां सादी सिंह पुत्र मेहर सिंह वः वः
		141	निजी	कृषि	0.0042	नछेल्लर कौर विधवा व सरनजीत कौर - जसपाल कौर पुत्रीयां सादी सिंह पुत्र मेहर सिंह वः वः
		140	नगर पंचायत	रास्ता	0.0193	नगर पंचायत देह

1	2	3	4	5	6	7
		138	नगर पंचायत	रास्ता	0.0456	नगर पंचायत देह
		139	पंजाब	गैर कृषि	0.9245	पंजाब सरकार
		131	केंद्रीय सरकार व निजी	गैर कृषि व कृषि	0.3570	फकीर चंद - सतपाल पुत्र बनारसी दास पुत्र गंडा राम वः वः 2/3 हिस्सा व मंगत राम - निरमल चंद पुत्र अमर नाथ पुत्र गंडा राम वः वः 1/3 हिस्सा केंद्रीय सरकार.....
		130	केंद्रीय सरकार व निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1093	फकीर चंद - सतपाल पुत्र बनारसी दास पुत्र गंडा राम वः वः 2/3 हिस्सा व मंगत राम - निरमल चंद पुत्र अमर नाथ पुत्र गंडा राम वः वः 1/3 हिस्सा केंद्रीय सरकार.....
7	मदनपुर	1065	केंद्रीय सरकार व निजी	कृषि	0.1946	फकीरीया सिंह पुत्र राम किशन पुत्र जय राम 350/2800 हिस्सा साधु सिंह पुत्र राम किशन पुत्र जय राम 1050/2800 हिस्सा नछेलर कौर पत्नी बनारसी राम पुत्र बीरू 422/2800 हिस्सा मुरजीत सिंह - राम करन - गुरुमुख सिंह वः वः 698/2800 हिस्सा हरी सिंह 140/2800 हिस्सा पुत्र व नछेलर कौर 140/2800 हिस्सा मोहन लाल पुत्र जय राम केंद्रीय सरकार.....
		1064	केंद्रीय सरकार व निजी	कृषि	0.2368	केंद्रीय सरकार
		1068	केंद्रीय सरकार व निजी	कृषि	0.1154	केंद्रीय सरकार..... पारवती पुत्री रिखी राम पुत्र हीरा
		1069	निजी	कृषि	0.1217	रघवीर सिंह - मुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र बंत सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा विला रहन व लछमन दास पुत्र चरंजी लाल पुत्र रामजी दास 1/2 हिस्सा रहन लछमन दास पुत्र चरंजी लाल पुत्र रामजी दास मुरतहिन बदले 50,000/- रुपए
		1074	निजी	कृषि	0.1333	अमर सिंह - सजान सिंह - हजारा सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र भोला सिंह वः वः
		1075	निजी	कृषि	0.1849	रघवीर सिंह - मुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र बंत सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः
		1085	निजी	कृषि	0.2006	रघवीर सिंह - मुखदेव सिंह - जोगिंदर सिंह - दिलवाग सिंह - बलजीत सिंह पुत्र बंत सिंह पुत्र संपुरन सिंह वः वः
		1080	निजी	कृषि	0.0025	अमरनाथ - बनवारी लाल - धनी राम - हरी राम - जोगिंदर सिंह पुत्र घेत राम पुत्र मना राम वः वः
		रास्ता		रास्ता	0.0464	रास्ता
		1084	नगर पंचायत	रास्ता	0.0341	नगर पंचायत देह
		1141	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.6700	नगर पंचायत देह

1	2	3	4	5	6	7
		1086	निजी	कृषि	0.1587	ओम प्रकाश - रवी चन्द - राम पाल पुत्र पुरन चन्द पुत्र गोविन्द राम वः वः 1/2 हिस्सा राम करन पुत्र धनी राम पुत्र गोविन्द राम 1/2 हिस्सा
		1087	निजी	कृषि	0.0120	ओम प्रकाश - रवी चन्द - राम पाल पुत्र पुरन चन्द पुत्र गोविन्द राम वः वः 1/2 हिस्सा राम करन पुत्र धनी राम पुत्र गोविन्द राम 1/2 हिस्सा
		1091	निजी	कृषि	0.1800	ओम प्रकाश - रवी चन्द - राम पाल पुत्र पुरन चन्द पुत्र गोविन्द राम वः वः 1/2 हिस्सा राम करन पुत्र धनी राम पुत्र गोविन्द राम 1/2 हिस्सा
		1092	निजी	कृषि	0.0937	ओम प्रकाश - रवी चन्द - राम पाल पुत्र पुरन चन्द पुत्र गोविन्द राम वः वः 1/2 हिस्सा राम करन पुत्र धनी राम पुत्र गोविन्द राम 1/2 हिस्सा
		1093	निजी	कृषि	0.1381	हजारा सिंह पुत्र चन्नन सिंह
		1100	निजी	कृषि	0.1419	अवतार सिंह गरजा सिंह जरमेल सिंह महिंदर सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र चन्नन सिंह वः वः
		1101	निजी	कृषि	0.1439	अमरनाथ - बनवारी लाल - धनी राम - हरी राम - जोगिंदर सिंह पुत्र चेत राम पुत्र मना राम वः वः
		1102	निजी	कृषि	0.0519	अमरनाथ - बनवारी लाल - धनी राम - हरी राम - जोगिंदर सिंह पुत्र चेत राम पुत्र मना राम वः वः
		1111	निजी	कृषि	0.0319	चेत राम पुत्र मसा राम पुत्र गंडा
		1112	निजी	कृषि	0.1832	चेत राम पुत्र मसा राम पुत्र गंडा
		1119	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.0103	नगर पंचायत देह
		1167	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.0233	नगर पंचायत देह
		1185	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.0295	नगर पंचायत देह
		1184	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.7993	नगर पंचायत देह
		1229	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.0767	नगर पंचायत देह
		1120	निजी	कृषि	0.1823	नछेल्लर सिंह - जसमेर सिंह - धर्मपाल पुत्र राम किशन पुत्र दुल्ला सिंह वः वः
		1121	निजी	कृषि	0.0025	नछेल्लर सिंह - जसमेर सिंह - धर्मपाल पुत्र राम किशन पुत्र दुल्ला सिंह वः वः
		1140	निजी	कृषि	0.1639	नछेल्लर सिंह - जसमेर सिंह - धर्मपाल पुत्र राम किशन पुत्र दुल्ला सिंह वः वः
		1139	निजी	कृषि	0.0028	नछेल्लर सिंह - जसमेर सिंह - धर्मपाल पुत्र राम किशन पुत्र दुल्ला सिंह वः वः
		1138	निजी	कृषि	0.0367	नछेल्लर सिंह - जसमेर सिंह - धर्मपाल पुत्र राम किशन पुत्र दुल्ला सिंह वः वः
		1136	निजी	कृषि	0.1041	नछेल्लर सिंह - जसमेर सिंह - धर्मपाल पुत्र राम किशन पुत्र दुल्ला सिंह वः वः
		1135	निजी	कृषि	0.1528	जसमेर सिंह पुत्र राम किशन पुत्र बुला सिंह 1/4 हिस्सा श्रीमती सतनाम कौर पत्नी रवेल सिंह पुत्र संगत सिंह 3/4 हिस्सा
		1134	निजी	कृषि	0.1758	जसमेर सिंह पुत्र राम किशन पुत्र बुला सिंह 1/4 हिस्सा श्रीमती सतनाम कौर पत्नी रवेल सिंह पुत्र संगत सिंह 3/4 हिस्सा
		1152	निजी	कृषि	0.0771	श्रीमती मनजीत कौर पत्नी जीत सिंह पुत्र मेहर सिंह
		1153	निजी	कृषि	0.0674	श्रीमती मनजीत कौर पत्नी जीत सिंह पुत्र मेहर सिंह
		1154	निजी	कृषि	0.1092	श्रीमती मनजीत कौर पत्नी जीत सिंह पुत्र मेहर सिंह

1	2	3	4	5	6	7
		1154 /1	निजी	कृषि	0.0421	श्रीमती मनजीत कौर पत्नी जीत सिंह पुत्र मेहर सिंह
		1156	निजी	कृषि	0.1273	श्रीमती मनजीत कौर पत्नी जीत सिंह पुत्र मेहर सिंह
		1158	निजी	कृषि	0.0987	जोगिंदर सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र साधू सिंह
		1157	निजी	कृषि	0.1433	जोगिंदर सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र साधू सिंह
		1163	निजी	कृषि	0.0624	जोगिंदर सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र साधू सिंह
		1160	निजी	कृषि	0.0506	जोगिंदर सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र साधू सिंह
		1165	निजी	कृषि	0.0209	जोगिंदर सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र साधू सिंह
		1166	निजी	कृषि	0.0026	जोगिंदर सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र साधू सिंह
		1162	निजी	कृषि	0.0506	जोगिंदर सिंह - अवतार सिंह पुत्र सौदागर सिंह
		1161	निजी	कृषि	0.0927	जोगिंदर सिंह - अवतार सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र मूल सिंह वः वः
		1181	निजी	कृषि	0.1737	बाबू सिंह पुत्र जगत सिंह मकखन सिंह 1/4 हिस्सा रावल सिंह पुत्र सरदारा सिंह पुत्र लाभ सिंह 1/2 हिस्सा श्रीमती आशा रानी पत्नी रकेश कुमार व नीरू चौधरी पत्नी लाजपत व उशा चौधरी पत्नी जगदीश कुमार व रीता चौधरी पत्नी आनंद प्रकाश व उशा चौधरी पत्नी राम चंद व किरन रानी पत्नी गुलशन नारंग व कंचन पत्नी ललित कुमार वः वः 1/4 हिस्सा
		1183	निजी	कृषि	0.1475	मेहर सिंह - जवाहर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र रुपा सिंह वः वः 2/3 हिस्सा करनैल सिंह - जोगिंदर सिंह - मान सिंह पुत्र व श्रीमती सुरजीत कौर - गुरनाम कौर - मान कौर - अमरजीत कौर पुत्रीयां वंता सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वः वः 71/240 हिस्सा जोरावर सिंह - हौशियार सिंह - बलकार सिंह - मंगल सिंह पुत्र व परमजीत कौर - बलविंदर कौर पुत्रीयां प्रकाश कौर पुत्री वंता सिंह वः वः 9/240 हिस्सा
		1182	निजी	कृषि	0.4320	मेहर सिंह - जवाहर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र रूप सिंह वः वः 2/3 हिस्सा जोरावर सिंह - हौशियार सिंह - बलकार सिंह - मंगल सिंह पुत्र व परमजीत कौर - बलविंदर कौर पुत्रीयां प्रकाश कौर पुत्री वंता सिंह वः वः 9/240 हिस्सा करनैल सिंह - जोगिंदर सिंह - मान सिंह पुत्र व श्रीमती सुरजीत कौर - गुरनाम कौर - मान कौर - अमरजीत कौर पुत्रीयां वंता सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वः वः 71/240 हिस्सा
		1186	निजी	कृषि	0.3034	जंगीर सिंह पुत्र दियाल सिंह पुत्र हाकम सिंह
		1187	निजी	कृषि	0.0464	जंगीर सिंह पुत्र दियाल सिंह पुत्र हाकम सिंह
		1180	नगर पंचायत	कृषि	0.0282	श्रीमती आशा रानी पत्नी रकेश कुमार व नीरू चौधरी पत्नी लाजपत व उशा चौधरी पत्नी जगदीश कुमार व रीता चौधरी पत्नी आनंद प्रकाश व उशा चौधरी पत्नी राम चंद व किरन रानी पत्नी गुलशन नारंग व कंचन पत्नी ललित कुमार वः वः 1/4 हिस्सा बाबू सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र मेवा सिंह 1/4 हिस्सा रवेल सिंह पुत्र सरदारा सिंह पुत्र लाभ सिंह 1/2 हिस्सा
		1191	नगर पंचायत	कृषि	0.0026	पूरन सिंह - गुरचरन सिंह - जरनैल सिंह पुत्र करतार सिंह वः वः 1/2 हिस्सा पूरन सिंह - भाग सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र सावन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा
		1190	निजी	कृषि	0.2374	पूरन सिंह - गुरचरन सिंह - जरनैल सिंह पुत्र करतार सिंह वः वः 1/2 हिस्सा पूरन सिंह - भाग सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र सावन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा
		1189	निजी	कृषि	0.1517	जंगीर सिंह पुत्र किरपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह

1	2	3	4	5	6	7
		1188	निजी	कृषि	0.0843	जंगीर सिंह पुत्र किरपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह
		1207	निजी	कृषि	0.0542	गरजा सिंह - नानक सिंह - सुच्चा सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र करम सिंह
		1208	निजी	कृषि	0.0572	गरजा सिंह - नानक सिंह - सुच्चा सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र करम सिंह
		1206	निजी	कृषि	0.0025	भजन सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र लाभ सिंह
		1230	निजी	कृषि	0.5225	बाबू सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र मकखन सिंह 1/2 हिस्सा बलदेव सिंह - गुरदेव सिंह पुत्र बूटा सिंह पुत्र मुल्ला सिंह वः वः 1/3 हिस्सा श्रीमती समित्तार कौर माता व बुध कौर व सतनाम सिंह पुत्र व राज कौर - जसवीर कौर - बलविंदर कौर - जसविंदर कौर - कुलविंदर कौर पुत्रीयां जीत सिंह पुत्र बूटा सिंह वः वः 1/6 हिस्सा
		1231	निजी	कृषि	0.5057	कशमीर सिंह - जगीर सिंह - अमरीक सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र करम सिंह वः वः
		1238	निजी	कृषि	0.2456	महेंदर सिंह 1/2 हिस्सा जोगिंदर सिंह - सुरिंदरपाल सिंह वः वः 1/2 हिस्सा पुत्र संत सिंह पुत्र गियान सिंह
		1239	निजी	कृषि	0.0118	श्रीमती समित्तार कौर माता व बुध कौर देवा व सतनाम सिंह पुत्र व राज कौर - जसवीर कौर - बलविंदर कौर - जसविंदर कौर - कुलविंदर कौर पुत्रीयां जीत सिंह बूटा सिंह वः वः 1/6 हिस्सा बलदेव सिंह - गुरदेव सिंह पुत्र बूटा सिंह पुत्र मुला सिंह वः वः 1/3 हिस्सा पूरन सिंह - भाग सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र साउन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा
		1237	निजी	कृषि	0.4046	पूरन सिंह - भाग सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र साउन सिंह वः वः
		1234	निजी	कृषि	0.1686	सेवा सिंह - गुरदेव सिंह - हरदेव सिंह पुत्र व भजन कौर - दर्शन कौर पुत्रीयां व विदिया कौर देवा उजागर सिंह पुत्र मेहर सिंह वः वः 3/4 हिस्सा फुम्न सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र गंडा सिंह 1/4 हिस्सा
		1233	निजी	कृषि	0.3961	सेवा सिंह - गुरदेव सिंह - हरदेव सिंह पुत्र व भजन कौर - दर्शन कौर पुत्रीयां व विदिया कौर देवा उजागर सिंह पुत्र मेहर सिंह वः वः 3/4 हिस्सा फुम्न सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र गंडा सिंह 1/4 हिस्सा
		1232	निजी	कृषि	0.1770	सेवा सिंह - गुरदेव सिंह - हरदेव सिंह पुत्र व भजन कौर - दर्शन कौर पुत्रीयां व विदिया कौर देवा उजागर सिंह पुत्र मेहर सिंह वः वः 3/4 हिस्सा फुम्न सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र गंडा सिंह 1/4 हिस्सा
		1235	निजी	कृषि	0.2486	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1236	निजी	कृषि	0.4256	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
8		1251	निजी	कृषि	0.2671	झडीआ सिंह पुत्र नानक सिंह 1/21 हिस्सा निशान सिंह - गुरनाम सिंह पुत्र चरन सिंह पुत्र करतार सिंह वः वः 1/7 हिस्सा अमरीक सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र बहादुर सिंह व जोगा सिंह पुत्र सवर्ण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वः वः 2/7 हिस्सा करनैल सिंह - कश्मीर सिंह पुत्र परसन सिंह पुत्र बका सिंह 1/21 हिस्सा गुरदीप सिंह पुत्र निरमल सिंह पुत्र परसन सिंह 1/42 हिस्सा मान कौर पुत्री अतर सिंह 1/14 हिस्सा संतोख सिंह - रवेल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र हाकम सिंह वः वः 8/21 हिस्सा अमरीक सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र बहादुर सिंह व जोगा सिंह पुत्र सवर्ण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वः वः
		1256	निजी	कृषि	0.0391	गुरदियाल सिंह - संतोख सिंह - दिवान सिंह पुत्र मनसा सिंह वः वः 3/8 हिस्सा मुरिंदर कौर बेवा व दलवीर सिंह - परमजीत सिंह पुत्र हरदियाल सिंह पुत्र मनसा सिंह वः वः 1/8 हिस्सा प्रभा सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/2 हिस्सा
	चमारु	1623	निजी	कृषि	0.0253	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1622	निजी	कृषि	0.0379	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1621	निजी	कृषि	0.0464	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1620	निजी	कृषि	0.0295	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1619	निजी	कृषि	0.0927	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1618	निजी	कृषि	0.1517	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1617	निजी	कृषि	0.2276	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1616	निजी	कृषि	0.2697	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1615	निजी	कृषि	0.3287	हरनाम सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र देवा सिंह
		1613	निजी	कृषि	0.0176	भोजईन्द्र सिंह पुत्र माल सिंह व राज किरन सिंह पुत्र भोजईन्द्र सिंह पुत्र माल सिंह 1260/2520 हिस्सा सरवजीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 908/2520 हिस्सा बलवीर सिंह पुत्र मंगल सिंह पुत्र देवी दयाल 352/2520 हिस्सा भोजईन्द्र सिंह पुत्र माल सिंह व राज किरन सिंह पुत्र भोजईन्द्र सिंह पुत्र माल सिंह वः वः 1730/3460 हिस्सा सरवजीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1245/3460 हिस्सा बलवीर सिंह पुत्र मंगल सिंह पुत्र देवी दयाल 485/3460 हिस्सा
9	खराजपुर	153	निजी	रास्ता	0.0735	रकवा मुतरका महाजरीन
		29	निजी	कृषि	0.1329	प्रीतम सिंह - बलवीर सिंह - हरवंस सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र मल सिंह वः वः प्रीतम सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र मल सिंह
		28	सरकार	गैर कृषि	0.0029	सरकार दौलत मदार
		26	निजी	कृषि	0.6516	हरवंस सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र मलसिंह 1/3 हिस्सा अंजली गुप्ता पत्नी राजीव कुमार पुत्र रमेशवर दास 1/2 हिस्सा सुमन सूद पत्नी नरेश सूद पुत्र जगदीश चंद व मनीशा सूद पत्नी अनिल सूद पुत्र जगदीश चंद वः वः 1/6 हिस्सा
		27	निजी	कृषि	0.3551	हरवंस सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र मलसिंह 1/3 हिस्सा अंजली गुप्ता पत्नी राजीव कुमार पुत्र रमेशवर दास 1/2 हिस्सा सुमन सूद पत्नी नरेश सूद पुत्र जगदीश चंद व मनीशा सूद पत्नी अनिल सूद पुत्र जगदीश चंद वः वः 1/6 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		25	निजी	कृषि	0.5689	अमरीक सिंह पुत्र ठाकर सिंह पुत्र हवेला सिंह 41/285 हिस्सा भुपेंदर कोहली पुत्र साधु राम पुत्र छेज्जु राम 122/285 हिस्सा भजन सिंह - साधु सिंह पुत्र कपूर सिंह 82/285 हिस्सा रकेश कुमार पुत्र मदन लाल पुत्र मन्नु राम 40/285 हिस्सा
		24	निजी	कृषि	0.6762	अमरीक सिंह पुत्र ठाकर सिंह पुत्र हवेला सिंह 41/285 हिस्सा भुपेंदर कोहली पुत्र साधु राम पुत्र छेज्जु राम 122/285 हिस्सा भजन सिंह - साधु सिंह पुत्र कपूर सिंह 82/285 हिस्सा रकेश कुमार पुत्र मदन लाल पुत्र मन्नु राम 40/285 हिस्सा
		23	निजी	कृषि	0.3666	दलीप सिंह - भूरत सिंह - बुध सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र जमीत सिंह
		22	निजी	कृषि	0.4425	करम सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र चन्दा सिंह
		21	निजी तथा बिजली बोर्ड	कृषि तथा खम्बा	0.5605	लखविंदर सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र संत सिंह 1/2 हिस्सा राजविंदर कौर पत्नी हरभजन सिंह पुत्र करम सिंह 1/2 हिस्सा पंजाब राज बिजली बोर्ड
		20	निजी	कृषि	0.2444	लखविंदर सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र संत सिंह 1/2 हिस्सा राजविंदर कौर पत्नी हरभजन सिंह पुत्र करम सिंह 1/2 हिस्सा पंजाब राज बिजली बोर्ड
		19	निजी	होटल व कृषि	0.3582	हरिंदर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र करनैल सिंह
		18/1	निजी	कृषि	0.1854	दविंदर कौर बेवा व परमजीत सिंह - रजिंदर सिंह - मुखविंदर कौर पुत्र व पुत्रीयां रछपाल सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 3/25 हिस्सा गुरधियान सिंह - तीर्थ सिंह - भूपेंदर सिंह - भगवंत सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 12/25 हिस्सा बलविंदर सिंह पुत्र तीर्थ सिंह पुत्र संत सिंह 2/5 हिस्सा
		17/1	निजी	कृषि	0.1896	दविंदर कौर बेवा व परमजीत सिंह - रजिंदर सिंह - मुखविंदर कौर पुत्र व पुत्रीयां रछपाल सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 3/25 हिस्सा गुरधियान सिंह - तीर्थ सिंह - भूपेंदर सिंह - भगवंत सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 12/25 हिस्सा बलविंदर सिंह पुत्र तीर्थ सिंह पुत्र संत सिंह 2/5 हिस्सा
		18	निजी	कृषि	0.1854	प्यार कौर बेवा व गयान कौर - तख्त कौर - वेअंत कौर - भजन कौर - जीत कौर - परमजीत कौर पुत्रीयां देवा सिंह पुत्र शाम सिंह वः वः
		17	निजी	कृषि	0.1896	प्यार कौर बेवा व गयान कौर - तख्त कौर - वेअंत कौर - भजन कौर - जीत कौर - परमजीत कौर पुत्रीयां देवा सिंह पुत्र शाम सिंह वः वः
		16	निजी	कृषि	0.4383	दविंदर कौर बेवा व परमजीत सिंह - रजिंदर सिंह - मुखविंदर कौर पुत्र व पुत्रीयां रछपाल सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 3/25 हिस्सा गुरधियान सिंह - तीर्थ सिंह - भूपेंदर सिंह - भगवंत सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र सरप सिंह वः वः 12/25 हिस्सा बलजिंदर सिंह पुत्र तीर्थ सिंह पुत्र संत सिंह 2/5 हिस्सा प्यार कौर बेवा व गयान कौर - तख्त कौर - वेअंत कौर - भजन कौर - जीत कौर - परमजीत कौर पुत्रीयां देवा सिंह पुत्र शाम सिंह वः वः
		15	निजी	कृषि	0.9187	दौलत सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र हुकम सिंह
		14	निजी	रास्ता	0.0716	रकवा मुतरका महाजरीन

1	2	3	4	5	6	7
		13	निजी	कृषि	0.3034	प्रीतम कौर बेवा व बूटा सिंह पुत्र मतवंन्ना दलीप सिंह वः वः 1/2 हिस्सा भाग सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र वसावा सिंह 1/2 हिस्सा
		12	निजी	कृषि	0.3413	भाग सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र महा सिंह 1/2 हिस्सा प्रीतम कौर बेवा व बुध सिंह पुत्र मतवंन्ना दलीप सिंह पुत्र वसावा सिंह वः वः 1/2 हिस्सा
		11	निजी	कृषि	0.1096	भाग सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र वसावा सिंह 1/2 हिस्सा प्रीतम कौर बेवा व बूटा सिंह मतवंन्ना दलीप सिंह पुत्र वसावा सिंह वः वः 1/2 हिस्सा
		10	निजी	कृषि	0.3287	भाग सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र वसावा सिंह 1/2 हिस्सा प्रीतम कौर बेवा व बुध सिंह मतवंन्ना दलीप सिंह पुत्र वसावा सिंह वः वः 1/2 हिस्सा
		9/3	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.6321	संगारा सिंह पुत्र फान सिंह हरवंस कौर बेवा अतर सिंह पुत्र महा सिंह भाग सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र वसावा सिंह 1/2 हिस्सा प्रीतम कौर बेवा व बूटा सिंह मतवंन्ना दलीप सिंह पुत्र वसावा वः वः 1/2 हिस्सा
		9/2	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.2191	संगारा सिंह पुत्र फान सिंह हरवंस कौर बेवा अतर सिंह पुत्र महा सिंह भाग सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र वसावा सिंह 1/2 हिस्सा प्रीतम कौर बेवा व बूटा सिंह मतवंन्ना दलीप सिंह पुत्र वसावा वः वः 1/2 हिस्सा
		9/1	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1096	संगारा सिंह पुत्र फान सिंह हरवंस कौर बेवा अतर सिंह पुत्र महा सिंह भाग सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र वसावा सिंह 1/2 हिस्सा प्रीतम कौर बेवा व बूटा सिंह मतवंन्ना दलीप सिंह पुत्र वसावा वः वः 1/2 हिस्सा
		8/2	निजी	कृषि	0.2318	मनी सिंह पुत्र महा सिंह पुत्र आत्मा सिंह संगारा सिंह पुत्र फान सिंह
		8/1	निजी	कृषि	0.6363	मनी सिंह पुत्र महा सिंह पुत्र आत्मा सिंह संगारा सिंह पुत्र फान सिंह
		7/1	पंजाब सरकार तथा निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1643	लाभ सिंह - विद्या कौर पुत्री शेर सिंह पुत्र लटकन सिंह वः वः 1/4 हिस्सा — हरवंस सिंह - भजन सिंह - जोगिंदर सिंह - अमरीक सिंह पुत्र भाग सिंह 1/4 हिस्सा मुरिंदर सिंह - मोहन सिंह - सोहन सिंह पुत्र दर्शन सिंह 1/6 हिस्सा अंगेज सिंह - मुखदेव सिंह - जसवंत सिंह पुत्र महेंदर सिंह 1/6 हिस्सा दर 1/5 हिस्सा गुरवक्श सिंह - निमान सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र शेर सिंह वः वः 1/4 हिस्सा..... दर्शन सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र शेर सिंह गुरदीप चौहान पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र नानक सिंह विपन वरमा पुत्र वासदेव पुत्र गलामत राए..... पंजाब सरकार.....

1	2	3	4	5	6	7
		7/2	पंजाब सरकार तथा निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1486	लाभ सिंह - विद्या कौर पुत्री शेर सिंह पुत्र लटकन सिंह वः वः 1/4 हिस्सा — हरवंस सिंह - भजन सिंह - जोगिंदर सिंह - अमरीक सिंह पुत्र भाग सिंह 1/4 हिस्सा सुरिंदर सिंह - मोहन सिंह - सोहन सिंह पुत्र दर्शन सिंह 1/6 हिस्सा अंग्रेज सिंह - सुखदेव सिंह - जसवंत सिंह पुत्र महेंदर सिंह 1/6 हिस्सा दर 1/5 हिस्सा गुरवक्श सिंह - निसान सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र शेर सिंह वः वः 1/4 हिस्सा..... दर्शन सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र शेर सिंह गुरदीप चौहान पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र नानक सिंह विपन वरमा पुत्र वासदेव पुत्र गलामत राए..... पंजाब सरकार.....
		7/3	पंजाब सरकार तथा निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1770	लाभ सिंह - विद्या कौर पुत्री शेर सिंह पुत्र लटकन सिंह वः वः 1/4 हिस्सा — हरवंस सिंह - भजन सिंह - जोगिंदर सिंह - अमरीक सिंह पुत्र भाग सिंह 1/4 हिस्सा सुरिंदर सिंह - मोहन सिंह - सोहन सिंह पुत्र दर्शन सिंह 1/6 हिस्सा अंग्रेज सिंह - सुखदेव सिंह - जसवंत सिंह पुत्र महेंदर सिंह 1/6 हिस्सा दर 1/5 हिस्सा गुरवक्श सिंह - निसान सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र शेर सिंह वः वः 1/4 हिस्सा..... दर्शन सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र शेर सिंह गुरदीप चौहान पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र नानक सिंह विपन वरमा पुत्र वासदेव पुत्र गलामत राए..... पंजाब सरकार.....
		6	पंजाब सरकार तथा निजी	गैर कृषि व कृषि	0.4834	लाभ सिंह - विद्या कौर पुत्री शेर सिंह पुत्र लटकन सिंह वः वः 1/4 हिस्सा — हरवंस सिंह - भजन सिंह - जोगिंदर सिंह - अमरीक सिंह पुत्र भाग सिंह 1/4 हिस्सा सुरिंदर सिंह - मोहन सिंह - सोहन सिंह पुत्र दर्शन सिंह 1/6 हिस्सा अंग्रेज सिंह - सुखदेव सिंह - जसवंत सिंह पुत्र महेंदर सिंह 1/6 हिस्सा दर 1/5 हिस्सा गुरवक्श सिंह - निसान सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र शेर सिंह वः वः 1/4 हिस्सा..... पंजाब सरकार.....
		1	सरकार	जी टी रोड	1.2261	सरकार दौलत मदार
		5	पंजाब	गैर कृषि	0.4294	पंजाब सरकार
		4	पंजाब सरकार तथा निजी	गैर कृषि	0.4460	नरेश कुमार पुत्र प्रेम चंद पुत्र दशोधी राम 1/4 हिस्सा पविंदर कुमार पुत्र अमर चंद पुत्र राम सूरूप 1/4 हिस्सा श्रीमती वीना पत्नी जसवीर सिंह सोढी पुत्र अजीत सिंह 1/4 हिस्सा बहादुर सिंह पुत्र बालक राम पुत्र दित्ता राम 1/4 हिस्सा..... पंजाब सरकार
		3	निजी	कृषि	0.3461	गुरुमुख सिंह - बचन सिंह - बुध सिंह - ध्यान सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र लहना सिंह वः वः
		2	निजी	कृषि	0.3727	गुरुमुख सिंह - बचन सिंह - बुध सिंह - ध्यान सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र लहना सिंह वः वः

1	2	3	4	5	6	7
10	बीड राजपुरा	22	निजी	गैर कृषि	0.5300	<p>जसवीर सिंह पुत्र मनोहर सिंह पुत्र हाकम सिंह 4000/23750 हिस्सा करम सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र निरंजन सिंह 681/23750 हिस्सा हरप्रोत सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र करम सिंह 1256/23750 हिस्सा दलीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटू सिंह 278/23750 हिस्सा देवकी नंदन पुत्र साधु राम पुत्र जादों राय 2000/23750 हिस्सा प्रेम सागर पुत्र हरी चंद पुत्र जानकी दास 74/23750 हिस्सा सतिआ पाल पुत्र फुला राम पुत्र काहन राम 125/23750 हिस्सा रणजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र हरी चंद 159/23750 हिस्सा निरमै सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र अमर सिंह 286/23750 हिस्सा अमर चंद पुत्र पोखर दास पुत्र देवा राम राम 137/23750 हिस्सा श्रीमती कुलवंत कौर पत्नी राम चंद पुत्र बनारसी दास 168/23750 हिस्सा रकेश सिंगला पुत्र पवन कुमार पुत्र अच्युत मल्ल सपना सिंगला पत्नी रजेश सिंगला पुत्र पवन सिंगला 111/23750 हिस्सा दिनेश सिंगला पुत्र पवन सिंगला पुत्र अच्यु मालव अमिता सिंगला पत्नी दिनेश सिंगला पुत्र पवन सिंगला वः वः 38/23750 हिस्सा विजय धारनी पुत्र राम कुमार पुत्र तुलसी राम 75/23750 हिस्सा बलराम पुत्र बलवंत राम पुत्र पाला राम 63/23750 हिस्सा संजीव कुमार पुत्र हुकम चंद पुत्र धनी राम 38/23750 हिस्सा सुदेश कुमार पुत्र मेघ राज पुत्र आसा नंद 178/23750 हिस्सा</p> <p>कपिल कुमार पुत्र रजिंदर कुमार पुत्र आतम प्रकाश 180/23750 हिस्सा अजय कुमार पुत्र जीत राम सूरत राम 328/23750 हिस्सा सुधीर कुमार पुत्र रजिंदर कुमार पुत्र मनी राम 191/23750 हिस्सा रजिंदर कुमार पुत्र जसवंत सिंह पुत्र रामा नंद 273/23750 हिस्सा चरनजीत सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र बुध सिंह 116/23750 हिस्सा नवजीत सूद पुत्र सुरेश कुमार पुत्र जगदीश चंद 134/23750 हिस्सा संजीव कुमार - प्रेम चंद पुत्र हरी चंद व श्रीमती रेखा रानी पत्नी केवल कुमार पुत्र रामा नंद वः वः 72/23750 हिस्सा नवीन सेठ पुत्र किशन कुमार पुत्र चुन्नी लाल 65/23750 हिस्सा जगजीत कौर पत्नी रघवीर सिंह पुत्र तारा सिंह 111/23750 हिस्सा रघवीर सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र जैमल सिंह 171/23750 हिस्सा जसवंत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र बधावा सिंह 192/23750 हिस्सा गुरचरन सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गंगा सिंह 133/23750 हिस्सा चरनजीत सिंह पुत्र खजान सिंह पुत्र उधम सिंह 67/23750 हिस्सा गुरमेल सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र मंगल सिंह 147/23750 हिस्सा रतना देवी पत्नी विशन दास पुत्र रघुपत राय 109/23750 हिस्सा निरमल सिंह - जतिंदर सिंह पुत्र महेंदर सिंह पुत्र फकीर सिंह 145/23750 हिस्सा हरीश कुमार पुत्र बदरी नाथ पुत्र संत राम 132/23750 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>सरवजीत कौर पत्नी पूरन सिंह पुत्र चन्नन सिंह 65/23750 हिस्सा दविंदर कुमार पुत्र गोला राम पुत्र सोभन राज 14/23750 हिस्सा सोनीया - असवनी कुमार - सुमन - सीमा - संताना - बलदेव किशन पुत्र राधु राम 142/23750 हिस्सा यशपाल पुत्र नन्द लाल पुत्र टाल भारती 60/23750 हिस्सा किरनप्रीत कौर पत्नी जगवीर सिंह पुत्र तारा सिंह 1412/23750 हिस्सा कावल सिंह पुत्र सोमा सिंह पुत्र मंगल सिंह 400/23750 हिस्सा जसवंत सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र तेजा सिंह 400/23750 हिस्सा संतोख सिंह पुत्र हरबंस सिंह पुत्र देवा सिंह 148/23750 हिस्सा जसविंदर सिंह पुत्र बलवीर सिंह पुत्र विशन सिंह 250/23750 हिस्सा अभित कौर पत्नी नरिंदर सिंह व श्रीमती मरन मलहोत्रा पत्नी प्रदीप नलहोत्रा वः वः 1300/23750 हिस्सा सुनीता कपूर पत्नी हरीश कुमार 51/23750 हिस्सा हरीश चंदर पुत्र राम सरन पुत्र रामा नन्द 168/23750 हिस्सा जसपाल सिंह पुत्र सूरत सिंह पुत्र बुध सिंह 52/23750 हिस्सा विजय कुमार पुत्र गुरदित्ता राम पुत्र झांझी राम 1/3 हिस्सा अजय कुमार पुत्र सदा नन्द पुत्र किशन चन्द 1/3 हिस्सा हरीश कुमार पुत्र खेम चन्द 1/3 हिस्सा दर 81/23750 हिस्सा सतपाल पुत्र जगीरा राम 148/23750 हिस्सा बलवीर कौर पत्नी प्रीतपाल सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह 230/23750 हिस्सा</p>
						<p>परविंदर सिंह पुत्र सेवा सिंह पुत्र पूरन सिंह 616/23750 हिस्सा गुरजीत सिंह पुत्र मान सिंह पुत्र सूरत सिंह 1365/23750 हिस्सा रिशी पाल पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह व जवाला सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र केसर सिंह व दर्शन सिंह पुत्र गुच्चा सिंह पुत्र हजारा सिंह वः वः 688/23750 हिस्सा तजिंदर सिंह पुत्र खलवंत सिंह पुत्र बूटा सिंह 1/2 हिस्सा अमनदीप सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र बूटा सिंह 1/2 हिस्सा दर 496/23750 हिस्सा परमजीत सिंह - खवीर सिंह पुत्र मुरजीत सिंह पुत्र काहल सिंह 50/23750 हिस्सा आशा रानी बेवा हरजीत सिंह पुत्र भगवंत सिंह 273/23750 हिस्सा हरबंस सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र आशा सिंह 9/23750 हिस्सा करमजीत कौर पत्नी दर्श न सिंह पुत्र नत्था सिंह 9/23750 हिस्सा शिव राम पुत्र धन्नु राम पुत्र लोको राम व सीलो वाई पत्नी शिव राम पुत्र धन्नु राम 94½/23750 हिस्सा नवलीन कौर पत्नी जसविंदर सिंह पुत्र बलवीर सिंह 200/23750 हिस्सा रविंदर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र गंडा सिंह 50/23750 हिस्सा रनधीर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र राम सिंह 50/23750 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र वेअंत सिंह पुत्र राम सिंह 48/23750 हिस्सा रणजीत सिंह पुत्र अजैव सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 36/23750 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>हरभजन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र नराता सिंह 29/23750 हिस्सा परिंदर सिंह पुत्र सेवा सिंह पुत्र पून सिंह 489/23750 हिस्सा रविंदर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र गंडा सिंह 50/23750 हिस्सा मुखतियार सिंह पुत्र धनवंत सिंह पुत्र पून सिंह 1/2 हिस्सा कमलेश कुमारी पत्नी शाम लाल पुत्र भवानी दास 1/2 हिस्सा ... दर 31/23750 हिस्सा अनिल कुमार पुत्र हंस राज पुत्र सूरत लाल व सीता देवी पत्नी अनिल कुमार पुत्र हंस राज वः वः 118/23750 हिस्सा दर्शन गिर पुत्र शंकर गिर पुत्र आत्मा गिर 21 1/3/23750 हिस्सा जै किशन पुत्र बनारसी दास पुत्र राधा किशन 491/23750 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र पितपाल सिंह पुत्र धर्म सिंह 250/23750 हिस्सा नवजीत सूद पुत्र सुरेश कुमार पुत्र जगदीश चंद 34/23750 हिस्सा अमनदीप सिंह पुत्र भुपेंद्र सिंह पुत्र करतार सिंह 14 1/2/23750 हिस्सा इन्द्रजीत सिंह पुत्र चंनन सिंह पुत्र हरदित्त सिंह 90/23750 हिस्सा मधु गुपता पत्नी मुंदर लाल पुत्र भोला नाथ 450/23750 हिस्सा हरविंदर सिंह पुत्र बलजीत सिंह पुत्र परसन सिंह पुत्र 38/23750 हिस्सा मनिंदर सिंह पुत्र बलजीत सिंह पुत्र परसन सिंह 39/23750 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र पितपाल सिंह पुत्र धर्म सिंह 50/23750 हिस्सा गुरिंदर कटारीआ पत्नी प्रेम चंद पुत्र सोहन लाल व</p> <p>सीरज कुमार पुत्र योगिंदर मोहन व परमजीत पुत्र अवतार किशन पुत्र हरी किशन वः वः 2300/23750 हिस्सा परमजीत सिंह पुत्र रजिंदर सिंह पुत्र सूरूप सिंह 14 1/2/23750 हिस्सा रजिंदर कुमार पुत्र आत्मा प्रकाश पुत्र दीन दयाल 150/23750 हिस्सा रणजीत सिंह पुत्र कर्नैल सिंह 191/23750 हिस्सा हरचंद सिंह 159/23750 हिस्सा शिव राम पुत्र धनु राम पुत्र लकु राम व सीलो वाई पत्नी शिव राम पुत्र धनु राम वः वः 94 1/2/23750 हिस्सा</p>
		576	पंजाब सरकार	कच्चा रास्ता	0.7492	पंजाब सरकार
		21	पंजाब सरकार	सड़क	0.2512	पंजाब सरकार
11	राजपुरा	527	पंजाब सरकार	वाईपास	0.2006	पंजाब सरकार
		610	पंजाब सरकार	वाईपास समाधि मकान	0.0505	पंजाब सरकार
		297	पंजाब सरकार	वाईपास	0.3662	पंजाब सरकार
		275	नगर पालिका	पलाट	0.0025	नगर पालिका राजपुरा
		277	नगर पालिका	गैर कृषि	0.0050	नगर पालिका राजपुरा
		276	नगर पालिका	पलाट	0.2143	नगर पालिका राजपुरा
		295	नगर पालिका	पलाट व गैर कृषि	0.0102	नगर पालिका राजपुरा
		296	नगर पालिका	गैर कृषि	0.0107	नगर पालिका राजपुरा

1	2	3	4	5	6	7
		368	नगर पालिका	गैर कृषि	0.2041	नगर पालिका राजपुरा
		369	नगर पालिका	गैर कृषि	0.1002	नगर पालिका राजपुरा
		363	निजी	प्लॉट व मकान	0.0155	कथमीरी लाल पुत्र मुख राम पुत्र शंकर राम..... हरी राम पुत्र मुनशी राम 1/3 हिस्सा बागडीआ राम पुत्र प्रेम चंद पुत्र दाता राम 16 2/3 /350 हिस्सा नीलम पत्नी विजय कुमार 100/350 हिस्सा प्रवीन पुत्री फकीर चंद 1/3 हिस्सा..... अमरजोत सिंह - मनमोहनजीत सिंह - दविंदर सिंह - अवतार सिंह - जसवंत सिंह पुत्र व मनमोहनजीत कौर 6/10 इन्द्रजीत सिंह 1/5 हिस्सा पुत्र कृपा पुत्र वस्ता सिंह व मुखदेव सिंह - दर्शन सिंह पुत्र रविंदर सिंह पुत्र कृपा सिंह 1/5 हिस्सा दर 9/10 हिस्सा महेंदर सिंह पुत्र जगीर सिंह पुत्र दया सिंह 1/10 हिस्सा।
		364/1/1	निजी	प्लॉट व मकान	0.0444	मुखदर्शन सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र गुरवक्ष सिंह पुत्र करतार सिंह 668/3445 हिस्सा पाला राम पुत्र प्रीतम राम पुत्र फकीरीआं राम 100/3445 हिस्सा मोहन लाल पुत्र इन्द्र राम पुत्र मातु राम 125/3445 हिस्सा बंत राम 125/3445 हिस्सा सुरेंद्र सिंह 200/3445 हिस्सा हरवंस सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मुनसी 39/3445 हिस्सा नीतीका गोयल पत्नी विमल गोयल 213/3445 हिस्सा गुरदयाल सिंह पुत्र तरलोक सिंह पुत्र बरियाम सिंह 25/342 हिस्सा सुनीता रानी पत्नी कुलदीप कुमार पुत्र हरी राम 50/342 हिस्सा जगजीवन राम - सोरब कुमार पुत्र हरी चंद 21/342 हिस्सा नंद लाल पुत्र किशन दास पुत्र नेता राम 10/114 हिस्सा राम विलास पुत्र सिरी राम व किरना देवी पत्नी राम विलास 10/342 हिस्सा
		रास्ता		रास्ता	0.0398	रास्ता
		364	निजी	गैर कृषि रास्ता व मकान	0.1249	मुखदर्शन सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र हरवंस सिंह पुत्र करतार सिंह 2/3 हिस्सा करनैल सिंह - जरनैल सिंह पुत्र रतन सिंह 1/3 हिस्सा..... जरनैल सिंह - करनैल सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र करतार सिंह 104/330 हिस्सा हरी राम पुत्र मुनसी राम पुत्र सुखराम 60/330 हिस्सा सोहन लाल पुत्र इन्द्र राम पुत्र मातु राम 50/330 हिस्सा जोगिंदर सिंह पुत्र जिउना पुत्र हरीआं 15/330 हिस्सा कुलदीप कुमार पुत्र हरी चंद पुत्र सावन राम 50/1660 हिस्सा कैलाश देवी पत्नी ओम प्रकाश 50/1660 हिस्सा बलवीर कौर पत्नी लज्जा राम 140/1660 हिस्सा प्यारा सिंह - बूटा सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र जिउन सिंह 53/330 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		366	निजी	फैकटरी	0.1241	अमरजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2865/22920 हिस्सा गुरिंदर सिंह पुत्र भगवान सिंह 1365/22920 हिस्सा किरनजीत कौर पत्नी मुखजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1500/22920 हिस्सा सुरिंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र आत्मा सिंह 4230/22920 हिस्सा मुखजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1300/22920 हिस्सा राज कुमार पुत्र टेक चंद पुत्र प्यारे लाल 200/22920 हिस्सा महेंदर कुमार पुत्र पिसौरी लाल पुत्र महेश दास 3084/22920 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जंग सिंह 1500/22920 हिस्सा दिनेश कुमार पुत्र नरिंदर लाल पुत्र सीता राम 1146/22920 हिस्सा इन्द्रजीत सिंह पुत्र नरायन सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2865/22920 हिस्सा भूपेंदर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1500/22920 हिस्सा
		367	निजी	फैकटरी	0.1031	अमरजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2865/22920 हिस्सा गुरिंदर सिंह पुत्र भगवान सिंह 1365/22920 हिस्सा किरनजीत कौर पत्नी मुखजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1500/22920 हिस्सा सुरिंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र आत्मा सिंह 4230/22920 हिस्सा मुखजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1300/22920 हिस्सा राज कुमार पुत्र टेक चंद पुत्र प्यारे लाल 200/22920 हिस्सा महेंदर कुमार पुत्र पिसौरी लाल पुत्र महेश दास 3084/22920 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जंग सिंह 1500/22920 हिस्सा दिनेश कुमार पुत्र नरिंदर लाल पुत्र सीता राम 1146/22920 हिस्सा इन्द्रजीत सिंह पुत्र नरायन सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2865/22920 हिस्सा भूपेंदर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1500/22920 हिस्सा
		372/1	निजी	फैकटरी	0.0322	अमरजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2865/22920 हिस्सा गुरिंदर सिंह पुत्र भगवान सिंह 1365/22920 हिस्सा किरनजीत कौर पत्नी मुखजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1500/22920 हिस्सा सुरिंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र आत्मा सिंह 4230/22920 हिस्सा मुखजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1300/22920 हिस्सा राज कुमार पुत्र टेक चंद पुत्र प्यारे लाल 200/22920 हिस्सा महेंदर कुमार पुत्र पिसौरी लाल पुत्र महेश दास 3084/22920 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जंग सिंह 1500/22920 हिस्सा दिनेश कुमार पुत्र नरिंदर लाल पुत्र सीता राम 1146/22920 हिस्सा इन्द्रजीत सिंह पुत्र नरायन सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2865/22920 हिस्सा भूपेंदर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1500/22920 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		371	निजी	कैकटरी	0.0358	अमरजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2865/22920 हिस्सा गुरिंदर सिंह पुत्र भगवान सिंह 1365/22920 हिस्सा किरनजीत कौर पत्नी सुखजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1500/22920 हिस्सा गुरिंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र आत्मा सिंह 4230/22920 हिस्सा सुखजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1300/22920 हिस्सा राज कुमार पुत्र टेक चंद पुत्र प्यारे लाल 200/22920 हिस्सा महेंदर कुमार पुत्र पिसौरी लाल पुत्र महेश दास 3084/22920 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जंग सिंह 1500/22920 हिस्सा दिनेश कुमार पुत्र नरिंदर लाल पुत्र सीता राम 1146/22920 हिस्सा इन्द्रजीत सिंह पुत्र नरायन सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2865/22920 हिस्सा भूपेंदर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1500/22920 हिस्सा
		370	सामलात देह	सड़क	0.2687	सामलात देह रकबा हसद खेवट
		25	सामलात देह	गैर कृषि	0.0885	सामलात देह रकबा हसद खेवट
		24	सामलात देह	गैर कृषि	0.2580	सामलात देह रकबा हसद खेवट
		18	सामलात देह	गैर कृषि	0.2757	सामलात देह रकबा हसद खेवट
		12	सामलात देह	गैर कृषि	0.2808	सामलात देह रकबा हसद खेवट
		370/1	सामलात देह	गैर कृषि	0.0311	सामलात देह
		5	सामलात देह	सड़क	0.1312	सामलात देह रकबा हसद खेवट
		69	पंजाब सरकार व निजी	गैर कृषि	1.5246	किशन देव पुत्र जय दयाल पुत्र दित्ता राम..... पंजाब सरकार
		11	वकफ बोर्ड	कविस्तान	0.2934	पंजाब वकफ बोर्ड
		1	निजी	कृषि	0.0788	रजिंदर कौर बेवा व अरमीत सिंह - कमलप्रीत सिंह - मनदीप सिंह पुत्र नरिंदरपाल सिंह 2/9 हिस्सा जतिंदरपाल सिंह - कमलईन्द्र सिंह 4/9 हिस्सा हिस्सा गुरिंदरपाल सिंह पुत्र वंदविंदर कौर 1/3 हिस्सा पुत्री निरंजन सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह
		6	निजी	कृषि	0.1290	परसेवक सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र मतवना जाती सिंह रजिंदर कौर बेवा व अरमीत सिंह - कमलप्रीत सिंह - मनदीप सिंह पुत्र नरिंदरपाल सिंह 2/9 हिस्सा जतिंदरपाल सिंह - कमलईन्द्र सिंह पुत्र 4/9 हिस्सा गुरईन्द्रपाल सिंह व दविंदर कौर 1/3 हिस्सा पुत्री निरंजन सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह
		5	निजी	कृषि	0.3827	परसेवक सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र मतवना जाती सिंह रजिंदर कौर बेवा व अरमीत सिंह - कमलप्रीत सिंह - मनदीप सिंह पुत्र नरिंदरपाल सिंह 2/9 हिस्सा जतिंदरपाल सिंह - कमलईन्द्र सिंह पुत्र 4/9 हिस्सा गुरईन्द्रपाल सिंह व दविंदर कौर 1/3 हिस्सा पुत्री निरंजन सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह
		4	निजी	कृषि	0.1922	प्रभुदत्त - लोक नाथ - बलदेव राज पुत्र मनु राम पुत्र दित्ता राम
		25	निजी	कृषि	0.0503	प्रभुदत्त - लोक नाथ - बलदेव राज पुत्र मनु राम पुत्र दित्ता राम
		24	निजी	कृषि	0.3239	प्रभुदत्त - लोक नाथ - बलदेव राज पुत्र मनु राम पुत्र दित्ता राम
		17	निजी	कृषि	0.0164	प्रभुदत्त - लोक नाथ - बलदेव राज पुत्र मनु राम पुत्र दित्ता राम
		23	निजी	कृषि	0.2732	मुनीप चंद - सतीश चंद - सुभाष चंद - रमेश चंद - राज कुमार पुत्र सोम राज पुत्र दित्ता राम वः वः

1	2	3	4	5	6	7
		226	निजी	रास्ता व कृषि	0.0604	गुरनेज सिंह - मुखदेव सिंह - इन्द्रजीत सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र बुधा सिंह
		224	निजी	कृषि	0.0025	गुरनेज सिंह - मुखदेव सिंह - इन्द्रजीत सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र बुधा सिंह
		221	निजी	कृषि	0.0199	गुरनेज सिंह - मुखदेव सिंह - इन्द्रजीत सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र बुधा सिंह
		223	निजी	कृषि	0.4224	मुखदेव सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र बुधा सिंह गुरनेज सिंह - मुखदेव सिंह - इन्द्रजीत सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र बुधा सिंह
		222	निजी	कृषि	0.1306	मुखदेव सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र बुधा सिंह
		220	निजी	कृषि	0.2929	वचन सिंह पुत्र लैहना सिंह पुत्र राम सिंह 7/8 हिस्सा मुखदेव सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र बुधा सिंह 1/8 हिस्सा
		218	निजी	कृषि	0.4031	गुरनाम सिंह - वक्सीश सिंह पुत्र वचन सिंह पुत्र लैहना सिंह वः वः वचन सिंह पुत्र लैहना सिंह पुत्र राम सिंह 7/8 हिस्सा मुखदेव सिंह पुत्र गयान सिंह पुत्र बुधा सिंह 1/8 हिस्सा
		217	निजी	कृषि	0.0105	गुरनाम सिंह - वक्सीश सिंह पुत्र वचन सिंह पुत्र लैहना सिंह वः वः
		180	नगर पंचायत	कृषि	0.2107	नगर पंचायत
		181	नगर पंचायत	कृषि	0.1774	नगर पंचायत
		179	नगर पंचायत	कृषि	0.3539	नगर पंचायत
		177	नगर पंचायत	कृषि	0.0473	नगर पंचायत
		178	नगर पंचायत	कृषि	0.1391	नगर पंचायत
		176	नगर पंचायत	कृषि	0.2536	नगर पंचायत
		173	नगर पंचायत	कृषि	0.2739	नगर पंचायत
		174	नगर पंचायत	कृषि	0.1151	नगर पंचायत
		172	नगर पंचायत	कब्रिस्तान	0.0822	नगर पंचायत
		171	नगर पंचायत	गैर कृषि	0.1397	नगर पंचायत
		170	नगर पंचायत	कब्रिस्तान	0.1799	नगर पंचायत
		188	निजी	कृषि	0.0038	वलकार सिंह - ईकवाल सिंह - वक्सीश सिंह पुत्र सरन सिंह पुत्र लैहना सिंह 646/861 हिस्सा लखवीर सिंह - वगीचा सिंह 166/861 हिस्सा मुखविंदर सिंह - भूपेंदर सिंह - सुरिंदर सिंह पुत्र मुखतियार सिंह पुत्र सरन सिंह 49/861 हिस्सा
		189	निजी	कृषि	0.0065	वलकार सिंह - ईकवाल सिंह - वक्सीश सिंह पुत्र सरन सिंह पुत्र लैहना सिंह 646/861 हिस्सा लखवीर सिंह - वगीचा सिंह 166/861 हिस्सा मुखविंदर सिंह - भूपेंदर सिंह - सुरिंदर सिंह पुत्र मुखतियार सिंह पुत्र सरन सिंह 49/861 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		89	निजी	कृषि	0.0111	<p>महिषा सिंह - अवतार सिंह - गुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरभीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - गुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा पेम सिंह - गुरदेव कौर - गुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरभीत सिंह - गुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा गुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र बुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>
		119	निजी	कृषि	0.1854	<p>महिषा सिंह - अवतार सिंह - गुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरभीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - गुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा पेम सिंह - गुरदेव कौर - गुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरभीत सिंह - गुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा गुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र बुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
		120	निजी	कृषि	0.2117	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदशन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - गुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती वनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - गुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा मुल्दा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>
		118	निजी	कृषि	0.3516	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदशन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - गुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती वनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - गुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा मुल्दा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
		115	निजी	कृषि	0.0693	महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीवार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जगवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा बचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र बचन सिंह 500/4574 हिस्सा
		117	निजी	कृषि	0.0421	महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीवार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जगवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा बचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र बचन सिंह 500/4574 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		116	निजी	कृषि	0.2901	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - मुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरभीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - मुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दीलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरभीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा गुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>
		113	निजी	कृषि	0.0056	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - मुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरभीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - मुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दीलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरभीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा गुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
		96	निजी	कृषि	0.2571	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जगविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>
		97	निजी	कृषि	0.1531	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
		94	निजी	कृषि	0.0423	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरभीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां गिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दीनत सिंह पुत्र बिशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरभीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा बचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलबाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र बचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>
		85	निजी	कृषि	0.1770	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरभीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां गिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दीनत सिंह पुत्र बिशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरभीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा बचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलबाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र बचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
		86	निजी	कृषि	0.2557	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु बः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी बः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती बः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह बः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>
		84	निजी	कृषि	0.3034	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु बः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी बः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती बः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह बः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
		83	निजी	कृषि	0.1103	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - गुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा गुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>
		79	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.4307	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर वेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - गुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा गुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>

1	2	3	4	5	6	7
		80	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.0131	महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु बः बः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी बः बः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती बः बः 804/4574 हिस्सा बचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह बः बः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलबाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र बचन सिंह 500/4574 हिस्सा
		78	निजी	कृषि	0.2908	महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु बः बः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी बः बः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती बः बः 804/4574 हिस्सा बचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह बः बः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलबाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र बचन सिंह 500/4574 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		77	निजी	कृषि	0.2013	<p>महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना 195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह पुत्र तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - मुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुडा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - मुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा वचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा गुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुडड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र वचन सिंह 500/4574 हिस्सा</p>
		95	निजी	कृषि	0.3984	<p>श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम कौर - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - महेंदर कौर - गुरनाम कौर 6/104 हिस्सा वाईआन : - जै सिंह - अमरजीत सिंह वेटे जगत सिंह पुत्र रोडा सिंह 6/104 हिस्सा मुख्नीआन वाकी 98/104 हिस्सा दीगर मालकान महिमा सिंह - अवतार सिंह - सुरिंदर सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र हरदियाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा व गुरदर्शन सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र गुरवचन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा हरविंदर सिंह - दीदार सिंह पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा अतर सिंह - सतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 800/32018 हिस्सा गुरदेव सिंह - गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र तेलु वः वः 1600/32018 हिस्सा जोगिंदर सिंह - महेंदर सिंह - मेहर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र कालू 440/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह - भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र साउन सिंह 280/4574 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र तुलसी पुत्र भाना</p>

1	2	3	4	5	6	7
						195/4574 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा वरिंदर सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह 161/4564 हिस्सा बलवीर सिंह - मेवा सिंह बेटे तुलसी वः वः 324/4574 हिस्सा श्रीमती किशन कौर विधवा व राय सिंह - जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र व नरिंदर कौर - सुरजीत कौर पुत्रीयां जगत सिंह पुत्र रोड़ा सिंह 180/4574 हिस्सा जै सिंह - अमरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह पुत्र रोड़ा सिंह 300/4574 हिस्सा भगत सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र कुड़ा सिंह 110/4574 हिस्सा श्रीमती चंनन कौर विधवा प्रेम सिंह - गुरदेव कौर - सुरिंदर कौर - गुरनाम कौर - महेंदर कौर पुत्रीयां सिरिआ सिंह पुत्र चमेल सिंह 110/4574 हिस्सा दौलत सिंह पुत्र विशन सिंह पुत्र हीरा सिंह 94/4574 हिस्सा रणजीत सिंह - गुरमीत सिंह - सुरजीत सिंह - जगतार सिंह - अवतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र जाती वः वः 804/4574 हिस्सा बचन सिंह - राम सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह वः वः 80/4574 हिस्सा तुलदा सिंह पुत्र जाती पुत्र चुहड सिंह 96/4574 हिस्सा शेर सिंह - अजमेर सिंह - दिलवाग सिंह - हरिंदर सिंह पुत्र बचन सिंह 500/4574 हिस्सा
		76	निजी	रास्ता	0.0537	नगर पंचायत देह
		72	निजी	कुआं व कृषि	0.0257	अजैव सिंह पुत्र दान सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
		68	निजी	कृषि	0.0851	हरनेक सिंह - नछेल्लर सिंह - सवर्ण सिंह - हरवंस सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र व हरभजन कौर पत्नी बलवीर सिंह पुत्र जीत सिंह वः वः
		67	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.2107	हरनेक सिंह - नछेल्लर सिंह - सवर्ण सिंह - हरवंस सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र व हरभजन कौर पत्नी बलवीर सिंह पुत्र जीत सिंह वः वः सुखपाल सिंह - गुरमेल सिंह - गुरमुख सिंह पुत्र सिरिआ राम पुत्र प्रताप सिंह 1/2 हिस्सा
		66	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.0186	हरनेक सिंह - नछेल्लर सिंह - सवर्ण सिंह - हरवंस सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र व हरभजन कौर पत्नी बलवीर सिंह पुत्र जीत सिंह वः वः
		63	निजी	कृषि	0.1473	सुखपाल सिंह - गुरमेल सिंह - गुरमुख सिंह पुत्र सिरिआ राम पुत्र प्रताप सिंह वः वः
		62	निजी	कृषि	0.1461	मैंधर सिंह पुत्र हरमेश सिंह पुत्र जगीर सिंह पुत्र सूवा सिंह वः वः
		61	निजी	कृषि	0.1358	मैंधर सिंह पुत्र हरमेश सिंह पुत्र जगीर सिंह पुत्र सूवा सिंह वः वः
		59	निजी	कृषि	0.0029	मैंधर सिंह पुत्र हरमेश सिंह पुत्र जगीर सिंह पुत्र सूवा सिंह वः वः
		60	निजी	कृषि	0.0928	मैंधर सिंह पुत्र हरमेश सिंह पुत्र जगीर सिंह पुत्र सूवा सिंह वः वः
13	उपल हेरी	326	निजी	कृषि	0.0156	हरमिंदर सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र हरनाम सिंह रविंदर सिंह - हरविंदर सिंह पुत्र बलवीर सिंह पुत्र जीता सिंह वः वः 1/4 हिस्सा नछेल्लर सिंह - सवर्ण सिंह - हरवंस सिंह पुत्र जीता सिंह पुत्र प्रताप सिंह वः वः 3/4 हिस्सा
		325	निजी	कृषि	0.1765	हरमिंदर सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र हरनाम सिंह
		324	निजी	कृषि	0.0867	महेंदर सिंह अजमेर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र कपूर सिंह वः वः 2/3 हिस्सा कुलदोप सिंह पुत्र रनजीत सिंह पुत्र राम सिंह 1/3 हिस्सा..... रविंदर कौर पत्नी हरमिंदर सिंह पुत्र निरंजन सिंह

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
14		142	निजी	कृषि	0.1639	गुरुमुख सिंह पुत्र बखतौर सिंह 1/2 हिस्सा जय सिंह पुत्र बीर सिंह पुत्र बखतौर सिंह 1/8 हिस्सा समशेर सिंह - वसेसर सिंह पुत्र बीर सिंह पुत्र बखतौर सिंह वः वः 3/8 हिस्सा
		143	निजी	कृषि	0.1611	रकेश कुमार - ओम प्रकाश पुत्र नरायन दास पुत्र सानी राम 76/3962 हिस्सा गुरजीत कौर वेवा तारा सिंह पुत्र ईन्द्र सिंह 244/3962 हिस्सा गुरमीत सिंह - केसर सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र ईन्द्र सिंह 1541/3962 हिस्सा रणजीत सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र ईन्द्र सिंह 660/3962 हिस्सा गुरपाल सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र ईन्द्र सिंह 569/3962 हिस्सा समशेर कौर वेवा व दर्शन सिंह - चेतन सिंह पुत्र दिलवाग सिंह पुत्र तारा सिंह वः वः 463/3962 हिस्सा कुलविंदर कौर पुत्री दिलवाग सिंह पुत्र तारा सिंह 24/3962 हिस्सा दलविंदर सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र मान सिंह 71/3962 हिस्सा दया राम पुत्र राम चंद पुत्र गंगा राम 94 1/2/3962 हिस्सा हरवंस कौर वेवा व भाग सिंह - जगीर सिंह पुत्र संत राम पुत्र राम चंद 57/3962 हिस्सा लाभ सिंह पुत्र संत राम पुत्र राम चंद 37 1/2/3962 हिस्सा श्रीमती कुलवंत कौर वेवा गुरनाम सिंह पुत्र हरदियाल सिंह 125/3962 हिस्सा
		144	निजी	कृषि	0.1866	रकेश कुमार - ओम प्रकाश पुत्र नरायन दास पुत्र सानी राम 76/3962 हिस्सा गुरजीत कौर वेवा तारा सिंह पुत्र ईन्द्र सिंह 244/3962 हिस्सा गुरमीत सिंह - केसर सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र ईन्द्र सिंह 1541/3962 हिस्सा रणजीत सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र ईन्द्र सिंह 660/3962 हिस्सा गुरपाल सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र ईन्द्र सिंह 569/3962 हिस्सा समशेर कौर वेवा व दर्शन सिंह - चेतन सिंह पुत्र दिलवाग सिंह पुत्र तारा सिंह वः वः 463/3962 हिस्सा कुलविंदर कौर पुत्री दिलवाग सिंह पुत्र तारा सिंह 24/3962 हिस्सा दलविंदर सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र मान सिंह 71/3962 हिस्सा दया राम पुत्र राम चंद पुत्र गंगा राम 94 1/2/3962 हिस्सा हरवंस कौर वेवा व भाग सिंह - जगीर सिंह पुत्र संत राम पुत्र राम चंद 57/3962 हिस्सा लाभ सिंह पुत्र संत राम पुत्र राम चंद 37 1/2/3962 हिस्सा श्रीमती कुलवंत कौर वेवा गुरनाम सिंह पुत्र हरदियाल सिंह 125/3962 हिस्सा
		रास्ता		रास्ता	0.0089	रास्ता
		147	निजी	कृषि	0.1277	सेवक सिंह पुत्र राम किशन पुत्र गुरवक्श सिंह 1564/1918 हिस्सा मुखविंदर कौर विधवा व नरिंदर सिंह पुत्र वेअंत सिंह पुत्र राम किशन 354/1918 हिस्सा
	हरायो	276	निजी	कृषि	0.0146	रचन सिंह - गुरवचन सिंह - चरन सिंह - हरजीत सिंह पुत्र गुरता सिंह पुत्र गैदा सिंह वः वः
		277	नगर पंचायत	कृषि	0.1677	नगर पंचायत देह
		280	नगर पंचायत	कृषि	0.1532	नगर पंचायत देह
		203	नगर पंचायत	रास्ता	0.0217	नगर पंचायत देह
		202	नगर पंचायत	कृषि	0.1624	नगर पंचायत देह
		201	नगर पंचायत	कृषि	0.0163	नगर पंचायत देह
		200	नगर पंचायत	कृषि	0.2371	नगर पंचायत देह

1	2	3	4	5	6	7
15	उगाणा	199	निजी	कृषि	0.0291	अमरजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह पुत्र सरदारा सिंह 1/3 हिस्सा बलदेव सिंह - अवतार सिंह पुत्र सरदारा सिंह पुत्र महेंदर सिंह वः वः 2/3 हिस्सा
		41	नगर पंचायत	कृषि	0.1505	नगर पंचायत देह
		25	नगर पंचायत	रास्ता	0.0921	नगर पंचायत देह
		11	नगर पंचायत	रास्ता	0.1531	नगर पंचायत देह
		15	नगर पंचायत	रास्ता	0.0083	नगर पंचायत देह
		33	निजी	कृषि	0.1538	लैफ्टीनेट करनल जसवीर सिंह पुत्र समशेर सिंह पुत्र धर्म सिंह 1/2 हिस्सा श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी लैफ्टीनेट करनल जसवीर सिंह पुत्र समशेर सिंह 1/2 हिस्सा
		32	निजी	कृषि	0.1538	लैफ्टीनेट करनल जसवीर सिंह पुत्र समशेर सिंह पुत्र धर्म सिंह 1/2 हिस्सा श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी लैफ्टीनेट करनल जसवीर सिंह पुत्र समशेर सिंह 1/2 हिस्सा
		26	निजी	कृषि	0.1998	लैफ्टीनेट करनल जसवीर सिंह पुत्र समशेर सिंह पुत्र धर्म सिंह 1/2 हिस्सा श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी लैफ्टीनेट करनल जसवीर सिंह पुत्र समशेर सिंह 1/2 हिस्सा
		24	निजी	कृषि	0.0900	देव सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र लाल सिंह 323/1652 हिस्सा मनजीत कौर विधवा व गुरदर्शन सिंह - मलकीअत सिंह - लखवीर सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र बकशीश सिंह वः वः 215/1652 हिस्सा पूरन सिंह - मेजर सिंह - दूला सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह वः वः 179 1/2 /1652 हिस्सा हरवंस सिंह - हरदियाल सिंह - दिलवाग सिंह - जसपाल सिंह - हरवंस कौर - महेंदर कौर - गुरमेल कौर पुत्र व पुत्रीयां गुरचरन सिंह पुत्र लाल सिंह वः वः 643/1652 हिस्सा तेज कौर विधवा 136 1/2 /1652 हिस्सा हरनेक सिंह 44/1652 हिस्सा गुरमीत सिंह विला रहन 51/1652 हिस्सा नीज रहन 20/1652 हिस्सा पूरन सिंह - दूला सिंह - मेजर सिंह पुत्र जैमल सिंह मुरतहिन मुरजीत कौर विधवा बलवंत सिंह पुत्र गुरचरन सिंह 40/1652 हिस्सा
		170/18	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.0725	देव सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र लाल सिंह 323/1652 हिस्सा मनजीत कौर विधवा व गुरदर्शन सिंह - मलकीअत सिंह - लखवीर सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र बकशीश सिंह वः वः 215/1652 हिस्सा पूरन सिंह - मेजर सिंह - दूला सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह वः वः 179 1/2 /1652 हिस्सा हरवंस सिंह - हरदियाल सिंह - दिलवाग सिंह - जसपाल सिंह - हरवंस कौर - महेंदर कौर - गुरमेल कौर पुत्र व पुत्रीयां गुरचरन सिंह पुत्र लाल सिंह वः वः 643/1652 हिस्सा तेज कौर विधवा 136 1/2 /1652 हिस्सा हरनेक सिंह 44/1652 हिस्सा गुरमीत सिंह विला रहन 51/1652 हिस्सा नीज रहन 20/1652 हिस्सा पूरन सिंह - दूला सिंह - मेजर सिंह पुत्र जैमल सिंह मुरतहिन मुरजीत कौर विधवा बलवंत सिंह पुत्र गुरचरन सिंह 40/1652 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		19	निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1184	देव सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र लाल सिंह 323/1652 हिस्सा मनजीत कौर विधवा व गुरदर्शन सिंह - मलकीअत सिंह - लखवीर सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र बकशीश सिंह वः वः 215/1652 हिस्सा पूरन सिंह - मेजर सिंह - दूला सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह वः वः 179½/1652 हिस्सा हरवंस सिंह - हरदियाल सिंह - दिलवाग सिंह - जसपाल सिंह - हरवंस कौर - महेंदर कौर - गुरमेल कौर पुत्र व पुत्रीयां गुरचरन सिंह पुत्र लाल सिंह वः वः 643/1652 हिस्सा तेज कौर विधवा 136½/1652 हिस्सा हरनेक सिंह 44/1652 हिस्सा गुरभीत सिंह बिला रहन 51/1652 हिस्सा नीज रहन 20/1652 हिस्सा पूरन सिंह - दूला सिंह - मेजर सिंह पुत्र जैमल सिंह मुरतहिन मुरजीत कौर विधवा बलवंत सिंह पुत्र गुरचरन सिंह 40/1652 हिस्सा पूरन सिंह - दूला सिंह - मेजर सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
		169/18	निजी	कृषि	0.1247	रूड सिंह पुत्र हजारा सिंह पुत्र बाज सिंह 6/159 हिस्सा व जैमल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह पुत्र जवाहर सिंह 153/159 हिस्सा
		13/2	निजी	कृषि	0.0455	कुलविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र सोहन सिंह
		12	निजी	कृषि	0.1233	कुलविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र सोहन सिंह
		4	निजी	कृषि	0.0945	कुलविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र सोहन सिंह
		3	निजी	कृषि	0.0037	कुलविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र सोहन सिंह
		1	निजी	कृषि	0.6040	कुलविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र सोहन सिंह
		10	निजी	कृषि	0.1347	कुलविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र सोहन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा श्रीमती निरमल कौर पत्नी कुलविंदर सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह 1/2 हिस्सा
		2	निजी	कृषि	0.1139	कुलविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र गुरवक्श सिंह पुत्र सोहन सिंह वः वः 1/2 हिस्सा श्रीमती हरवंस कौर पत्नी गुरवक्श सिंह पुत्र सोहन सिंह 1/2 हिस्सा वासी गोविंद कालौनी राजपुरा
16	पडाव	5	सरकार	कृषि	0.5078	सरकार दौलत मदार
17	बकशीवाला	482	निजी	कृषि	0.0589	जैमल सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र दूला सिंह - 2/3 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/3 हिस्सा
		481	निजी	कृषि	0.1584	जैमल सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र दूला सिंह - 2/3 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/3 हिस्सा
		479	निजी	कृषि	0.0078	जैमल सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र दूला सिंह - 2/3 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/3 हिस्सा
		480	निजी	कृषि	0.2184	जैमल सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र दूला सिंह - 2/3 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/3 हिस्सा
		448	निजी	कृषि	0.1624	जैमल सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र दूला सिंह - 2/3 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/3 हिस्सा
		447	निजी	कृषि	0.1868	जैमल सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र दूला सिंह - 2/3 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/3 हिस्सा
		446	निजी	कृषि	0.0026	जैमल सिंह पुत्र करम सिंह पुत्र दूला सिंह - 2/3 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/3 हिस्सा

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		432	निजी	कृषि	0.1406	जैमल सिंह पुत्र काहला सिंह पुत्र देवी चन्द 1/9 हिस्सा श्रीमती नरिंदर कौर - कर्नैल कौर पुत्रीयां अजमेर सिंह पुत्र काहला सिंह बः बः 2/9 हिस्सा जंग सिंह - धर्म सिंह पुत्र व हरी देवी बेवा व सरसी - सोमी - कादो - पुत्रीयां ईन्द्र सिंह पुत्र बाबू बः बः 1/6 हिस्सा जगीर कौर विधवा व गरीब दास - सुरजीत सिंह - सूरूप सिंह - राम सिंह - पुत्र व चरनजीत कौर पुत्री जोगिंदर सिंह पुत्र बाबू सिंह 1/6 हिस्सा जीत सिंह पुत्र जीवन सिंह पुत्र देवी चन्द 1/6 हिस्सा अवतार सिंह - राज सिंह - गुरदास सिंह पुत्र तेलू पुत्र जिउना बः बः 1/10 हिस्सा गियान सिंह पुत्र तेलू पुत्र जिउना 1/15 हिस्सा
		431	निजी	कृषि	0.0178	जैमल सिंह पुत्र काहला सिंह पुत्र देवी चन्द 1/9 हिस्सा श्रीमती नरिंदर कौर - कर्नैल कौर पुत्रीयां अजमेर सिंह पुत्र काहला सिंह बः बः 2/9 हिस्सा जंग सिंह - धर्म सिंह पुत्र व हरी देवी बेवा व सरसी - सोमी - कादो - पुत्रीयां ईन्द्र सिंह पुत्र बाबू बः बः 1/6 हिस्सा जगीर कौर विधवा व गरीब दास - सुरजीत सिंह - सूरूप सिंह - राम सिंह - पुत्र व चरनजीत कौर पुत्री जोगिंदर सिंह पुत्र बाबू सिंह 1/6 हिस्सा जीत सिंह पुत्र जीवन सिंह पुत्र देवी चन्द 1/6 हिस्सा अवतार सिंह - राज सिंह - गुरदास सिंह पुत्र तेलू पुत्र जिउना बः बः 1/10 हिस्सा गियान सिंह पुत्र तेलू पुत्र जिउना 1/15 हिस्सा
		439	निजी	कृषि	0.0654	कशमीर कौर पत्नी जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 13/18 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/6 हिस्सा गुरकिअत सिंह - हरकीअत सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह बः बः 1/9 हिस्सा
		440	निजी	कृषि	0.0043	कशमीर कौर पत्नी जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 13/18 हिस्सा नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह पुत्र करम सिंह 1/6 हिस्सा गुरकिअत सिंह - हरकीअत सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र जैमल सिंह बः बः 1/9 हिस्सा
		372	निजी	कृषि	0.1909	अमरीक सिंह पुत्र अर्जुन सिंह पुत्र जवाहर सिंह
		376	निजी	कृषि	0.1987	अमरीक सिंह पुत्र अर्जुन सिंह पुत्र जवाहर सिंह
		377	निजी	कृषि	0.2042	अमरीक सिंह पुत्र अर्जुन सिंह पुत्र जवाहर सिंह
		379	निजी	कृषि	0.2110	अमरीक सिंह पुत्र अर्जुन सिंह पुत्र जवाहर सिंह..... जीवन कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र बाबू राम..... अनूप सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चैचल सिंह वासी राजपुरा.....
		380	निजी	कृषि	0.1925	जीवन कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र बाबू राम..... अनूप सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चैचल सिंह वासी राजपुरा.....
		381	निजी	कृषि	0.0037	रमन तरेहन पुत्र रमेश चन्द तरेहन पुत्र चमन लाल वासी राजपुरा
		315	सरकारी	रास्ता	0.0173	रकबा मतुरका महाजरीन सरकारी जमीन
		316	निजी	कृषि	0.2038	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल बः बः
		326	निजी	कृषि	0.1932	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल बः बः
		328	निजी	कृषि	0.0025	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल बः बः

1	2	3	4	5	6	7
		335	निजी	कृषि	0.1950	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल वः वः
		336	निजी	कृषि	0.1891	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल वः वः
		341	निजी	कृषि	0.1847	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल वः वः
		342	निजी	रास्ता व कृषि	0.1759	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल वः वः
		344	निजी	कृषि	0.1611	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल वः वः
		327	सरकारी व निजी	गैर कृषि व कृषि	0.1866	भरत तरेहन पुत्र रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन व रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल पुत्र दीवान शाह व रमन तरेहन पुत्र रमेश तरेहन पुत्र चमन लाल वः वः पंजाब राज विजली बोर्ड
		285	निजी	कृषि	0.2601	पूरन सिंह पुत्र चुहड सिंह 189 1/2 /947 हिस्सा सतपाल सिंह पुत्र पूरन सिंह 189 1/2 /947 हिस्सा दलीप सिंह पुत्र अरूड सिंह 169/947 हिस्सा लखविंदर सिंह - नरिंदर सिंह बलजिंदर सिंह - गुरतेज सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र अरूड सिंह वः वः 163/947 हिस्सा श्रीमती सविंदर कौर बेवा गुरवंत सिंह 11/947 हिस्सा रणधीर सिंह - दविंदर सिंह - अमीर सिंह - उधार सिंह पुत्र गुरवंत सिंह पुत्र अरूड सिंह वः वः 68/947 हिस्सा गुरमेज कौर बेवा व हरभजन सिंह - हरवंत सिंह - टहल सिंह - सतनाम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र अरूड सिंह वः वः 157/947 हिस्सा..... वलवंत सिंह पुत्र मुनशा सिंह पुत्र अमीर चंद
18	वसंतपुरा	284	निजी	कृषि	0.0237	वलवंत सिंह पुत्र मुनशा सिंह पुत्र अमीर चंद
		424	निजी	कृषि	0.0709	कश्मीर सिंह 65/496 हिस्सा सुरजीत सिंह 60/496 हिस्सा पुत्र मोहन सिंह पुत्र मोती राम व नरिंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह 83/496 हिस्सा वासी मराय बंजारा कश्मीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 72/496 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 72/496 हिस्सा सतवीर सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 72/496 हिस्सा गुरदर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 72/496 हिस्सा..... कश्मीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 1/4 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 1/4 हिस्सा सतवीर सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 1/4 हिस्सा गुरदर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 1/4 हिस्सा

4911 GV10-7

1	2	3	4	5	6	7
		203	निजी	कृषि	0.1753	सुरजीत सिंह - बलजीत सिंह - जसपाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह वः वः 3/4 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा 1/16 हिस्सा गुरदीप सिंह 3/16 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वासी अलुआं
		204	निजी	कृषि	0.1748	सुरजीत सिंह - बलजीत सिंह - जसपाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह वः वः 3/4 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा 1/16 हिस्सा गुरदीप सिंह 3/16 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वासी अलुआं
		209	निजी	कृषि	0.1789	सुरजीत सिंह - बलजीत सिंह - जसपाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह वः वः 3/4 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा 1/16 हिस्सा गुरदीप सिंह 3/16 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वासी अलुआं
		141	निजी	कृषि	0.0118	सुरजीत सिंह - बलजीत सिंह - जसपाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह वः वः 3/4 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा 1/16 हिस्सा गुरदीप सिंह 3/16 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वासी अलुआं
		122	निजी	कृषि	0.2113	सुरजीत सिंह - बलजीत सिंह - जसपाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह वः वः 3/4 हिस्सा जसविंदर कौर बेवा 1/16 हिस्सा गुरदीप सिंह 3/16 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वासी अलुआं
		394	सरकारी	सड़क	0.0236	पी डबल्यू डी
		143	निजी	कृषि	0.1906	नायब सिंह - पाल सिंह - जसवीर सिंह - बहादुर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वः वः 1/3 हिस्सा प्यारा सिंह - छोटा सिंह - चंनन सिंह पुत्र साधु सिंह वः वः 1/4 हिस्सा गुरदेव कौर विधवा साधु सिंह पुत्र हजार सिंह 1/12 हिस्सा अवतार सिंह - हरमीत सिंह - दलजीत सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र हजार सिंह वः वः 1/3 हिस्सा
		142	निजी	कृषि	0.1926	नायब सिंह - पाल सिंह - जसवीर सिंह - बहादुर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वः वः 1/3 हिस्सा प्यारा सिंह - छोटा सिंह - चंनन सिंह पुत्र साधु सिंह वः वः 1/4 हिस्सा गुरदेव कौर विधवा साधु सिंह पुत्र हजार सिंह 1/12 हिस्सा अवतार सिंह - हरमीत सिंह - दलजीत सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र हजार सिंह वः वः 1/3 हिस्सा
		141/1	निजी	कृषि	0.1776	भजन सिंह पिसर मुतवना चानन सिंह पुत्र वरिआम सिंह
		125	निजी	कृषि	0.1892	भजन सिंह पिसर मुतवना चानन सिंह पुत्र वरिआम सिंह
		124	निजी	कृषि	0.1917	रजवंत कौर पत्नी दलीप सिंह पुत्र अमर सिंह
		123	निजी	सफ़ेदे	0.2035	पीतम सिंह 124 1/2 / 663 रणजीत सिंह 74 1/2 / 663 हिस्सा पुत्र लाभ सिंह पुत्र लाल सिंह दलीप सिंह 215 1/2 / 663 हिस्सा लखविंदर 165 1/2 / 663 हिस्सा अमर सिंह पुत्र लाल सिंह व जसवीर सिंह पुत्र लाल सिंह 83 / 663 हिस्सा राजवंत कौर पत्नी दलीप सिंह पुत्र अमर सिंह
		113	निजी	कृषि	0.1571	इन्द्रजीत सिंह - सरवजीत सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र रामदूर सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 653 1/2 / 871 हिस्सा रामदूर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र शेर सिंह 217 1/2 / 871 हिस्सा
		112	निजी	कृषि	0.1488	इन्द्रजीत सिंह - सरवजीत सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र रामदूर सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 653 1/2 / 871 हिस्सा रामदूर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र शेर सिंह 217 1/2 / 871 हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7
		90	निजी	कृषि	0.1466	ईन्द्रजीत सिंह - सरवजीत सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र रामदूर सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 704/1098 हिस्सा रामदूर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र शेर सिंह 235/1098 हिस्सा निरंजन दास पुत्र परशोतम दास पुत्र ईशर दास 79/1098 हिस्सा नसीब कौर बेवा व अमरजीत दास - बलजीत दास पुत्र राम दास पुत्र श्याम दास वः वः 80/1098 हिस्सा
		89	निजी	कृषि	0.1491	सुरजीत सिंह उर्फ सीता दास पुत्र श्याम दास पुत्र ईशर दास... ईन्द्रजीत सिंह - सरवजीत सिंह - गुरमीत सिंह पुत्र रामदूर सिंह पुत्र संत सिंह वः वः 3/4 हिस्सा रामदूर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र शेर सिंह 1/4 हिस्सा
		88	निजी	कृषि	0.1491	सुरजीत सिंह उर्फ सीता दास पुत्र श्याम दास पुत्र ईशर दास
		79	निजी	कृषि	0.1474	सुरजीत सिंह उर्फ सीता दास पुत्र श्याम दास पुत्र ईशर दास..... नसीब कौर बेवा व अमरजीत दास - बलजीत दास पुत्र राम दास पुत्र श्याम दास वः वः
		78	निजी	कृषि	0.1433	नसीब कौर बेवा व अमरजीत दास - बलजीत दास पुत्र राम दास पुत्र श्याम दास वः वः
		77	निजी	कृषि	0.0755	करनैल सिंह पुत्र रोणकी राम पुत्र राम दित्ता 1/8 हिस्सा राजिंदर कौर विधवा जरनैल सिंह पुत्र रोणकी राम 1/8 हिस्सा मुख्तियार सिंह - जीत सिंह - राजा सिंह पुत्र रोणकी राम पुत्र राम दित्ता वः वः 3/4 हिस्सा राजा सिंह हिस्सेदार रहन चरन सिंह पुत्र बुद्ध सिंह पुत्र बग्गा सिंह 1/4 हिस्सा मुरतहिन बदले 350000/- रुपए

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2010

S.O. 3049(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 938(E), dated the 20th April, 2010 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd April, 2010 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects namely Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Patiala in the State of Punjab;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in daily newspaper The Tribune, dated the 19th May, 2010 and RozanaAjit, dated the 19th May, 2010 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And, whereas, one hundred twenty-two objections were received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project namely Eastern Dedicated Freight Corridor in the Tehsil - Rajpura, District - Patiala in the State of Punjab.

Serial Number	Name of Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mehmadpur		929	Punjab Waqf Board	Agriculture	0.0574	Punjab Waqf Board
			928	Punjab Waqf Board	Agriculture	0.4037	Punjab Waqf Board
			926	Punjab Waqf Board	Agriculture	0.2332	Punjab Waqf Board
2.	Shambhu-Khurd		421	Punjab Government and population village	Road and Population	0.2376	Punjab Government..... Population village
			416	Punjab Government and Nagar	Road and Non-Agriculture	0.1144	Punjab Government..... Nagar Panchayat of village
			258	Private	Agriculture	0.1813	Ranjit Singh S/o Kehar Singh S/o Sarup Singh 1/2 part Bhupender Singh S/o Ranjit Singh S/o Kehar Singh 1/2 part .
			256	Private	Agriculture	0.0618	Ranjit Singh S/o Kehar Singh S/o Sarup Singh 1/2 part Bhupender Singh S/o Ranjit Singh S/o Kehar Singh 1/2 part .
			255	Private	Agriculture	0.1871	Harinderjeet Singh - Sarbjit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Pritam Singh equal part
			254	Private	Agriculture	0.2912	Harinderjeet Singh - Sarbjit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Pritam Singh equal part
			237	Private	Agriculture	0.0631	Harinderjeet Singh - Sarbjit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Pritam Singh equal part
			240	Private	Agriculture	0.0026	Harinderjeet Singh - Sarbjit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Pritam Singh equal part
			236	Private	Way	0.0042	Smt. Kuldeep Kaur Widow and Jasprit Kaur equal part 1/12 part Preet Mohan s/o Mohan Singh S/o Sher Singh 1/12 part Amarjit Singh S/o Sher Singh S/o Ishar Singh 1/12 part Balveer Singh S/o Nagina Singh S/o Ishar Singh 5/12 part Surinder Singh - Ravinder Singh S/o Gurnam Singh S/o Nagina Singh equal part 5/12 part Kamaljit Kaur - Manjit Kaur D/o Nagina Singh S/o Ishar Singh equal part 1/6 part Smt. Kulwant Kaur Widow and Harbhajan Singh - Kuldeep Singh S/o Sher Jabar Jang Singh S/o Jaswant Singh equal part 1/4 part Sampuran Singh S/o Jaswant Singh S/o Ishar Singh 1/4 part Smt. Varinder Kaur Widow and Ravinder Kaur - Maninder Kaur - Harinder Kaur - Jasvinder Singh S/o and D/o Karan Singh S/o Jaswant Singh equal part 1/4 part Smt. Satvant Kaur W/o Charanjit Singh S/o Amar Singh 512/7426 part Charanjit Singh S/o Amar Singh S/o Lajja Singh 340/7426 part Gurpreet Kaur W/o SatinderPal Singh S/o Manohar Singh 374/7426 part Manohar Singh S/o Sunder Singh S/o Gurdit Singh 250/7426 part . Amrik Singh - Paramjit Singh S/o Bikram Singh S/o Jaswant Singh equal part 16/7426 part Bikram Singh S/o Jaswant Singh S/o Ishar Singh 729/7426 part rate 1/3 part and Smt. Charan Kaur Widow and Sukhraj Singh Urf Jang Bahadur Singh - Gurdish Singh - Baljit Kaur - Tiku Pavla S/o and D/o Maharaj Singh S/o Sher Singh equal part 1/12 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			259	Punjab Government and Population village	Way	0.2011	<p>Smt. Kuldeep Kaur Widow and Jasprit Kaur equal part 1/12 part Preet Mohan s/o Mohan Singh S/o Sher Singh 1/12 part Amarjit Singh S/o Sher Singh S/o Ishar Singh 1/12 part Balveer Singh S/o Nagina Singh S/o Ishar Singh 5/12 part Surinder Singh - Ravinder Singh S/o Gurnam Singh S/o Nagina Singh equal part 5/12 part Kamaljit Kaur - Manjit Kaur D/o Nagina Singh S/o Ishar Singh equal part 1/6 part</p> <p>Smt. Kulwant Kaur Widow and Harbhajan Singh - Kuldeep Singh S/o Sher Jabar Jang Singh S/o Jaswant Singh equal part 1/4 part Sampuran Singh S/o Jaswant Singh S/o Ishar Singh 1/4 part Smt. Varinder Kaur Widow and Ravinder Kaur - Maninder Kaur - Harinder Kaur - Jasvinder Singh S/o and D/o Karan Singh S/o Jaswant Singh equal part 1/4 part Smt. Satvant Kaur W/o Charanjit Singh S/o Amar Singh 512/7426 part Charanjit Singh S/o Amar Singh S/o Lajja Singh 340/7426 part Gurpreet Kaur W/o SatinderPal Singh S/o Manohar Singh 374/7426 part Manohar Singh S/o Sunder Singh S/o Gurdit Singh 250/7426 part . Amrik Singh - Paramjit Singh S/o Bikram Singh S/o Jaswant Singh equal part 6/7426 part Bikram Singh S/o Jaswant Singh S/o Ishar Singh 729/7426 part rate 1/3 part and Smt. Charan Kaur Widow and Sukhraj Singh Urf Jang Bahadur Singh -Gurdish Singh - Baljit Kaur - Tiku Pavla S/o and D/o Maharaj Singh S/o Sher Singh equal part 1/12 part</p> <p>Punjab Government</p>
			261	Private	Agriculture	0.1404	<p>Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part .</p>
			277	Private	Agriculture	0.0027	<p>Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part .</p>
			260	Private	Agriculture	0.4233	<p>Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part .</p>
			279	Private	Agriculture	0.4570	<p>Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part .</p>
			280	Private	Agriculture	0.1018	<p>Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			281	Private	Agriculture	0.2363	Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part .
			282	Private	Agriculture	0.3554	Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part .
			286	Private	Agriculture	0.0399	Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part .
			278		Way	0.0515	Way
			287	Private	Agriculture	0.3176	Malkit Singh S/o Khadak Singh S/o Ujagar Singh 791½/1392 part Kuldeep Singh S/o Gursharan Singh S/o Dhyan Singh 300/1392 part Kamaljit Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150/1392 part Kamalpreet Singh S/o Malkit Singh S/o Khadak Singh 150½/1392 part Bant Singh S/o Kartar Singh S/o Santa Singh
			288	Punjab Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1363	Bant Singh S/o Kartar Singh S/o Santa Singh..... Punjab Government
			289	Punjab Government	Non-Agriculture	0.2773	Punjab Government
			290	Punjab Government	Non-Agriculture	0.0571	Punjab Government
			291	Punjab Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.0027	Surinder Singh S/o Pal Singh S/o Arjun Singh 1/3 part Davinder Singh - Manprit Singh S/o Nirmal Singh S/o Pal Singh equal part 1/3 part Gurbinder Singh S/o Gurcharan Singh S/o Pal Singh 1/3 part Punjab Government
			292	Punjab Government and Private	Canal and Agriculture	0.2477	Ranjit Singh S/o Inder Singh S/o Harnam Singh resident Purana Rajpura..... Punjab Government.....
			293	Private	Agriculture	0.3417	Ranjit Singh S/o Inder Singh S/o Harnam Singh resident Old Rajpura
			297	Private	Agriculture	0.0421	Ranjit Singh S/o Inder Singh S/o Harnam Singh resident Old Rajpura
			295	Private	Agriculture	0.1548	Ranjit Singh S/o Inder Singh S/o Harnam Singh resident Old Rajpura
			294	Private	Agriculture	0.2635	Ranjit Singh S/o Inder Singh S/o Harnam Singh resident Old Rajpura
3.	Hasampur		18	Private	Agriculture	0.2338	Smt. Jangir Kaur Widow Labh Singh S/o Rachan Singh 800/10310 part Nachantar Singh S/o Labh Singh S/o Rachan Singh 6370/10310 part Charan Singh 1940/10310 part Sahib Singh 400/10310 part S/o Jangir Singh S/o Maihma Singh and Bant Singh S/o Gyan Singh S/o Shyam Singh 800/10310 part .
			15	Private	Agriculture	0.0885	Smt. Jangir Kaur Widow Labh Singh S/o Rachan Singh 800/10310 part Nachantar Singh S/o Labh Singh S/o Rachan Singh 6370/10310 part Charan Singh 1940/10310 part Sahib Singh 400/10310 part S/o Jangir Singh S/o Maihma Singh and Bant Singh S/o Gyan Singh S/o Shyam Singh 800/10310 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			17	Private	Agriculture	0.0311	Smt. Jangir Kaur Widow Labh Singh S/o Rachan Singh 800/10310 part Nachantar Singh S/o Labh Singh S/o Rachan Singh 6370/10310 part Charan Singh 1940/10310 part Sahib Singh 400/10310 part S/o Jangir Singh S/o Maihma Singh and Bant Singh S/o Gyan Singh S/o Shyam Singh 800/10310 part..... Shyam Singh - Jagrup Singh - Gurbachan Singh equal part 30/205 part and Surjit Kaur - Labh Kaur - Surinder Kaur - Balvinder Kaur - Baljit Kaur equal part 175/205 part S/o and D/o Pritam Singh S/o Maihma Singh.
			16	Private	Agriculture	0.2158	Shyam Singh - Jagrup Singh - Gurbachan Singh equal part 30/205 part and Surjit Kaur - Labh Kaur - Surinder Kaur - Balvinder Kaur - Baljit Kaur equal part 175/205 part S/o and D/o Pritam Singh S/o Maihma Singh.
			22	Private	Agriculture	0.0137	Gurdayal Singh S/o Niranjan Singh S/o Maihama Singh 218/462 part Avtar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Niranjan Singh 90/462 part Ajaib Singh S/o Jamail Singh S/o Niranjan Singh 154/462 part Sarvan Singh S/o Maihma Singh S/o Khadak Singh 1/5 part Gurdayal Singh S/o Niranjan Singh 1/15 part Avtar Singh S/o Gurcharan Singh 1/15 part Ajaib Singh S/o Jamail Singh 1/15 part Charan Singh 11/100 part Sahib Singh 2/100 part S/o Jagir Singh S/o Maihma Singh and Janga Singh - Jagga Singh S/o Sahib Singh S/o Jangir Singh 7/100 part and Shyam Singh - Jagrup Singh - Gurbachan Singh and Surjit Kaur - Labh Kaur - Surinder Kaur - Balvinder Kaur - Baljit Kaur S/o and D/o Pritam Singh S/o Maihma Singh equal part 1/5 part Nachatar Singh S/o Labh Singh S/o Rachan Singh 1/5 part
			113	Nagar Panchayat	Non-Agriculture	0.0284	Nagar Panchayat of village
			139	Nagar Panchayat	Non-Agriculture and Way	0.2018	Nagar Panchayat of village
			114	Nagar Panchayat	Way	0.0361	Nagar Panchayat of village
			28	Private	Agriculture	0.1893	Gurdayal Singh S/o Niranjan Singh S/o Maihama Singh 218/462 part Avtar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Niranjan Singh 90/462 part Ajaib Singh S/o Jamail Singh S/o Niranjan Singh 154/462 part
			29	Private	Agriculture	0.2065	Gurdayal Singh S/o Niranjan Singh S/o Maihama Singh 218/462 part Avtar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Niranjan Singh 90/462 part Ajaib Singh S/o Jamail Singh S/o Niranjan Singh 154/462 part

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			34	Private	Agriculture	0.0025	Sahib Singh 2/20 part Charan Singh 11/20 part S/o Jangir Singh S/o Maihma Singh and Janga Singh - Jagga Singh S/o Sahib Singh S/o Jangir Singh 7/20 part Sarvan Singh S/o Maihma Singh S/o Khadak Singh 1/5 part Gurdial Singh S/o Niranjan Singh S/o Maihma Singh 1/15 part Avtar Singh S/o Gurcharan Singh 1/15 part Ajaib Singh S/o Jarnail Singh 1/15 part Sahib Singh 2/100 part Charan Singh 11/100 part S/o Jagir Singh S/o Maihma Singh and Janga Singh - Jagga Singh S/o Sahib Singh S/o Jangir Singh 7/100 part and Shyam Singh - Jagrup Singh - Gurbachan Singh and Labh Kaur - Surjit Kaur - Surinder Kaur - Baljit Kaur-Balvinder Kaur D/o Pritam Singh S/o Maihma Singh equal part 1/5 part Nachantar Singh S/o Labh Singh S/o Rachan Singh 1/5 part
			33	Private	Agriculture	0.3028	Sarvan Singh S/o Maihma Singh S/o Khadak Singh..... Sahib Singh 2/20 part Charan Singh 11/20 part S/o Jangir Singh S/o Maihma Singh and Janga Singh - Jagga Singh S/o Sahib Singh S/o Jangir Singh 7/20 part
			32	Private	Agriculture	0.0327	Sarvan Singh S/o Maihma Singh S/o Khadak Singh
			31	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.2942	Sarvan Singh S/o Maihma Singh S/o Khadak Singh
			41	Private	Agriculture	0.1191	Naib Singh - Malkiyat Singh S/o Surjan Singh S/o Jangir Singh equal part
			45	Private	Agriculture	0.0025	Naib Singh - Malkiyat Singh S/o Surjan Singh S/o Jangir Singh equal part
			42	Private	Agriculture	0.2191	Against Intkal Number 481 - 487- 498 approved Kaldeep Singh - Kirpal Singh S/o Santokh Singh S/o Jagir Singh equal part
			44	Private	Agriculture	0.2272	Against Intkal Number 481 - 487- 498 approved Kaldeep Singh - Kirpal Singh S/o Santokh Singh S/o Jagir Singh equal part
			43	Private	Agriculture	0.0969	Against Intkal Number 481 - 487- 498 approved Kaldeep Singh - Kirpal Singh S/o Santokh Singh S/o Jagir Singh equal part
			136	Private	Agriculture	0.0129	Against Intkal Number 481 - 487- 498 approved Kaldeep Singh - Kirpal Singh S/o Santokh Singh S/o Jagir Singh equal part
			137	Private	Agriculture	0.2616	Against Intkal Number 481 - 487- 498 approved Kaldeep Singh - Kirpal Singh S/o Santokh Singh S/o Jagir Singh equal part
			138	Private	Agriculture	0.0301	Against Intkal Number 481 - 487- 498 approved Kaldeep Singh - Kirpal Singh S/o Santokh Singh S/o Jagir Singh equal part
			140	Private	Agriculture	0.3237	Against Intkal Number 481 - 487- 498 approved Kaldeep Singh - Kirpal Singh S/o Santokh Singh S/o Jagir Singh equal part
			141	Private	Agriculture	0.2526	Against Intkal Number 481 - 487- 498 approved Kaldeep Singh - Kirpal Singh S/o Santokh Singh S/o Jagir Singh equal part
4.	Kherpur Shekha.		115	Private	Agriculture	0.0928	Fakir Chand S/o Munsri Ram S/o Matu 1156½/2313 part Sarvan Ram S/o Siriya Ram S/o Ram Singh 100/2313 part Ram Singh S/o Ashu 1056½/2313 part.
			114	Private	Agriculture	0.4065	Fakir Chand S/o Munsri Ram S/o Matu 1156½/2313 part Sarvan Ram S/o Siriya Ram S/o Ram Singh 100/2313 part Ram Singh S/o Ashu 1056½/2313 part.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			113	Private	Agriculture	0.1749	Fakir Chand S/o Munsi Ram S/o Matu 1156 1/2/2313 part Sarvan Ram S/o Siriya Ram S/o Ram Singh 100/2313 part Ram Singh S/o Ashu 1056 1/2/2313 part .
			112	Private	Agriculture	0.2191	Fakir Chand S/o Munsi Ram S/o Matu 1156 1/2/2313 part Sarvan Ram S/o Siriya Ram S/o Ram Singh 100/2313 part Ram Singh S/o Ashu 1056 1/2/2313 part .
			120	Private	Agriculture	0.0098	Fakir Chand S/o Munsi Ram S/o Matu 1156 1/2/2313 part Sarvan Ram S/o Siriya Ram S/o Ram Singh 100/2313 part Ram Singh S/o Ashu 1056 1/2/2313 part .
			121	Private	Agriculture	0.2799	Fakir Chand S/o Munsi Ram S/o Matu 1156 1/2/2313 part Sarvan Ram S/o Siriya Ram S/o Ram Singh 100/2313 part Ram Singh S/o Ashu 1056 1/2/2313 part .
			123	Private	Agriculture	0.0587	Bhagat Singh - Sahib Singh - Kulwant Singh - Baldev Singh S/o Nidhan Singh S/o Matab Singh equal part 4/5 part Smt. Darshan Kaur Widow and Gurvant Singh - Gurjit Singh S/o Balkar Singh S/o Nidhan Singh equal part 1/5 part .
			122	Private	Agriculture	0.2917	Bhagat Singh - Sahib Singh - Kulwant Singh - Baldev Singh S/o Nidhan Singh S/o Matab Singh equal part 4/5 part Smt. Darshan Kaur Widow and Gurvant Singh - Gurjit Singh S/o Balkar Singh S/o Nidhan Singh equal part 1/5 part .
			101	Private	Non-Agriculture	0.0251	Joint Ownership
			38	Private	Agriculture	0.0129	Daljit Kaur Widow and Davinder Singh - Manuk Singh S/o and Ravinder Kaur D/o Gurmej Singh S/o Arud Singh 5/36 part Variam Singh - Suleg Singh - Balvinder Singh - Gurmit Singh - Kuldeep Singh S/o Arud Singh S/o Fateh Singh equal part 25/36 part Smt. Pyar Kaur Widow and Sukhvinder Kaur - Gurmit Kaur D/o Arud Singh S/o Fateh Singh equal part 1/6 part .
5.	Ghagar Sarai		611	Private	Agriculture	0.3312	Darbara Singh - Hardev Singh S/o Shyam Singh S/o Ganga Ram equal part 744/3680 part Harchand Singh - Rajinder Singh - Kuldeep Singh equal part 357/3680 part and Surinder Kaur D/o 15/3680 part and S/o Sher Singh S/o Shyam Singh and Gyan Singh - Gurnam Singh S/o Rama S/o Ganga Ram equal part 2192/3680 part Narinder Kumar S/o Shadhu Ram S/o Yado and Ved Prakash S/o Lila Ram S/o Megh Raj equal part 85/3680 part and Satpal Singh S/o Kartar Singh S/o Labh Singh and Sukhvinder Kaur D/o Satpal S/o Kartar equal part 257/3680 part Amarjit Kaur D/o Shyam Singh S/o Ganga Ram 30/3680 part .
			619	Private	Agriculture	0.3144	Darbara Singh - Hardev Singh S/o Shyam Singh S/o Ganga Ram equal part 744/3680 part Harchand Singh - Rajinder Singh - Kuldeep Singh equal part 357/3680 part and Surinder Kaur D/o 15/3680 part and S/o Sher Singh S/o Shyam Singh and Gyan Singh - Gurnam Singh S/o Rama S/o Ganga Ram equal part 2192/3680 part Narinder Kumar S/o Shadhu Ram S/o Yado and Ved Prakash S/o Lila Ram S/o Megh Raj equal part 85/3680 part and Satpal Singh S/o Kartar Singh S/o Labh Singh and Sukhvinder Kaur D/o Satpal S/o Kartar equal part 257/3680 part Amarjit Kaur D/o Shyam Singh S/o Ganga Ram 30/3680 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			620	Private	Agriculture	0.2350	Darbara Singh - Hardev Singh S/o Shyam Singh S/o Ganga Ram equal part 744/3680 part Harchand Singh - Rajinder Singh - Kuldeep Singh equal part 357/3680 part and Surinder Kaur D/o 15/3680 part and S/o Sher Singh S/o Shyam Singh and Gyan Singh - Gurnam Singh S/o Rama S/o Ganga Ram equal part 2192/3680 part Narinder Kumar S/o Shadhu Ram S/o Yado and Ved Prakash S/o Lila Ram S/o Megh Raj equal part 85/3680 part and Satpal Singh S/o Kartar Singh S/o Labh Singh and Sukhvinder Kaur D/o Satpal S/o Kartar equal part 257/3680 part Amarjit Kaur D/o Shyam Singh S/o Ganga Ram 30/3680 part .
			622	Private	Agriculture	0.0585	Darbara Singh - Hardev Singh S/o Shyam Singh S/o Ganga Ram equal part 744/3680 part Harchand Singh - Rajinder Singh - Kuldeep Singh equal part 357/3680 part and Surinder Kaur D/o 15/3680 part and S/o Sher Singh S/o Shyam Singh and Gyan Singh - Gurnam Singh S/o Rama S/o Ganga Ram equal part 2192/3680 part Narinder Kumar S/o Shadhu Ram S/o Yado and Ved Prakash S/o Lila Ram S/o Megh Raj equal part 85/3680 part and Satpal Singh S/o Kartar Singh S/o Labh Singh and Sukhvinder Kaur D/o Satpal S/o Kartar equal part 257/3680 part Amarjit Kaur D/o Shyam Singh S/o Ganga Ram 30/3680 part .
			612	Nagar Panchayat	Non-Agriculture	0.0692	Nagar Panchayat of village
			614	Private	Agriculture	0.1207	Avtar Singh - Narinder Singh S/o Pritam Singh equal part 1/3 part Gurmail Singh - Baldev Singh - Tarlochan Singh - Mohan Singh S/o Hajura Singh equal part 1/3 part Narinder Singh - Baljinder Singh - Rajinder Singh S/o Labh Singh equal part 1/3 part ... Darbara Singh - Hardev Singh S/o Shyam Singh S/o Ganga Ram equal part 744/3680 part Harchand Singh - Rajinder Singh - Kuldeep Singh equal part 357/3680 part and Surinder Kaur D/o 15/3680 part and S/o Sher Singh S/o Shyam Singh and Gyan Singh - Gurnam Singh S/o Rama S/o Ganga Ram equal part 2192/3680 part Narinder Kumar S/o Shadhu Ram S/o Yado and Ved Prakash S/o Lila Ram S/o Megh Raj equal part 85/3680 part and Satpal Singh S/o Kartar Singh S/o Labh Singh and Sukhvinder Kaur D/o Satpal S/o Kartar equal part 257/3680 part Amarjit Kaur D/o Shyam Singh S/o Ganga Ram 30/3680 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			613	Private	Agriculture	0.5088	Avtar Singh - Narinder Singh S/o Pritam Singh equal part 1/3 part Gurmail Singh - Baldev Singh - Tarlochan Singh - Mohan Singh S/o Hajura Singh equal part 1/3 part Narinder Singh - Baljinder Singh - Rajinder Singh S/o Labh Singh equal part 1/3 part ... Darbara Singh - Hardev Singh S/o Shyam Singh S/o Ganga Ram equal part 744/3680 part Harchand Singh - Rajinder Singh - Kuldeep Singh equal part 357/3680 part and Surinder Kaur D/o 15/3680 part and S/o Sher Singh S/o Shyam Singh and Gyan Singh - Gurnam Singh S/o Rama S/o Ganga Ram equal part 2192/3680 part Narinder Kumar S/o Shadhu Ram S/o Yado and Ved Prakash S/o Lila Ram S/o Megh Raj equal part 85/3680 part and Satpal Singh S/o Kartar Singh S/o Labh Singh and Sukhvinder Kaur D/o Satpal S/o Kartar equal part 257/3680 part Amarjit Kaur D/o Shyam Singh S/o Ganga Ram 30/3680 part .
			615	Private	Agriculture	0.3647	Naib Singh 3270/3340 part Meva Singh 70/3340 part S/o Sham Singh S/o Ganga Ram.
			617	Private	Agriculture	0.0117	Meva Singh 188½/537 part Naib Singh 268½/537 part S/o Sham Singh S/o Ganga Ram and Joginder Singh S/o Amar Singh S/o Harbhajan Singh 80/537 part .
			616	Private	Agriculture	0.3534	Meva Singh 188½/537 part Naib Singh 268½/537 part S/o Sham Singh S/o Ganga Ram and Joginder Singh S/o Amar Singh S/o Harbhajan Singh 80/537 part .
			621	Private	Agriculture	0.3110	Meva Singh 188½/537 part Naib Singh 268½/537 part S/o Sham Singh S/o Ganga Ram and Joginder Singh S/o Amar Singh S/o Harbhajan Singh 80/537 part .
			792/ 619	Private	Agriculture	0.1861	Avtar Singh 2/193 part Narinder Singh 32/193 S/o Pritam Singh S/o Bakhtor Singh and Juginder Singh - Didar Singh S/o Amar Singh S/o Harbhajan Singh 30/193 part and Gurmail Singh - Baldev Singh - Tarlochan Singh - Mohan Singh S/o and Balwant Kaur W/o Hajura Singh S/o Dalip Singh equal part 64½/193 part Narinder Singh - Rajinder Singh - Baljinder Singh S/o Labh Singh S/o Bakhtor Singh equal part 64½/193 part .
			634	Private	Agriculture	0.3708	Surjit Singh S/o Kahar Singh S/o Gopal Singh 96/120 part Gurcharan Singh - Gubachan Singh equal part 16/120 part S/o Kahar Singh S/o Gopal Singh and Surinder Kaur Widow and Iqbal Singh - Parvinder Singh - Hardeep Singh S/o and Gurdip Kaur - Davinder Kaur - Rajinder Kaur D/o Baljit Singh S/o Kahar Singh equal part 8/120 part .
			635	Private	Agriculture	0.0206	Surjit Singh 172/429 part Gurcharan Singh - Gubachan Singh S/o Kahar Singh S/o Gopal Singh equal part 171/429 and Surinder Kaur Widow and Iqbal Singh - Parvinder Singh - Hardeep Singh S/o and Gurdip Kaur - Davinder Kaur - Rajinder Kaur D/o Baljit Singh S/o Kahar Singh equal part 86/429 part.
			636	Private	Agriculture	0.2434	Surjit Singh 172/429 part Gurcharan Singh - Gubachan Singh S/o Kahar Singh S/o Gopal Singh equal part 171/429 and Surinder Kaur Widow and Iqbal Singh - Parvinder Singh - Hardeep Singh S/o and Gurdip Kaur - Davinder Kaur - Rajinder Kaur D/o Baljit Singh S/o Kahar Singh equal part 86/429 part.
			Way		Way	0.0126	Way

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			638	Private	Agriculture	0.1056	Bhupinder Singh - Balvinder Singh S/o Arjun Singh S/o Sahib Singh equal part
			639	Private	Agriculture	0.0197	Bhupinder Singh - Balvinder Singh S/o Arjun Singh S/o Sahib Singh equal part
			641	Nagar Panchayat	Way	0.0632	Nagar Panchayat of village
			642	Private	Agriculture	0.0452	Samsher Singh - Kuldeep Singh - Ajit Singh - Nirmal Singh - Nirmal Singh S/o Inder Singh S/o Mangal Singh equal part
			643	Private	Agriculture	0.0545	Samsher Singh - Kuldeep Singh - Ajit Singh - Nirmal Singh - Nirmal Singh S/o Inder Singh S/o Mangal Singh equal part
6.	Ganda		199	Private	Agriculture	0.2124	Smt. Surjit Kaur Widow and Raghveer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Banta Singh S/o Sampuran Singh equal part 1/2 part Samsher Singh - Kuldeep Singh - Ajit Singh - Nirmal Singh-Nirmal Singh S/o Inder Singh S/o Mangal Singh equal part 1/2 part resident Ghagar Sarai.
			198	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1839	Smt. Surjit Kaur Widow and Raghveer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Banta Singh S/o Sampuran Singh equal part 1/2 part Samsher Singh - Kuldeep Singh - Ajit Singh - Nirmal Singh-Nirmal Singh S/o Inder Singh S/o Mangal Singh equal part 1/2 part resident Ghagar Sarai.
			197	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.0153	Smt. Surjit Kaur Widow and Raghveer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Banta Singh S/o Sampuran Singh equal part 1/2 part Samsher Singh - Kuldeep Singh - Ajit Singh - Nirmal Singh-Nirmal Singh S/o Inder Singh S/o Mangal Singh equal part 1/2 part resident Ghagar Sarai.
			186	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.3691	Rachni Kaur Widow and Chand Singh - Hajara Singh - Sardara Singh - Bala Singh S/o Jaimal Singh S/o Mansa Ram equal part
			187	Private	Agriculture	0.0025	Rachni Kaur Widow and Chand Singh - Hajara Singh - Sardara Singh - Bala Singh S/o Jaimal Singh S/o Mansa Ram equal part
			185	Private	Agriculture	0.1817	Rachni Kaur Widow and Chand Singh - Hajara Singh - Sardara Singh - Bala Singh S/o Jaimal Singh S/o Mansa Ram equal part
			357/184	Private	Agriculture	0.1998	Diyal S/o Nikka Ram S/o Mansa Ram 1/5 part and Raghveer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Bant Singh S/o Sampuran Singh equal part 1/5 part Ram Rakhi Widow and Baljinder Kaur - Kulvinder Kaur and Surinder Kumar S/o and D/o Jeet Singh S/o Nikka Ram equal part 1/5 part and Ram Singh S/o Jot Ram S/o Gujjar 1/5 part Samsher Singh - Karnail Singh - Suchha Singh equal part 1/9 part Gurmit Singh 4/45 part S/o Saroop Singh S/o Chuhad Singh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			181	Private	Agriculture	0.2034	Diyala S/o Nikka Ram S/o Mansa Ram 1/5 part and Ram Rakhi Widow and Baljinder Kaur - Kulvinder Kaur D/o and Surinder Kumar S/o Jeet Ram S/o Nikka Ram equal part 1/5 part and Raghveer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbagh Singh - Baljit Singh S/o Bant Singh S/o Sampuran Singh equal part 1/5 part Ram Singh S/o Jot Ram S/o Gujjar 1/5 part Samsher Singh - Karnail Singh - Suchha Singh equal part 9/62 part Gurmit Singh 17/310 part S/o Saroop Singh S/o Chuhad Singh.
			180	Private	Agriculture	0.1974	Diyala S/o Nikka Ram S/o Mansa Ram 1/5 part and Ram Rakhi Widow and Baljinder Kaur - Kulvinder Kaur D/o and Surinder Kumar S/o Jeet Ram S/o Nikka Ram equal part 1/5 part and Raghveer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbagh Singh - Baljit Singh S/o Bant Singh S/o Sampuran Singh equal part 1/5 part Ram Singh S/o Jot Ram S/o Gujjar 1/5 part Samsher Singh - Karnail Singh - Suchha Singh equal part 9/62 part Gurmit Singh 17/310 part S/o Saroop Singh S/o Chuhad Singh.
			174	Private	Agriculture	0.1989	Diyala 1/10 part and Prem Chand - Ajmer Singh - Baldev Singh S/o Nikka Ram equal part 341/1330 part and Ram Rakhi Widow Jeet Singh S/o Nikka Ram 1/10 part Dhaniram - Hariram - Banwari Lal - Joginder Singh S/o Chetu Urf Chetram S/o Mansa Ram equal part 2/5 part Diyala Widow and Balkar Singh - Gurmit Singh - Charan Das Tarsem Kumar S/o and Gurmit Kaur D/o Amar Nath S/o Chetu Urf Chet Ram equal part 3/35 part and Rajrani Widow and Hardeep Singh - Dalip Singh S/o Sukhvinder Singh S/o Amarnath equal part 1/70 part Samsher Singh - Karnail Singh - Suchha Singh equal part 1/133 part Gurmit Singh 2/285 part S/o Sarup Singh S/o Chuhad Singh and Raghveer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Bant Singh equal part 58/1995 part Diyal Chand S/o Nikka Ram S/o Mansa Ram 1/5 part and Ram Rakhi Widow and Baljinder Kaur - Kulvinder Kaur D/o and Surinder Kumar S/o Jeet Singh S/o Nikka Ram equal part 1/5 part and Raghveer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Bant Singh S/o Sampuran Singh equal part 1/5 part . Ram Singh S/o Jot ram S/o Gujjar 1/5 part Samsher Singh - Karnail Singh - Suchha Singh equal part 21/170 part Gurmit Singh 13/170 part S/o Sarup Singh S/o Chuhad Singh
			173	Private	Agriculture	0.0294	Vikram Singh - Nirmal Singh S/o Ram Lal S/o Jot Ram equal part
			173/1	Nagar Panchayat	Agriculture	0.1733	Nagar Panchayat of village
			167	Punjab Government and Private	Canal and Agriculture	0.1859	Punjab Government..... Ram Ratan - Ram Lal - Jagir Singh - Suchha Singh - Naib Singh S/o Jot Ram S/o Gujjar Singh equal part 111/133 part Hardev Singh S/o Ram Ratan S/o Jot Ram 1/38 part Dalbir Singh - Randheer Singh S/o Sarup S/o Amar Singh equal part 15/133 part Maninder Singh S/o Jot Ram S/o Gujjar Singh 1/38 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			165	Punjab Government and Private	Canal and Agriculture	0.1872	Punjab Government..... Ram Ratan - Ram Lal - Jagir Singh - Suchha Singh - Naib Singh S/o Jot Ram S/o Gujjar Singh equal part 111/133 part Hardev Singh S/o Ram Ratan S/o Jot Ram 1/38 part Dalbir Singh - Randheer Singh S/o Sarup S/o Amar Singh equal part 15/133 part Maninder Singh S/o Jot Ram S/o Gujjar Singh 1/38 part .
			164	Punjab	Canal	0.1819	Punjab Government
			159	Punjab	Canal	0.1254	Punjab Government
			157	Private	Cold Store and Agriculture	0.0375	Ram Sarup S/o Amar Singh S/o Partap Singh Ram Kishan - Ram Nath - Hamek Singh - Daler Singh S/o Kurdia S/o Jai Ram.
			158/1	Private	Non-Agriculture, Cold Store	0.0073	Ram Sarup S/o Amar Singh S/o Partap Singh
			152/2	Private	Agriculture	0.0262	Sardara Singh 38/559 part Guljar Singh 103 1/2/559 part S/o Uttam Singh S/o Kahar Singh and Gurmit Singh - Harmit Singh S/o Surjit Kaur W/o Sardara Singh equal part 77/559 part Chatinn Kaur D/o Fakiria S/o Chajju 1/559 part Gurdev Singh - Balwant Singh - Nachantar Singh S/o Chameli Widow Narain Singh equal part 237 1/2/559 part Jaspal Kaur D/o Sarup Singh S/o Chameli 13/559 part Seema W/o Keval Kumar S/o Jai Narain 89/559 part .
			151	Private	Agriculture	0.1931	Sardar Singh - Guljar Singh S/o Uttam Singh S/o Kahar Singh equal part 23/159 part Gurmit Singh - Harmit Singh S/o Surjit Kaur W/o Sardar Singh equal part 23/159 part Chatinn Kaur S/o Fakiria S/o Chajju 23/159 part Gurdev Singh - Balwant Singh - Nachantar Singh S/o Chameli Widow Narain Singh equal part 45/106 part Raj Rani W/o Ram Partap S/o Kuda Ram and Ashok Kumar S/o Ram Partap S/o Kura Ram equal part 15/106 part .
			150	Private	Agriculture	0.1673	Sardar Singh - Guljar Singh S/o Uttam Singh S/o Kahar Singh equal part 23/159 part Gurmit Singh - Harmit Singh S/o Surjit Kaur W/o Sardar Singh equal part 23/159 part Chatinn Kaur S/o Fakiria S/o Chajju 23/159 part Gurdev Singh - Balwant Singh - Nachantar Singh S/o Chameli Widow Narain Singh equal part 45/106 part Raj Rani W/o Ram Partap S/o Kuda Ram and Ashok Kumar S/o Ram Partap S/o Kura Ram equal part 15/106 part .
			142	Private	Agriculture	0.1758	Nachatar Kaur Widow and Saranjit Kaur - Jaspal Kaur D/o Sadi Singh S/o Mehar Singh equal part
			141	Private	Agriculture	0.0042	Nachatar Kaur Widow and Saranjit Kaur - Jaspal Kaur D/o Sadi Singh S/o Mehar Singh equal part
			140	Nagar Panchayat	Way	0.0193	Nagar Panchayat of village
			138	Nagar Panchayat	Way	0.0456	Nagar Panchayat of village
			139	Punjab	Road	0.9245	Of Punjab Government
			131	Central Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.3570	Fakir Chand - Satpal S/o Banarsi Das S/o Ganda Ram equal part 2/3 part and Mangat Ram - Nirmal Chand S/o Amamath S/o Ganda Ram equal part 1/3 Hisa Of Central Government

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			130	Central Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1093	Fakir Chand - Satpal S/o Banarsi Das S/o Ganda Ram equal part 2/3 part and Mangat Ram - Nirmal Chand S/o Amamath S/o Ganda Ram equal part 1/3 Hisa Of Central Government
7.	Madanpur		1065	Private	Agriculture	0.1946	Fakir Singh S/o Ram Kishan S/o Jai Ram 350/2800 part Shadhu Singh S/o Ram Kishan S/o Jai Ram 1050/2800 part Nachantar Kaur W/o Banarsi Ram S/o Biru 422/2800 part Surjit Singh - Ram Karan - Gurmukh Singh equal part 698/2800 part Hari Singh 140/2800 part S/o and Nachantar Kaur 140/2800 part S/o Mohan Lal S/o Jai Ram..... Of Central Government
			1064	Central	Agriculture	0.2368	Of Central Government
			1068	Central Government	Agriculture	0.1154	Of Central Government..... Parbati D/o Rikhi Ram S/o Heera
			1069	Private	Agriculture	0.1217	Raghbeer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Bant Singh S/o Sampuran Singh equal part 1/2 part Bila Rahan and Lachman Das S/o Chiranji Lal S/o Ram Ji Das 1/2 part Rahan : Lachman Das S/o Charanji Lal S/o Ram Ji Das leaser against Rs. 50,000/-
			1074	Private	Agriculture	0.1333	Amar Singh - Sajaan Singh - Hajara Singh S/o Hamam Singh S/o Bhola Singh equal part
			1075	Private	Agriculture	0.1849	Raghbeer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Bant Singh S/o Sampuran Singh equal part
			1085	Private	Agriculture	0.2006	Raghbeer Singh - Sukhdev Singh - Joginder Singh - Dilbag Singh - Baljit Singh S/o Bant Singh S/o Sampuran Singh equal part
			1080	Private	Agriculture	0.0025	Amarnath - Banwari Lal - Dhani Ram - Hari Ram - Joginder Singh S/o Chet Ram S/o Mana Ram equal part
			Way		Way	0.0464	Way
			1084	Nagar Panchayat	Way	0.0341	Nagar Panchayat of village
			1141	Nagar Panchayat	Non-Agriculture	0.6700	Nagar Panchayat of village
			1086	Private	Agriculture	0.1587	Om Prakash - Ravi Chand - Ram Pal S/o Puran Chand S/o Gobind Ram equal part 1/2 part Ram Karan S/o Dhani Ram S/o Gobind Ram 1/2 part
			1091	Private	Agriculture	0.1800	Om Prakash - Ravi Chand - Ram Pal S/o Puran Chand S/o Gobind Ram equal part 1/2 part Ram Karan S/o Dhani Ram S/o Gobind Ram 1/2 part
			1092	Private	Agriculture	0.0937	Om Prakash - Ravi Chand - Ram Pal S/o Puran Chand S/o Gobind Ram equal part 1/2 part Ram Karan S/o Dhani Ram S/o Gobind Ram 1/2 part
			1087	Private	Agriculture	0.0120	Om Prakash - Ravi Chand - Ram Pal S/o Puran Chand S/o Gobind Ram equal part 1/2 part Ram Karan S/o Dhani Ram S/o Gobind Ram 1/2 part
			1093	Private	Agriculture	0.1381	Hajara Singh S/o Chanan Singh
			1100	Private	Agriculture	0.1419	Avtar Singh Garja Singh Jarnail Singh Mahinder Singh S/o Nanak Singh S/o Channan Singh equal parts
			1101	Private	Agriculture	0.1439	Amarnath - Banwari Lal - Dhani Ram - Hari Ram - Joginder Singh S/o Chet Ram S/o Mana Ram equal part

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1102	Private	Agriculture	0.0519	Amarnath - Banwari Lal - Dhani Ram - Hari Ram - Joginder Singh S/o Chet Ram S/o Mana Ram equal part
			1111	Private	Agriculture	0.0319	Chetram S/o Masa Ram S/o Ganda
			1112	Private	Agriculture	0.1832	Chetram S/o Masa Ram S/o Ganda
			1119	Nagar Panchayat	Non-Agriculture	0.0103	Nagar Panchayat of village
			1167	Nagar Panchayat	Non-Agriculture	0.0233	Nagar Panchayat of village
			1185	Nagar Panchayat	Non-Agriculture	0.0295	Nagar Panchayat of village
			1229	Nagar Panchayat	Non-Agriculture	0.0767	Nagar Panchayat of village
			1184	Nagar Panchayat	Non-Agriculture	0.7993	Nagar Panchayat of village
			1120	Private	Agriculture	0.1823	Nachantar Singh - Jasmer Singh - Dharmpal S/o Ram Kishan S/o Dulla Singh equal part
			1121	Private	Agriculture	0.0025	Nachantar Singh - Jasmer Singh - Dharmpal S/o Ram Kishan S/o Dulla Singh equal part
			1140	Private	Agriculture	0.1639	Nachantar Singh - Jasmer Singh - Dharmpal S/o Ram Kishan S/o Dulla Singh equal part
			1139	Private	Agriculture	0.0028	Nachantar Singh - Jasmer Singh - Dharmpal S/o Ram Kishan S/o Dulla Singh equal part
			1138	Private	Agriculture	0.0367	Nachantar Singh - Jasmer Singh - Dharmpal S/o Ram Kishan S/o Dulla Singh equal part
			1136	Private	Agriculture	0.1041	Nachantar Singh - Jasmer Singh - Dharmpal S/o Ram Kishan S/o Dulla Singh equal part
			1135	Private	Agriculture	0.1528	Jasmer Singh S/o Ram Kishan S/o Bula Singh 1/4 part Smt. Satnam Kaur W/o Ravel Singh S/o Sangat Singh 3/4 part
			1134	Private	Agriculture	0.1758	Jasmer Singh S/o Ram Kishan S/o Bula Singh 1/4 part Smt. Satnam Kaur W/o Ravel Singh S/o Sangat Singh 3/4 part
			1152	Private	Agriculture	0.0771	Smt. Manjit Kaur W/o Jeet Singh S/o Mehar Singh
			1153	Private	Agriculture	0.0674	Smt. Manjit Kaur W/o Jeet Singh S/o Mehar Singh
			1154	Private	Agriculture	0.1092	Smt. Manjit Kaur W/o Jeet Singh S/o Mehar Singh
			1154/1	Private	Agriculture	0.0421	Smt. Manjit Kaur W/o Jeet Singh S/o Mehar Singh
			1156	Private	Agriculture	0.1273	Smt. Manjit Kaur W/o Jeet Singh S/o Mehar Singh
			1158	Private	Agriculture	0.0987	Joginder Singh S/o Saudagar Singh S/o Shadhu Singh
			1157	Private	Agriculture	0.1433	Joginder Singh S/o Saudagar Singh S/o Shadhu Singh
			1163	Private	Agriculture	0.0624	Joginder Singh S/o Saudagar Singh S/o Shadhu Singh
			1160	Private	Agriculture	0.0506	Joginder Singh S/o Saudagar Singh S/o Shadhu Singh
			1165	Private	Agriculture	0.0209	Joginder Singh S/o Saudagar Singh S/o Shadhu Singh
			1166	Private	Agriculture	0.0026	Joginder Singh S/o Saudagar Singh S/o Shadhu Singh
			1162	Private	Agriculture	0.0506	Joginder Singh and Avtar Singh S/o Saudagar Singh
			1161	Private	Agriculture	0.0927	Joginder Singh and Avtar Singh S/o Saudagar Singh S/o Mool Singh equal part

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1181	Private	Agriculture	0.1737	Babu Singh S/o Jagat Singh Makhan Singh 1/4 part Ravel Singh S/o Sardara Singh S/o Labh Singh 1/2 part Smt Aasha Rani w/o Rakesh kumar and Neeru Choudhary W/o Lajpat and Usha Chaudhary w/o Jagdish kumar and Rita Chaudhary w/o Anand Prakash and Usha Choudhary W/o Ram Chand and Kiran Rani W/o Gulshan Narang and Kanchan W/o Lalit Kumar equal part 1/4 part
			1183	Private	Agriculture	0.1475	Mehar Singh - Jawahar Singh S/o Pritam Singh S/o Rupa Singh equal part 2/3 part Karnail Singh - Joginder Singh - Man Singh S/o and Smt. Surjit Kaur - Gumam Kaur - Man Kaur - Amarjit Kaur D/o Banta Singh S/o Pritam Singh equal part 71/240 part Jorawar Singh - Husiyar Singh - Balkar Singh - Mangal Singh S/o and Paramjit Kaur - Balvinder Kaur D/o Prakash Kaur D/o Banta Singh equal part 9/240 part
			1182	Private	Agriculture	0.4320	Mehar Singh - Jawahar Singh S/o Pritam Singh S/o Roop Singh equal part 2/3 part Jorawar Singh - Husiyar Singh - Balkar Singh - Mangal Singh S/o and Paramjit Kaur - Balvinder Kaur D/o Prakash Kaur D/o Banta Singh equal part 9/240 part Karnail Singh - Joginder Singh - Man Singh S/o and Smt. Surjit Kaur - Gumam Kaur - Man Kaur - Amarjit Kaur D/o Banta Singh S/o Pritam Singh equal part 71/240 part
			1186	Private	Agriculture	0.3034	Jangir Singh S/o Diyal Singh S/o Hakam Singh
			1187	Private	Agriculture	0.0464	Jangir Singh S/o Diyal Singh S/o Hakam Singh
			1180	Nagar Panchayat	Agriculture	0.0282	Smt. Asha Rani W/o Rakesh Kumar and Neeru Choudhary W/o Lajpat and Usha Choudhary W/o Jagdish Kumar and Rita Choudhary W/o Anand Prakash and Usha Choudhary W/o Ram Chand and Kiran Rani W/o Gulshan Narang and Kanchan W/o Lalit Kumar equal part 1/4 part Babu Singh S/o Jagat Singh S/o Meva Singh 1/4 part Ravel Singh S/o Sardara Singh S/o Labh Singh 1/2 part .
			1191	Nagar Panchayat	Agriculture	0.0026	Puran Singh - Gurcharan Singh - Jarnail Singh S/o Kartar Singh equal part 1/2 part Puran Singh - Bhag Singh S/o Kartar Singh S/o Savan Singh equal part 1/2 part .
			1190	Private	Agriculture	0.2374	Puran Singh - Gurcharan Singh - Jarnail Singh S/o Kartar Singh equal part 1/2 part Puran Singh - Bhag Singh S/o Kartar Singh S/o Savan Singh equal part 1/2 part .
			1189	Private	Agriculture	0.1517	Jangir Singh S/o Kirpal Singh S/o Hakam Singh
			1188	Private	Agriculture	0.0843	Jangir Singh S/o Kirpal Singh S/o Hakam Singh
			1207	Private	Agriculture	0.0542	Garja Singh - Nanak Singh - Sucha Singh S/o Gurmukh Singh S/o Karam Singh
			1208	Private	Agriculture	0.0572	Garja Singh - Nanak Singh - Sucha Singh S/o Gurmukh Singh S/o Karam Singh
			1206	Private	Agriculture	0.0025	Bhajan Singh S/o Jagat Singh S/o Labh Singh
			1230	Private	Agriculture	0.5225	Babu Singh S/o Jagat Singh S/o Makhan Singh 1/2 part Baldev Singh - Gurdev Singh S/o Buta Singh S/o Mulla Singh equal part 1/3 part Smt. Samittar Kaur mata and Budh Kaur Widow and Satnaam Singh S/o and Raj Kaur - Jasvir Kaur - Balvinder Kaur - Jasvinder Kaur - Kulvinder Kaur D/o Jeet Singh S/o Buta Singh equal part 1/6 part
			1231	Private	Agriculture	0.5057	Kashmir Singh - Jagir Singh - Amrik Singh S/o Budh Singh S/o Karam Singh equal part
			1238	Private	Agriculture	0.2456	Mahinder Singh 1/2 part Joginder Singh - Surinderpal Singh equal part 1/2 part S/o Sant Kumar S/o Gyan Singh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1239	Private	Agriculture	0.0118	Smt. Samittar Kaur Mata and Budh Kaur Widow and Satnam Singh S/o and Raj Kaur - Jasvir Kaur - Balvinder Kaur - Jasvinder Kaur - Kulvinder Kaur D/o Jeet Singh S/o Buta Singh equal part 1/6 part Baldev Singh - Gurdev Singh S/o Buta Singh S/o Mula Singh equal part 1/3 part Puran Singh - Bhag Singh S/o Kartar Singh S/o Saun Singh equal part 1/2 part .
			1237	Private	Agriculture	0.4046	Puran Singh - Bhag Singh S/o Kartar Singh S/o Saun Singh equal part
			1234	Private	Agriculture	0.1686	Seva Singh - Gurdev Singh - Hardev Singh S/o and Bhajan Kaur - Darshan Kaur D/o and Vidiya Kaur Widow Ujagar Singh S/o Mehar Singh equal part 3/4 part Pumman Singh S/o Mehar Singh S/o Ganda Singh 1/4 part .
			1233	Private	Agriculture	0.3961	Seva Singh - Gurdev Singh - Hardev Singh S/o and Bhajan Kaur - Darshan Kaur D/o and Vidiya Kaur Widow Ujagar Singh S/o Mehar Singh equal part 3/4 part Pumman Singh S/o Mehar Singh S/o Ganda Singh 1/4 part .
			1232	Private	Agriculture	0.1770	Seva Singh - Gurdev Singh - Hardev Singh S/o and Bhajan Kaur - Darshan Kaur D/o and Vidiya Kaur Widow Ujagar Singh S/o Mehar Singh equal part 3/4 part Pumman Singh S/o Mehar Singh S/o Ganda Singh 1/4 part .
			1235	Private	Agriculture	0.2486	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1236	Private	Agriculture	0.4256	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1248	Private	Agriculture	0.3267	Jhadia Singh S/o Amar Singh S/o Nanak Singh 1/21 part Nishan Singh Gurnam Singh S/o Charan Singh S/o Kartar Singh equal part 1/7 part Santokh Singh - Ravel Singh S/o Diyal Singh S/o Hakam Singh equal part 8/21 part Amrik Singh S/o Pritam Singh S/o Bahadur Singh and Joga Singh S/o Sawarn Singh S/o Pritam Singh 2/7 part Karnail Singh - Kashmir Singh S/o Parsan Singh and Gurdeep Singh S/o Nirmal Singh S/o Parsan Singh equal part 1/7 part .
			1247	Private	Agriculture	0.0579	Jhadia Singh S/o Amar Singh S/o Nanak Singh 1/21 part Nishan Singh Gurnam Singh S/o Charan Singh S/o Kartar Singh equal part 1/7 part Santokh Singh - Ravel Singh S/o Diyal Singh S/o Hakam Singh equal part 8/21 part Amrik Singh S/o Pritam Singh S/o Bahadur Singh and Joga Singh S/o Sawarn Singh S/o Pritam Singh 2/7 part Karnail Singh - Kashmir Singh S/o Parsan Singh and Gurdeep Singh S/o Nirmal Singh S/o Parsan Singh equal part 1/7 part .
			1249	Private	Agriculture	0.2866	Jhadia Singh S/o Amar Singh S/o Nanak Singh 1/21 part Nishan Singh Gurnam Singh S/o Charan Singh S/o Kartar Singh equal part 1/7 part Santokh Singh - Ravel Singh S/o Diyal Singh S/o Hakam Singh equal part 8/21 part Amrik Singh S/o Pritam Singh S/o Bahadur Singh and Joga Singh S/o Sawarn Singh S/o Pritam Singh 2/7 part Karnail Singh - Kashmir Singh S/o Parsan Singh and Gurdeep Singh S/o Nirmal Singh S/o Parsan Singh equal part 1/7 part .
			1241	Private	Agriculture	0.0054	Tartok Singh - Satvinder Singh - Balvinder Singh S/o Hamam Singh S/o Saudagar Singh equal part

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1250	Private	Agriculture	0.4788	Jhadia Singh S/o Nanak Singh 1/21 part Nishan Singh Gumam Singh S/o Charan Singh S/o Kartar Singh equal part 1/7 part Amrik Singh S/o Pritam Singh S/o Bahadur Singh and Joga Singh S/o Sawam Singh S/o Pritam Singh equal part 2/7 part Karnail Singh - Kashmir Singh S/o Parsan Singh S/o Baka Singh equal part 1/21 part Gurdeep Singh S/o Nirmal Singh S/o Parsan Singh 1/42 part . Maan Kaur D/o Atar Singh 1/14 part Santokh Singh - Ravel Singh S/o Diyal Singh S/o Hakam Singh equal part 8/21 part
			1252	Private	Agriculture	0.0158	Jhadia Singh S/o Nanak Singh 1/21 part Nishan Singh Gumam Singh S/o Charan Singh S/o Kartar Singh equal part 1/7 part Amrik Singh S/o Pritam Singh S/o Bahadur Singh and Joga Singh S/o Sawam Singh S/o Pritam Singh equal part 2/7 part Karnail Singh - Kashmir Singh S/o Parsan Singh S/o Baka Singh equal part 1/21 part Gurdeep Singh S/o Nirmal Singh S/o Parsan Singh 1/42 part . Maan Kaur D/o Atar Singh 1/14 part Santokh Singh - Ravel Singh S/o Diyal Singh S/o Hakam Singh equal part 8/21 part
			1251	Private	Agriculture	0.2671	Jhadia Singh S/o Nanak Singh 1/21 part Nishan Singh Gumam Singh S/o Charan Singh S/o Kartar Singh equal part 1/7 part Amrik Singh S/o Pritam Singh S/o Bahadur Singh and Joga Singh S/o Sawam Singh S/o Pritam Singh equal part 2/7 part Karnail Singh - Kashmir Singh S/o Parsan Singh S/o Baka Singh equal part 1/21 part Gurdeep Singh S/o Nirmal Singh S/o Parsan Singh 1/42 part . Maan Kaur D/o Atar Singh 1/14 part Santokh Singh - Ravel Singh S/o Diyal Singh S/o Hakam Singh equal part 8/21 part Amrik Singh S/o Pritam Singh S/o Bahadur Singh and Joga Singh S/o Sawam Singh S/o Pritam Singh equal part
			1256	Private	Agriculture	0.0391	Gurdiyal Singh - Santokh Singh - Diwan Singh S/o Mansa Singh equal part 3/8 part Surinder Kaur Widow and Dalbir Singh - Paramjit Singh S/o Hardiyal Singh S/o Mansa Singh equal part 1/8 part Prabha Singh S/o Hira Singh 1/2 part .
8.	Chamaru		1623	Private	Agriculture	0.0253	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1622	Private	Agriculture	0.0379	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1621	Private	Agriculture	0.0464	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1620	Private	Agriculture	0.0295	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1619	Private	Agriculture	0.0927	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1618	Private	Agriculture	0.1517	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1617	Private	Agriculture	0.2276	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1616	Private	Agriculture	0.2697	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh
			1615	Private	Agriculture	0.3287	Hamam Singh S/o Saudagar Singh S/o Deva Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1613	Private	Agriculture	0.0176	Bhojinder Singh S/o Mall Singh and Raj Kiran Singh S/o Bhojinder Singh S/o Mall Singh 1260/2520 part Sarbjit Singh S/o Amarjeet Singh S/o Balwant Singh 908/2520 part Balvir Singh S/o Mangal Singh S/o Devi Dayal 352/2520 part Bhojinder Singh S/o Mall Singh and Raj Kiran Singh S/o Bhojinder Singh S/o Mall Singh equal part 1730/3460 part Sarbjit Singh S/o Amarjit Singh S/o Balwant Singh 1245/3460 part Balvir Singh S/o Mangal Singh S/o Devi Dayal 485/3460 part .
9.	Kharajpur		153	Private	Way	0.0735	Rakba Maturka Mahajrin
			29	Private	Agriculture	0.1329	Pritam Singh - Balvir Singh - Harbans Singh S/o Bahadur Singh S/o Mall Singh equal part Pritam Singh S/o Bahadur Singh S/o Mall Singh.....
			28	Government	Non-Agriculture	0.0029	Government Daulat Madaar
			26	Private	Agriculture	0.6516	Harbans Singh S/o Bahadur Singh S/o Mall Singh 1/3 part Anjali Gupta W/o Rajiv Kumar S/o Rameshwar Das 1/2 part Suman Sood W/o Naresh Sood S/o Jagdish Chand and Manisha Sood W/o Anil Sood S/o Jagdish Chand equal part 1/6 part .
			27	Private	Agriculture	0.3551	Harbans Singh S/o Bahadur Singh S/o Mall Singh 1/3 part Anjali Gupta W/o Rajiv Kumar S/o Rameshwar Das 1/2 part Suman Sood W/o Naresh Sood S/o Jagdish Chand and Manisha Sood W/o Anil Sood S/o Jagdish Chand equal part 1/6 part .
			25	Private	Agriculture	0.5689	Amrik Singh S/o Thakar Singh S/o Havela Singh 41/285 part Bhupinder Kohli S/o Shadhu Ram S/o Chaju Ram 122/285 part Bhajan Singh - Shadhu Singh S/o Kapur Singh 82/285 part Rakesh Kumar S/o Madan Lal S/o Mannu Ram 40/285 part .
			24	Private	Agriculture	0.6762	Amrik Singh S/o Thakar Singh S/o Havela Singh 41/285 part Bhupinder Kohli S/o Shadhu Ram S/o Chaju Ram 122/285 part Bhajan Singh - Shadhu Singh S/o Kapur Singh 82/285 part Rakesh Kumar S/o Madan Lal S/o Mannu Ram 40/285 part .
			23	Private	Agriculture	0.3666	Dalip Singh - Surat Singh - Budh Singh S/o Jagat Singh S/o Jamit Singh equal part
			22	Private	Agriculture	0.4425	Karan Singh S/o Sant Singh S/o Chanda Singh
			21	Private and Bijli Board	Agriculture and Pole	0.5605	Lakhvinder Singh S/o Karam Singh S/o Sant Singh 1/2 part Rajvinder kaur W/o Harbhajan Singh S/o Karam Singh 1/2 part - Punjab State Electricity Board
			20	Private	Agriculture	0.2444	Lakhvinder Singh S/o Karam Singh S/o Sant Singh 1/2 part Rajvinder kaur W/o Harbhajan Singh S/o Karam Singh 1/2 part - Punjab State Electricity Board
			19	Private	Hotel and Agriculture	0.3582	Harinder Singh S/o Labh Singh S/o Karnail Singh
			18/1	Private	Agriculture	0.1854	Davinder Kaur Widow and Paramjit Singh - Rajinder Singh - Sukhvinder Kaur S/o and D/o Rachpal Singh S/o Sant Singh equal part 3/25 part Gurdhiyan Singh - Tirth Singh - Bhupendra Singh - Bhagwant Singh S/o Sant Singh equal part 12/25 part Balvinder Singh S/o Tirth Singh S/o Sant Singh 2/5 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			17/1	Private	Agriculture	0.1896	Davinder Kaur Widow and Paramjit Singh - Rajinder Singh - Sukhvinder Kaur S/o and D/o Rachpal Singh S/o Sant Singh equal part 3/25 part Gurdhiyan Singh - Tirth Singh - Bhupendra Singh - Bhagwant Singh S/o Sant Singh equal part 12/25 part Balvinder Singh S/o Tirth Singh S/o Sant Singh 2/5 part .
			18	Private	Agriculture	0.1854	Pyar Kaur Widow and Gyan Kaur - Takth Kaur - Baint Kaur - Bhajan Kaur - Jeet Kaur - Paramjit Kaur D/o Deva Singh S/o Sham Singh equal part
			17	Private	Agriculture	0.1896	Pyar Kaur Widow and Gyan Kaur - Takth Kaur - Baint Kaur - Bhajan Kaur - Jeet Kaur - Paramjit Kaur D/o Deva Singh S/o Sham Singh equal part
			16	Private	Agriculture	0.4383	Davinder Kaur Widow and Paramjit Singh - Rajinder Singh - Sukhjinder Kaur S/o and D/o Rachpal Singh S/o Sant Singh equal part 3/25 part Gurdhiyan Singh - Tirth Singh - Bhupender Singh - Bhagwant Singh S/o Sant Singh S/o Sarup Singh equal part 12/25 part Baljinder Singh S/o Tirth Singh S/o Sant Singh 2/5 part Pyar Kaur Widow and Gyan Kaur - Takth Kaur - Baint Singh - Bhajan Kaur - Jeet Kaur - Paramjit Kaur D/o Deva Singh S/o Sham Singh equal part
			15	Private	Agriculture	0.9187	Daulat Singh S/o Nihal Singh S/o Hukam Singh
			14	Private	Way	0.0716	Rakba Matraka Mahajarin
			13	Private	Agriculture	0.3034	Pritam Kaur Widow and Buta Singh Putar Matbanna Dalip Singh equal part 1/2 part Bhag Singh S/o Mansa Singh S/o Basava Singh 1/2 part .
			12	Private	Agriculture	0.3413	Bhag Singh S/o Mansa Singh S/o Maha Singh 1/2 part Pritam Kaur Widow and Budh Singh S/o adopted Dalip Singh S/o Basava Singh equal part 1/2 part .
			11	Private	Agriculture	0.1096	Bhag Singh S/o Mansa Singh S/o Basava Singh 1/2 part Pritam Kaur Widow and Buta Singh S/o adopted Dalip Singh equal part 1/2 part .
			10	Private	Agriculture	0.3287	Bhag Singh S/o Munsa Singh S/o Basava Singh 1/2 part Pritam Kaur Widow and Budh Singh adopted Dalip Singh S/o Basava Singh equal part 1/2 part .
			9/3	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.6321	Sangara Singh S/o Fagan Singh..... Harbans Kaur Widow Atar Singh S/o Maha Singh..... Bhag Singh S/o Mansa Singh S/o Basava Singh 1/2 part Pritam Kaur Widow and Buta Singh S/o adopted Dalip Singh equal part 1/2 part .
			9/2	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.2191	Sangara Singh S/o Fagan Singh..... Harbans Kaur Widow Atar Singh S/o Maha Singh..... Bhag Singh S/o Mansa Singh S/o Basava Singh 1/2 part Pritam Kaur Widow and Buta Singh S/o adopted Dalip Singh equal part 1/2 part .
			9/1	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1096	Sangara Singh S/o Fagan Singh..... Harbans Kaur Widow Atar Singh S/o Maha Singh..... Bhag Singh S/o Mansa Singh S/o Basava Singh 1/2 part Pritam Kaur Widow and Buta Singh S/o adopted Dalip Singh equal part 1/2 part .
			8/2	Private	Agriculture	0.2318	Mani Singh S/o Maha Singh S/o Atma Singh ... Sangara Singh S/o Fagan Singh
			8/1	Private	Agriculture	0.6363	Mani Singh S/o Maha Singh S/o Atma Singh ... Sangara Singh S/o Fagan Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			7/1	Punjab Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1643	Labh Singh - Vidhya Kaur D/o Sher Singh S/o Latkan Singh equal part 1/4 part - Harbans Singh - Bhajan Singh - Joginder Singh - Amrik Singh S/o Bhag Singh 1/4 part Surinder Singh - Mohan Singh - Sohan Singh S/o Darshan Singh 1/6 part Angrej Singh - Sukhdev Singh - Jaswant Singh S/o Mahinder Singh 1/6 part rate 1/5 part Gurbaksh Singh - Nishan Singh - Balvinder Singh S/o Bhag Singh S/o Sher Singh equal part 1/4 part Darshan Singh S/o Bhag Singh S/o Sher Singh..... Gurdip Chauhan S/o Singara Singh S/o Nanak Singh... Vipin Varma S/o Vasdev S/o Galamat Rai..... Punjab Government
			7/2	Punjab Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1486	Labh Singh - Vidhya Kaur D/o Sher Singh S/o Latkan Singh equal part 1/4 part - Harbans Singh - Bhajan Singh - Joginder Singh - Amrik Singh S/o Bhag Singh 1/4 part Surinder Singh - Mohan Singh - Sohan Singh S/o Darshan Singh 1/6 part Angrej Singh - Sukhdev Singh - Jaswant Singh S/o Mahinder Singh 1/6 part rate 1/5 part Gurbaksh Singh - Nishan Singh - Balvinder Singh S/o Bhag Singh S/o Sher Singh equal part 1/4 part Darshan Singh S/o Bhag Singh S/o Sher Singh..... Gurdip Chauhan S/o Singara Singh S/o Nanak Singh... Vipin Varma S/o Vasdev S/o Galamat Rai..... Punjab Government
			7/3	Punjab Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1770	Labh Singh - Vidhya Kaur D/o Sher Singh S/o Latkan Singh equal part 1/4 part - Harbans Singh - Bhajan Singh - Joginder Singh - Amrik Singh S/o Bhag Singh 1/4 part Surinder Singh - Mohan Singh - Sohan Singh S/o Darshan Singh 1/6 part Angrej Singh - Sukhdev Singh - Jaswant Singh S/o Mahinder Singh 1/6 part rate 1/5 part Gurbaksh Singh - Nishan Singh - Balvinder Singh S/o Bhag Singh S/o Sher Singh equal part 1/4 part Darshan Singh S/o Bhag Singh S/o Sher Singh..... Gurdip Chauhan S/o Singara Singh S/o Nanak Singh... Vipin Varma S/o Vasdev S/o Galamat Rai..... Punjab Government
			6	Punjab Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.4834	Labh Singh - Vidhya Kaur D/o Sher Singh S/o Latkan Singh equal part 1/4 part - Harbans Singh - Bhajan Singh - Joginder Singh - Amrik Singh S/o Bhag Singh 1/4 part Surinder Singh - Mohan Singh - Sohan Singh S/o Darshan Singh 1/6 part Angrej Singh - Sukhdev Singh - Jaswant Singh S/o Mahinder Singh 1/6 part rate 1/5 part Gurbaksh Singh - Nishan Singh - Balvinder Singh S/o Bhag Singh S/o Sher Singh equal part 1/4 part Punjab Government
			1	Government	G T Road	1.2261	Government Daulat Madaar
			5	Punjab Government	Non-Agriculture	0.4294	Punjab Government
			4	Punjab Government and Private	Non-Agriculture	0.4460	Naresh Kumar S/o Prem Chand S/o Dashodhi Ram 1/4 part Pavinder Kumar S/o Amar Chand S/o Ram Sarup 1/4 part Smt. Veena W/o Jasvir Singh Sodhi S/o Ajit Singh 1/4 part Bahadur Singh S/o Balak Ram S/o Ditta Ram 1/4 part Punjab Government
			3	Private	Agriculture	0.3461	Gurmukh Singh - Bachan Singh - Budh Singh - Dhyam Singh S/o Karam Singh S/o Lehna Singh equal part

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2	Private	Agriculture	0.3727	Gurmukh Singh - Bachan Singh - Budh Singh - Dhyani Singh S/o Karam Singh S/o Lehna Singh equal part
10.	Bir Rajpura		22	Private	Non-Agriculture	0.5300	<p>Jasvir Singh S/o Manohar Singh S/o Hakam Singh 4000/23750 part Karam Singh S/o Karnail Singh S/o Niranjani Singh 681/23750 part Harpreet Singh S/o Ranjit Singh S/o Karam Singh 1256/23750 part Dalip Singh S/o Ishar Singh S/o Chotu Singh 278/23750 part Devki Nandan S/o Shadhu Ram S/o Jado Rai 2000/23750 part Prem Sagar S/o Hari Chand S/o Janki Das 74/23750 part Satia Pal S/o Phula Ram S/o Kahan Ram 125/23750 part Ranjit Singh S/o Jarnail Singh S/o Hari Chand 159/23750 part Nirabhi Singh S/o Teja Singh S/o Amar Singh 286/23750 part Amar Chand S/o Pokhar Das S/o Deva Ram 137/23750 part Smt. Kulwant Kaur W/o Ramchand S/o Banarsi Das 168/23750 part Rakesh Singla S/o Pawan Kumar S/o Achru Mal and Sapna Singla W/o Rajesh Singla S/o Pawan Singla 111/23750 part Dinesh Singla S/o Pawan Singla S/o Achru Mal and Amita Singla W/o Dinesh Singla S/o Pawan Singla equal part 38/23750 part Vijay Dhani S/o Ram Kumar S/o Tulsi Ram 75/23750 part Balram S/o Balwant Ram S/o Pala Ram 63/23750 part Sanjiv Kumar S/o Hukam Chand S/o Dhani Ram 38/23750 part Sudesh Kumar S/o Megh Raj S/o Asha Nand 178/23750 part .</p> <p>Kapil Kumar S/o Rajinder Kumar S/o Aatam Prakash 180/23750 part Ajay Kumar S/o Jeetram S/o Surat Ram 328/23750 part Sudhir Kumar S/o Rajinder Kumar S/o Mani Ram 191/23750 part Rajinder Kumar S/o Jaswant Singh S/o Rama Nand 273/23750 part Charanjit Singh S/o Bachan Singh S/o Budh Singh 116/23750 part Navjot Sud S/o Suresh Kumar S/o Jagdish Chand 134/23750 part Sanjiv Kumar - Prem Chand S/o Hari Chand and Smt. Rekha Rani W/o Keval Kumar S/o Ramanand equal part 72/23750 part Navin Seth S/o Kishan Kumar S/o Chuni Lal 65/23750 part Jagjit Kaur W/o Raghveer Singh S/o Tara Singh 111/23750 part Raghveer Singh S/o Tara Singh S/o Jaimal Singh 171/23750 part Jaswant Singh S/o Inder Singh S/o Vadhava Singh 192/23750 part Gurcharan Singh S/o Pyara Singh S/o Ganga Singh 133/23750 part Charanjit Singh S/o Khajan Singh S/o Udham Singh 67/23750 part Gurmail Singh S/o Karnail Singh S/o Mangal Singh 147/23750 part Ratna Devi W/o Bishan Das S/o Raghupat Rai 109/23750 part Nirmal Singh - Jatinder Singh S/o Mahinder Singh S/o Fakir Singh 145/23750 part Harish Kumar S/o Badri Nath S/o Sant Ram 132/23750 part .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>Sabanjit Kaur W/o Puran Singh S/o Chanan Singh 65/23750 part Davinder Kumar S/o Gola Ram S/o Sobh Raj 14/23750 part Sonia - Ashwani Kumar - Suman - Seema - Santana - Baldev Kishan S/o Shadhu Ram 142/23750 part Yashpal S/o Nandlal S/o Tal Bharti 60/23750 part Kiranpreet Kaur W/o Jagbir Singh S/o Tara Singh 1412/23750 part Kabal Singh S/o Soma Singh S/o Mangal Singh 400/23750 part Jaswant Singh S/o Gurdial Singh S/o Teja Singh 400/23750 part Santokh Singh S/o Harbans Singh S/o Deva Singh 148/23750 part Jasvinder Singh S/o Balvir Singh S/o Bishan Singh 250/23750 part Amrit Kaur W/o Narinder Singh and Smt. Saran Malhotra W/o Pradeep Malhotra equal part 1300/23750 part Sunita Kapoor W/o Harish Kumar 51/23750 part Harish Chander S/o Ram Saran S/o Ramanand 168/23750 part Jaspal Singh S/o Surat Singh S/o Budh Singh 52/23750 part Vijay Kumar S/o Gurditta Ram S/o Jhanji Ram 1/3 part Ajay Kumar S/o Sada Nand S/o Kishan Chand 1/3 part Harish Kumar S/o Khem Chand 1/3 part rate 81/23750 part Satpal S/o Jagira Ram 148/23750 part Balvir Kaur W/o Preetpal Singh S/o Dharm Singh 230/23750 part .</p>
							<p>Parvinder Singh S/o Seva Singh S/o Puran Singh 616/23750 part Gurjeet Singh S/o Man Singh S/o Surat Singh 1365/23750 part Rishi Pal S/o Gurdial Singh S/o Balwant Singh and Javala Singh S/o Karam Singh S/o Kesar Singh and Darshan Singh S/o Sucha Singh S/o Hazara Singh equal part 688/23750 part Tajinder Singh S/o Khawant Singh S/o Buta Singh 1/2 part Amandeep Singh S/o Jeet Singh S/o Buta Singh 1/2 part rate 496/23750 part Paramjit Singh - Raghveer Singh S/o Surjit Singh S/o Kahal Singh 50/23750 part Asha Rani Widow Harjit Singh S/o Bhagwant Singh 273/23750 part Harbans Singh S/o Natha Singh S/o Asha Singh 9/23750 part Karamjit Kaur W/o Darshan Singh S/o Natha Singh 9/23750 part Shivram S/o Dhannu Ram S/o Lokuram and Silo Bai W/o Shivram S/o Dhannuram 94 1/2/23750 part Navlin Kaur W/o Jasvinder Singh S/o Balvir Singh 200/23750 part Ravinder Singh S/o Amar Singh S/o Ganda Singh 50/23750 part Randhir Singh S/o Amar Singh S/o Ram Singh 50/23750 part Jasvir Singh S/o Beant Singh S/o Ram Singh 48/23750 part Ranjit Singh S/o Ajaib Singh S/o Gurdial Singh 36/23750 part .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>Harbhajan Singh S/o Gurdev Singh S/o Narata Singh 29/23750 part Parinder Singh S/o Seva Singh S/o Puran Singh 489/23750 part Ravinder Singh S/o Amar Singh S/o Ganda Singh 50/23750 part Mukhtiyar Singh S/o Dhanvant Singh S/o Puran Singh 1/2 part Kamlesh Kumari W/o Sham Lal S/o Bhawani Das 1/2 part rate 31/23750 part Anil Kumar S/o Hansraj S/o Surat Lal and Sita Devi W/o Anil Kumar S/o Hansraj S/o Surat Lal and Sita Devi W/o Anil Kumar S/o Hans Raj equal part 118/23750 part Darshan Gir S/o Shankar Gir S/o Atma Gir 21½/23750 part Jai Kishan S/o Banarsi Das S/o Radha Kishan 491/23750 part Jasprit Singh S/o Pritpal Singh S/o Dharm Singh 250/23750 part Navjot Sud S/o Suresh Kumar S/o Jagdish Chand 134/23750 part Amandeep Singh S/o Bhupender Singh S/o Kartar Singh 14½/23750 part Indrajit Singh S/o Chanan Singh S/o Harditt Singh 90/23750 part Madhu Gupta S/o Sunder Lal S/o Bhole Nath 450/23750 part Harvinder Singh S/o Baljit Singh S/o Parsan Singh 38/23750 part Maninder Singh S/o Baljit Singh S/o Parsan Singh 39/23750 part Jasprit Singh S/o Pritpal Singh S/o Dharm Singh 50/23750 part Surinder Kataria W/o Prem Chand S/o Sohan Lal and</p> <p>Siraj Kumar S/o Yominder Mohan and Paramjit S/o Avtar Krishan S/o Hari Kishan equal part 2300/23750 part Paramjit Singh S/o Rajinder Singh S/o Sarup Singh 14½/23750 part Rajinder Kumar S/o Atam Prakash S/o Deen Dayal 150/23750 part Ranjit Singh S/o Kamail Singh 191/23750 part Harchand Singh 159/23750 part Shiv Ram S/o Dhannu Ram S/o Laku Ram and Silo Bai W/o Shiv Ram S/o Dhannu Ram equal part 94½/23750 part</p>
			576	Punjab Government	Kutch Rasta	0.7492	Punjab Government
			21	Punjab	Road	0.2512	Punjab Government
11.	Faridpur Gujran		280	Private	Agriculture	0.3856	Buta Singh S/o Kandhara Singh S/o Sohan Singh
			279	Private	Agriculture	0.2992	Buta Singh S/o Kandhara Singh S/o Sohan Singh
			277	Private	Agriculture	0.0025	Buta Singh S/o Kandhara Singh S/o Sohan Singh
			278	Private	Agriculture	0.1181	Buta Singh S/o Kandhara Singh S/o Sohan Singh
			229	Private	Agriculture	0.4126	Jarnail Singh - Sukhvinder Singh S/o Mitt Singh S/o Chanan Singh 1/2 part Anup Singh S/o Chanan Singh 1/2 part
			230	Private	Agriculture	0.0104	Jarnail Singh - Sukhvinder Singh S/o Mitt Singh S/o Chanan Singh 1/2 part Anup Singh S/o Chanan Singh 1/2 part
			231	Private	Agriculture	0.1755	Jarnail Singh - Sukhvinder Singh S/o Mitt Singh S/o Chanan Singh 1/2 part Anup Singh S/o Chanan Singh 1/2 part Gurmej Singh - Sukhdev Singh - Indrajit Singh - Kuldeep Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh
			228	Private	Agriculture	0.1306	Gurmej Singh - Sukhdev Singh - Indrajit Singh - Kuldeep Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh
			227	Private	Way and Agriculture	0.3945	Gurmej Singh - Sukhdev Singh - Indrajit Singh - Kuldeep Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh
			226	Private	Way and Agriculture	0.0604	Gurmej Singh - Sukhdev Singh - Indrajit Singh - Kuldeep Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh
			224	Private	Agriculture	0.0025	Gurmej Singh - Sukhdev Singh - Indrajit Singh - Kuldeep Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh
			221	Private	Agriculture	0.0199	Gurmej Singh - Sukhdev Singh - Indrajit Singh - Kuldeep Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			223	Private	Agriculture	0.4224	Sukhdev Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh... Gurmej Singh - Sukhdev Singh - Indrajit Singh - Kuldeep Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh
			222	Private	Agriculture	0.1306	Sukhdev Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh
			220	Private	Agriculture	0.2929	Bachan Singh S/o Lehna Singh S/o Ram Singh 7/8 part Sukhdev Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh 1/8 part
			218	Private	Agriculture	0.4031	Gurnam Singh - Bakshish Singh S/o Bachan Singh S/o Lehna Singh equal part Bachan Singh S/o Lehna Singh S/o Ram Singh 7/8 part Sukhdev Singh S/o Gyan Singh S/o Budha Singh 1/8 part .
			217	Private	Agriculture	0.0105	Gurnam Singh - Bakshish Singh S/o Bachan Singh S/o Lehna Singh equal part
			180	Nagar Panchayat	Agriculture	0.2107	Nagar Panchayat
			181	Nagar Panchayat	Agriculture	0.1774	Nagar Panchayat
			179	Nagar Panchayat	Agriculture	0.3539	Nagar Panchayat
			177	Nagar Panchayat	Agriculture	0.0473	Nagar Panchayat
			178	Nagar Panchayat	Agriculture	0.1391	Nagar Panchayat
			176	Nagar Panchayat	Agriculture	0.2536	Nagar Panchayat
			173	Nagar Panchayat	Agriculture	0.2739	Nagar Panchayat
			174	Nagar Panchayat	Agriculture	0.1151	Nagar Panchayat
			172	Nagar Panchayat	Graveyard	0.0822	Nagar Panchayat
			171	Nagar Panchayat	Non- Agriculture	0.1397	Nagar Panchayat
			170	Nagar Panchayat	Graveyard	0.1799	Nagar Panchayat
			188	Private	Agriculture	0.0038	Balkar Singh - Iqbal Singh - Bakshish Singh S/o Saran Singh S/o Lehna Singh 646/861 part Lakhvir Singh - Bagicha Singh 166/861 part Sukhvinder Singh - Bhupender Singh - Surinder Singh S/o Mukhtyar Singh S/o Saran Singh 49/861 part .
			189	Private	Agriculture	0.0065	Balkar Singh - Iqbal Singh - Bakshish Singh S/o Saran Singh S/o Lehna Singh 646/861 part Lakhvir Singh - Bagicha Singh 166/861 part Sukhvinder Singh - Bhupender Singh - Surinder Singh S/o Mukhtyar Singh S/o Saran Singh 49/861 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			89	Private	Agriculture	0.0111	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part . Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gumam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuahad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>
			119	Private	Agriculture	0.1854	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part . Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gumam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuahad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			120	Private	Agriculture	0.2117	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part .</p> <p>Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>
			118	Private	Agriculture	0.3516	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part .</p> <p>Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			115	Private	Agriculture	0.0693	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part.</p>
			117	Private	Agriculture	0.0421	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			116	Private	Agriculture	0.2901	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part .</p> <p>Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>
			113	Private	Agriculture	0.0056	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part .</p> <p>Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			96	Private	Agriculture	0.2571	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part . Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>
			97	Private	Agriculture	0.1531	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part . Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			94	Private	Agriculture	0.0423	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuahad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part.</p>
			85	Private	Agriculture	0.1770	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuahad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			86	Private	Agriculture	0.2557	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part .</p> <p>Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Sina Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuahad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>
			84	Private	Agriculture	0.3034	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part .</p> <p>Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Sina Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuahad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			83	Private	Agriculture	0.1103	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part .</p> <p>Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>
			79.	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.4307	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part .</p> <p>Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			80	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.0131	Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part . Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gumam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o
			78	Private	Agriculture	0.2908	Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part . Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gumam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjana Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			77	Private	Agriculture	0.2013	<p>Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part . Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gumam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o Chuahad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .</p>
			95	Private	Agriculture	0.3984	<p>Smt. Chanan Kaur Widow Prem Kaur Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Mahinder Kaur - Gumam Kaur 6/104 part Bian :- Jai Singh Amar Jeet Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 6/104 part Mustrian Baki 98/104 part Digar owners Mahima Singh - Avtar Singh - Surinder Singh - Jasvinder Singh S/o Hardayal Singh S/o Puran Singh 800/32018 part and Gurdarshan Singh - Gurmit Singh S/o Gurbachan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Harvinder Singh - Didar Singh S/o Gurcharan Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Jasvir Singh S/o Kor Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Atar Singh - Satpal Singh S/o Ajit Singh S/o Puran Singh 800/32018 part Gurdev Singh - Guljar Singh S/o Puran Singh S/o Telu equal part 1600/32018 part Joginder Singh - Mahinder Singh - Mehar Singh S/o Kundan Singh S/o Kalu 440/4574 part Pritam Singh - Bhagwan Singh S/o Dalip Singh S/o Saun Singh 280/4574 part Pritam Singh S/o Tulsi S/o Bhana 195/4574 part Jasvinder Kaur Widow Varinder Singh - Harinder Singh S/o Mohan Singh S/o Jagdish Singh 161/4574 part Balvir Singh - Meva Singh S/o Tulsi equal part 324/4574 part Smt. Kishan Kaur Widow and Rai Singh - Jai Singh - Amarjit Singh S/o and Narinder Kaur - Surjit Kaur D/o Jagat Singh S/o Roda Singh 180/4574 part Jai Singh - Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Roda Singh 300/4574 part . Bhagat Singh S/o Chamel Singh S/o Kuda Singh 110/4574 part Smt. Chanan Kaur Widow Prem Singh - Gurdev Kaur - Surinder Kaur - Gurnam Kaur - Mahinder Kaur D/o Siria Singh S/o Chamel Singh 110/4574 part Daulat Singh S/o Bishan Singh S/o Hira Singh 94/4574 part Ranjit Singh - Gurmit Singh - Surjit Singh - Jagtar Singh - Avtar Singh S/o Niranjan Singh S/o Jati equal part 804/4574 part Bachan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Singh - Ram Singh S/o Sher Singh S/o Hira Singh equal part 80/4574 part Rulda Singh S/o Jati S/o, Chuhad Singh 96/4574 part Sher Singh - Ajmer Singh - Dilbag Singh - Harinder Singh S/o Bachan Singh 500/4574 part .
			76	Nagar Panchayat	Way	0.0537	Nagar Panchayat of village
			72	Private	Well and Agriculture	0.0257	Ajaib Singh S/o Daan Singh S/o Pritam Singh
			68	Private	Agriculture	0.0851	Harnek Singh Nachatar singh Sawran Singh Harbans Singh S/o Jeet singh S/o Pratap Singh and Harbhajan Kaur W/o Balvir Singh S/o Jeet Singh
			67	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.2107	Harnek Singh Nachatar singh Sawran Singh Harbans Singh S/o Jeet singh S/o Pratap Singh and Harbhajan kaur W/o Balvir Singh S/o Jeet Singh equal share Sukhpal Singh Gurmail singh Gurmukh Singh S/o Siria Ram S/o Partap Singh 1/2 part
			66	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.0186	Harnek Singh Nachatar singh Sawran Singh Harbans Singh S/o Jeet singh S/o Pratap Singh and Harbhajan Kaur W/o Balvir Singh S/o Jeet Singh equal share
			63	Private	Agriculture	0.1473	Sukhpal Singh Gurmail singh Gurmukh Singh S/o Siria Ram S/o Partap Singh equal share
			62	Private	Agriculture	0.1461	Maghar Singh S/o Harmesh Singh S/o Jagir Singh S/o Suba Singh equal part
			61	Private	Agriculture	0.1358	Maghar Singh S/o Harmesh Singh S/o Jagir Singh S/o Suba Singh equal part
			59	Private	Agriculture	0.0029	Maghar Singh S/o Harmesh Singh S/o Jagir Singh S/o Suba Singh equal part
			60	Private	Agriculture	0.0928	Maghar Singh S/o Harmesh Singh S/o Jagir Singh S/o Suba Singh equal part
12.	Upal Heri		326	Private	Agriculture	0.0156	Harminder Singh S/o Niranjan Singh S/o Harnam Singh Rajinder Singh - Harvinder Singh S/o Balvir Singh S/o Jeeta Singh equal part 1/4 part Nachantar Singh -Sawarn Singh - Harbans Singh S/o Jeeta Singh S/o Pratap Singh equal part 3/4 part .
			325	Private	Agriculture	0.1765	Harminder Singh S/o Niranjan Singh S/o Harnam Singh
			324	Private	Agriculture	0.0867	Mahinder Singh Ajmer Singh S/o Amar Singh s/o Kapoor Singh equal share 2/3 part Kaldip Singh S/o Ranjeet Singh S/o Ram Singh 1/3 part Ravinder Kaur W/o Harminder Singh s/o Naranjan Singh
			319	Private	Agriculture	0.2642	Rajinder Singh - Harvinder Singh S/o Balvir Singh S/o Jeeta Singh equal part 1/4 part Nachantar Singh -Sawarn Singh - Harbans Singh S/o Jeeta Singh S/o Pratap Singh equal part 3/4 part Mahinder Singh - Ajmer Singh S/o Amar Singh S/o Kapur Singh equal part 2/3 part Kuldeep Singh S/o Ranjit Singh S/o Ram Singh 1/3 part Ravinder Kaur W/o Harminder Singh S/o Niranjan Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			318	Private	Agriculture	0.1672	Rajinder Singh - Harvinder Singh S/o Balvir Singh S/o Jeeta Singh equal part 1/4 part Nachantar Singh - Sawarn Singh - Harbans Singh S/o Jeeta Singh S/o Pratap Singh equal part 3/4 part Mahinder Singh - Ajmer Singh S/o Amar Singh S/o Kapur Singh equal part 2/3 part Kuldeep Singh S/o Ranjit Singh S/o Ram Singh 1/3 part Ravinder Kaur W/o Harminder Singh S/o Niranjn Singh
			317	Private	Agriculture	0.2264	Rajinder Singh - Harvinder Singh S/o Balvir Singh S/o Jeeta Singh equal part 1/4 part Nachantar Singh - Sawarn Singh - Harbans Singh S/o Jeeta Singh S/o Pratap Singh equal part 3/4 part Mahinder Singh - Ajmer Singh S/o Amar Singh S/o Kapur Singh equal part 2/3 part Kuldeep Singh S/o Ranjit Singh S/o Ram Singh 1/3 part Ravinder Kaur W/o Harminder Singh S/o Niranjn Singh
			316	Private	Agriculture	0.0183	Baldev Singh S/o Niranjn Singh S/o Harnam Singh 2152/4785 part Surjit Kaur W/o Baldev Singh S/o Niranjn Singh 921/4785 part Dhanvant Singh - Kulwant Singh S/o Baldev Singh S/o Niranjn Singh equal part 1712/4785 part
			87	Private	Agriculture	0.0781	Baldev Singh S/o Niranjn Singh S/o Harnam Singh 2152/4785 part Surjit Kaur W/o Baldev Singh S/o Niranjn Singh 921/4785 part Dhanvant Singh - Kulwant Singh S/o Baldev Singh S/o Niranjn Singh equal part 1712/4785 part
			88	Private	Agriculture	0.2086	Baldev Singh S/o Niranjn Singh S/o Harnam Singh 2152/4785 part Surjit Kaur W/o Baldev Singh S/o Niranjn Singh 921/4785 part Dhanvant Singh - Kulwant Singh S/o Baldev Singh S/o Niranjn Singh equal part 1712/4785 part
			228	Punjab Government	Non-Agriculture Road	0.0096	Punjab Government
			131	Private	Agriculture	0.1017	Gurmukh Singh S/o Bakhtor Singh 1/2 part Jai Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh 1/8 part Samsher Singh - Basesar Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh equal part 3/8 part .
			132	Private	Agriculture	0.1277	Gurmukh Singh S/o Bakhtor Singh 1/2 part Jai Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh 1/8 part Samsher Singh - Basesar Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh equal part 3/8 part .
			138	Private	Agriculture	0.1563	Gurmukh Singh S/o Bakhtor Singh 1/2 part Jai Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh 1/8 part Samsher Singh - Basesar Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh equal part 3/8 part .
			139	Private	Agriculture	0.1676	Gurmukh Singh S/o Bakhtor Singh 1/2 part Jai Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh 1/8 part Samsher Singh - Basesar Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh equal part 3/8 part .
			142	Private	Agriculture	0.1639	Gurmukh Singh S/o Bakhtor Singh 1/2 part Jai Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh 1/8 part Samsher Singh - Basesar Singh S/o Beer Singh S/o Bakhtor Singh equal part 3/8 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			143	Private	Agriculture	0.1611	Rakesh Kumar - Om Prakash S/o Narain Das S/o Saaniram 76/3962 part Surjit Kaur Widow Tara Singh S/o Inder Singh 244/3962 part Gurmit Singh - Kesar Singh S/o Tara Singh S/o Inder Singh 1541/3962 part Ranjit Singh S/o Tara Singh S/o Inder Singh 660/3962 part Gural Singh S/o Tara Singh S/o Inder Singh 569/3962 part Samsher Kaur Widow and Darshan Singh - Chetann Singh S/o Dilbag Singh S/o Tara Singh equal part 463/3962 part Kulwinder Kaur D/o Dilbag Singh S/o Tara Singh 24/3962 part Dalwinder Singh S/o Hardev Singh S/o Man Singh 71/3962 part Dayaram S/o Ramchand S/o Ganga Ram 94½/3962 part Harbans Kaur Widow and Bhag Singh - Jagir Singh S/o Sant Ram S/o Ramchand 57/3962 part Labh Singh S/o Sant Ram S/o Ramchand 37½/3962 part Smt. Kulwant Kaur Widow Gurnam Singh S/o Hardiyal Singh 125/3962 part .
			144	Private	Agriculture	0.1866	Rakesh Kumar - Om Prakash S/o Narain Das S/o Saaniram 76/3962 part Surjit Kaur Widow Tara Singh S/o Inder Singh 244/3962 part Gurmit Singh - Kesar Singh S/o Tara Singh S/o Inder Singh 1541/3962 part Ranjit Singh S/o Tara Singh S/o Inder Singh 660/3962 part Gural Singh S/o Tara Singh S/o Inder Singh 569/3962 part Samsher Kaur Widow and Darshan Singh - Chetann Singh S/o Dilbag Singh S/o Tara Singh equal part 463/3962 part Kulwinder Kaur D/o Dilbag Singh S/o Tara Singh 24/3962 part Dalwinder Singh S/o Hardev Singh S/o Man Singh 71/3962 part Dayaram S/o Ramchand S/o Ganga Ram 94½/3962 part Harbans Kaur Widow and Bhag Singh - Jagir Singh S/o Sant Ram S/o Ramchand 57/3962 part Labh Singh S/o Sant Ram S/o Ramchand 37½/3962 part Smt. Kulwant Kaur Widow Gurnam Singh S/o Hardiyal Singh 125/3962 part .
			Way		Way	0.0089	Way
			147	Private	Agriculture	0.1277	Sevak Singh S/o Ram Kishan S/o Gurbaksh Singh 1564/1918 part Sukhvinder Kaur Widow and Narinder Singh S/o Beyant Singh S/o Ram Kishan 354/1918 part .
13.	Harayao		276	Private	Agriculture	0.0146	Rachan Singh - Gurbachan Singh - Charan Singh - Harjit Singh S/o Surta Singh S/o Gaiinda Singh equal part
			277	Nagar Panchayat	Agriculture	0.1677	Nagar Panchayat of village
			280	Nagar Panchayat	Agriculture	0.1532	Nagar Panchayat of village
			203	Nagar Panchayat	Way	0.0217	Nagar Panchayat of village
			202	Nagar Panchayat	Agriculture	0.1624	Nagar Panchayat of village

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			201	Nagar Panchayat	Agriculture	0.0163	Nagar Panchayat of village
			200	Nagar Panchayat	Agriculture	0.2371	Nagar Panchayat of village
			199	Private	Agriculture	0.0291	Amarjeet Singh S/o Hardip Singh s/o Sardara Singh 1/3 part Baldev Singh Avtar Singh S/o Sardara Singh S/o Mahinder Singh equal part 2/3 part
14.	Ugana		41	Nagar Panchayat	Agriculture	0.1505	Nagar Panchayat of village
			25	Nagar Panchayat	Way	0.0921	Nagar Panchayat of village
			15	Nagar Panchayat	Way	0.0083	Nagar Panchayat of village
			11	Nagar Panchayat	Way	0.1531	Nagar Panchayat of village
			33	Private	Agriculture	0.1538	Leutinent Kamal Jasvir Singh S/o Samsher Singh S/o Dharm Singh 1/2 part Smt. Gurmit Kaur W/o Leutinent Kamal Jasvir Singh S/o Samsher Singh 1/2 part.
			32	Private	Agriculture	0.1538	Leutinent Kamal Jasvir Singh S/o Samsher Singh S/o Dharm Singh 1/2 part Smt. Gurmit Kaur W/o Leutinent Kamal Jasvir Singh S/o Samsher Singh 1/2 part.
			26	Private	Agriculture	0.1998	Leutinent Kamal Jasvir Singh S/o Samsher Singh S/o Dharm Singh 1/2 part Smt. Gurmit Kaur W/o Leutinent Kamal Jasvir Singh S/o Samsher Singh 1/2 part.
			24	Private	Agriculture	0.0900	Dev Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Lal Singh 323/1652 part Manjit Kaur Widow and Gurdarshan Singh - Malkiat Singh - Lakhvir Singh S/o Hardev Singh S/o Bakshish Singh equal part 215/1652 part Puran Singh - Major Singh - Dula Singh S/o Jaimal Singh S/o Arjun Singh equal part 179 1/2/1652 part Harbans Singh - Hardiyal Singh - Dilbagh Singh - Jaspal Singh - Harbans Kaur - Mahinder Kaur - Gurmail Kaur S/o and D/o Gurcharan Singh S/o Lal Singh equal part 643/1652 part Tej Kaur Widow 136 1/4/1652 part Hamek Singh 44/1652 part Gurmit Singh without Mortgage 51/1652 part double Mortgage 20/1652 part Puran Singh - Dula Singh - Major Singh S/o Jaimal Singh Murathin Surjit Kaur Widow Balwant Singh S/o Gurcharan Singh 40/1652 part.
			170/18	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.0725	Dev Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Lal Singh 323/1652 part Manjit Kaur Widow and Gurdarshan Singh - Malkiat Singh - Lakhvir Singh S/o Hardev Singh S/o Bakshish Singh equal part 215/1652 part Puran Singh - Major Singh - Dula Singh S/o Jaimal Singh S/o Arjun Singh equal part 179 1/2/1652 part Harbans Singh - Hardiyal Singh - Dilbagh Singh - Jaspal Singh - Harbans Kaur - Mahinder Kaur - Gurmail Kaur S/o and D/o Gurcharan Singh S/o Lal Singh equal part 643/1652 part Tej Kaur Widow 136 1/4/1652 part Hamek Singh 44/1652 part Gurmit Singh without Mortgage 51/1652 part double Mortgage 20/1652 part Puran Singh - Dula Singh - Major Singh S/o Jaimal Singh Murathin Surjit Kaur Widow Balwant Singh S/o Gurcharan Singh 40/1652 part.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			19	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1184	Dev Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Lal Singh 323/1652 part Manjit Kaur Widow and Gurdarshan Singh - Malkiat Singh - Lakhvir Singh S/o Hardev Singh S/o Bakshish Singh equal part 215/1652 part Puran Singh - Major Singh - Dula Singh S/o Jaimal Singh S/o Arjun Singh equal part 179½/1652 part Harbans Singh - Hardiyal Singh - Dilbagh Singh - Jaspal Singh - Harbans Kaur - Mahinder Kaur - Gurmail Kaur S/o and D/o Gurcharan Singh S/o Lal Singh equal part 643/1652 part Tej Kaur Widow 136½/1652 part Harnek Singh 44/1652 part Gurmit Singh without Mortgage 51/1652 part double Mortgage 20/1652 part Puran Singh - Dula Singh - Major Singh S/o Jaimal Singh Murathin Surjit Kaur Widow Batwant Singh S/o Gurcharan Singh 40/1652 part Puran Singh - Dulla Singh - Major Singh S/o Jaimal Singh S/o Arjun Singh
			169/18	Private	Agriculture	0.1247	Rud Singh S/o Hajara Singh S/o Baj Singh 6/159 part and Jaimal Singh S/o Arjun Singh S/o Jawahar Singh 153/159 part
			13/2	Private	Agriculture	0.0455	Kulvinder Singh - Hardeep Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Sohan Singh
			12	Private	Agriculture	0.1233	Kulvinder Singh - Hardeep Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Sohan Singh
			4	Private	Agriculture	0.0945	Kulvinder Singh - Hardeep Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Sohan Singh
			3	Private	Agriculture	0.0037	Kulvinder Singh - Hardeep Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Sohan Singh
			1	Private	Agriculture	0.6040	Kulvinder Singh - Hardeep Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Sohan Singh
			10	Private	Agriculture	0.1347	Kulvinder Singh - Hardeep Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Sohan Singh equal part 1/2 part Smt. Nirmal Kaur W/o Kulvinder Singh S/o Gurbaksh Singh 1/2 part
			2	Private	Agriculture	0.1139	Kulvinder Singh - Hardeep Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Sohan Singh equal part 1/2 part Smt. Harbans Kaur W/o Gurbaksh Singh S/o Sohan Singh 1/2 part resident Govind Colony, Rajpura.
15.	Padav		5	Government	Agriculture	0.5078	Government Daulat Madaar
16.	Bakshiwal		482	Private	Agriculture	0.0589	Jaimal Singh S/o Karam Singh S/o Dula Singh - 2/3 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/3 part
			481	Private	Agriculture	0.1584	Jaimal Singh S/o Karam Singh S/o Dula Singh - 2/3 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/3 part

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			479	Private	Agriculture	0.0078	Jaimal Singh S/o Karam Singh S/o Dula Singh - 2/3 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/3 part .
			480	Private	Agriculture	0.2184	Jaimal Singh S/o Karam Singh S/o Dula Singh - 2/3 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/3 part .
			448	Private	Agriculture	0.1624	Jaimal Singh S/o Karam Singh S/o Dula Singh - 2/3 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/3 part .
			447	Private	Agriculture	0.1868	Jaimal Singh S/o Karam Singh S/o Dula Singh - 2/3 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/3 part .
			446	Private	Agriculture	0.0026	Jaimal Singh S/o Karam Singh S/o Dula Singh - 2/3 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/3 part .
			437	Private	Agriculture	0.2227	Jaimal Singh S/o Karam Singh S/o Dula Singh - 2/3 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/3 part .
			436	Private	Agriculture	0.2377	Jaimal Singh S/o Kahla Singh S/o Devi Chand 1/9 part Smt. Narinder Kaur - Karnail Kaur D/o Ajmer Singh S/o Kahla Singh equal part 2/9 part Jang Singh - Dharm Singh S/o and Hari Devi Widow and Sarsi - Somi - Kaado - D/o Inder Singh S/o Babu equal part 1/6 part Jagir Kaur Widow and Garib Das - Surjit Singh - Sarup Singh - Ram Singh - S/o and Charanjit Kaur D/o Joginder Singh S/o Baru Singh 1/6 part Jeet Singh S/o Jeevan Singh S/o Devi Chand 1/6 part Avtar Singh - Raj Singh - Gurdas Singh S/o Telu S/o Jeona equal part 1/10 part Giyan Singh S/o Telu S/o Jeon Singh 1/15 part .
			435	Private	Agriculture	0.3703	Jaimal Singh S/o Kahla Singh S/o Devi Chand 1/9 part Smt. Narinder Kaur - Karnail Kaur D/o Ajmer Singh S/o Kahla Singh equal part 2/9 part Jang Singh - Dharm Singh S/o and Hari Devi Widow and Sarsi - Somi - Kaado - D/o Inder Singh S/o Babu equal part 1/6 part Jagir Kaur Widow and Garib Das - Surjit Singh - Sarup Singh - Ram Singh - S/o and Charanjit Kaur D/o Joginder Singh S/o Baru Singh 1/6 part Jeet Singh S/o Jeevan Singh S/o Devi Chand 1/6 part Avtar Singh - Raj Singh - Gurdas Singh S/o Telu S/o Jeona equal part 1/10 part Giyan Singh S/o Telu S/o Jeon Singh 1/15 part .
			433	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.3987	Jaimal Singh S/o Kahla Singh S/o Devi Chand 1/9 part Smt. Narinder Kaur - Karnail Kaur D/o Ajmer Singh S/o Kahla Singh equal part 2/9 part Jang Singh - Dharm Singh S/o and Hari Devi Widow and Sarsi - Somi - Kaado - D/o Inder Singh S/o Babu equal part 1/6 part Jagir Kaur Widow and Garib Das - Surjit Singh - Sarup Singh - Ram Singh - S/o and Charanjit Kaur D/o Joginder Singh S/o Baru Singh 1/6 part Jeet Singh S/o Jeevan Singh S/o Devi Chand 1/6 part Avtar Singh - Raj Singh - Gurdas Singh S/o Telu S/o Jeona equal part 1/10 part Giyan Singh S/o Telu S/o Jeon Singh 1/15 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			434	Private	Agriculture	0.3165	Jaimal Singh S/o Kahla Singh S/o Devi Chand 1/9 part Smt. Narinder Kaur - Karnail Kaur D/o Ajmer Singh S/o Kahla Singh equal part 2/9 part Jang Singh - Dharm Singh S/o and Hari Devi Widow and Sarsi - Somi - Kaado - D/o Inder Singh S/o Babu equal part 1/6 part Jagir Kaur Widow and Garib Das - Surjit Singh - Sarup Singh - Ram Singh - S/o and Charanjit Kaur D/o Joginder Singh S/o Baru Singh 1/6 part Jeet Singh S/o Jeevan Singh S/o Devi Chand 1/6 part Avtar Singh - Raj Singh - Gurdas Singh S/o Telu S/o Jeona equal part 1/10 part Giyan Singh S/o Telu S/o Jeon Singh 1/15 part .
			432	Private	Agriculture	0.1406	Jaimal Singh S/o Kahla Singh S/o Devi Chand 1/9 part Smt. Narinder Kaur - Karnail Kaur D/o Ajmer Singh S/o Kahla Singh equal part 2/9 part Jang Singh - Dharm Singh S/o and Hari Devi Widow and Sarsi - Somi - Kaado - D/o Inder Singh S/o Babu equal part 1/6 part Jagir Kaur Widow and Garib Das - Surjit Singh - Sarup Singh - Ram Singh - S/o and Charanjit Kaur D/o Joginder Singh S/o Baru Singh 1/6 part Jeet Singh S/o Jeevan Singh S/o Devi Chand 1/6 part Avtar Singh - Raj Singh - Gurdas Singh S/o Telu S/o Jeona equal part 1/10 part Giyan Singh S/o Telu S/o Jeon Singh 1/15 part .
			431	Private	Agriculture	0.0178	Jaimal Singh S/o Kahla Singh S/o Devi Chand 1/9 part Smt. Narinder Kaur - Karnail Kaur D/o Ajmer Singh S/o Kahla Singh equal part 2/9 part Jang Singh - Dharm Singh S/o and Hari Devi Widow and Sarsi - Somi - Kaado - D/o Inder Singh S/o Babu equal part 1/6 part Jagir Kaur Widow and Garib Das - Surjit Singh - Sarup Singh - Ram Singh - S/o and Charanjit Kaur D/o Joginder Singh S/o Baru Singh 1/6 part Jeet Singh S/o Jeevan Singh S/o Devi Chand 1/6 part Avtar Singh - Raj Singh - Gurdas Singh S/o Telu S/o Jeona equal part 1/10 part Giyan Singh S/o Telu S/o Jeon Singh 1/15 part .
			439	Private	Agriculture	0.0654	Kashmir Kaur W/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 13/18 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/6 part Gurkiat Singh - Harkiat Singh S/o Nanak Singh S/o Jaimal Singh equal part 1/9 part .
			440	Private	Agriculture	0.0043	Kashmir Kaur W/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 13/18 part Nanak Singh S/o Jaimal Singh S/o Karam Singh 1/6 part Gurkiat Singh - Harkiat Singh S/o Nanak Singh S/o Jaimal Singh equal part 1/9 part .
			372	Private	Agriculture	0.1909	Amrik Singh S/o Arjun Singh S/o Jawahar Singh
			376	Private	Agriculture	0.1987	Amrik Singh S/o Arjun Singh S/o Jawahar Singh
			377	Private	Agriculture	0.2042	Amrik Singh S/o Arjun Singh S/o Jawahar Singh
			379	Private	Agriculture	0.2110	Amrik Singh S/o Arjun Singh S/o Jawahar Singh... Jeevan Kumar S/o Chota Ram S/o Baburam..... Anup Singh S/o Jarnail Singh S/o Chanchal Singh resident Rajpura.....
			380	Private	Agriculture	0.1925	Jeevan Kumar S/o Chota Ram S/o Baburam..... Anup Singh S/o Jarnail Singh S/o Chanchal Singh resident Rajpura.....
			381	Private	Agriculture	0.0037	Raman Tarehan S/o Ramesh Chander Tarehan S/o Chaman Lal resident Rajpura
			315	Government	Way	0.0173	Government land

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			316	Private	Agriculture	0.2038	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part
			326	Private	Agriculture	0.1932	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part
			328	Private	Agriculture	0.0025	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part
			335	Private	Agriculture	0.1950	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part
			336	Private	Agriculture	0.1891	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part
			341	Private	Agriculture	0.1847	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part
			342	Private	Way and Agriculture	0.1759	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part
			344	Private	Agriculture	0.1611	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part
			327	Government and Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.1866	Bharat Tarehan S/o Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan and Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal S/o Divan Shah and Raman Tarehan S/o Ramesh Tarehan S/o Chaman Lal equal part Punjab State Electricity Board.....
			285	Private	Agriculture	0.2601	Puran Singh S/o Chuhad Singh 189/947 part Satpal Singh S/o Puran Singh 189/947 part Dalip Singh S/o Arood Singh 169/947 part Lakhvinder Singh - Narinder Singh Baljinder Singh - Gurtej Singh S/o Ajit Singh S/o Arood Singh equal share 163/947 part Smt. Savinder Kaur Widow Gurvant Singh 11/947 part Randhir Singh - Davinder Singh - Amir Singh - Udaar Singh S/o Gurvant Singh S/o Arood Singh equal share 68/947 part Gurmej Kaur Widow and Harbhajan Singh - Harbant Singh - Tahal Singh - Satnam Singh S/o Pritam Singh S/o Arood Singh equal share 157/947 part Balwant Singh S/o Munsha Singh S/o Amir Chand.
			284	Private	Agriculture	0.0237	Balwant Singh S/o Munsha Singh S/o Amir Chand.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Basant Pura		424	Private	Agriculture	0.0709	Kashmir Singh 65/496 part Surjit Singh 60/496 part S/o Mohan Singh S/o Moti Ram and Narinder Singh S/o Surjit Singh S/o Mohan Singh 83/496 part resident Sarai Banjara Kashmir Singh S/o Gurdev Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Jasvir Singh S/o Gurmail Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Satvir Singh S/o Ratan Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Gurdarshan Singh S/o Baldev Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Kashmir Singh S/o Gurdev Singh S/o Joginder Singh 1/4 part Jasvir Singh S/o Gurmail Singh S/o Joginder Singh 1/4 part Satvir Singh S/o Ratan Singh S/o Joginder Singh 1/4 part Gurdarshan Singh S/o Baldev Singh S/o Joginder Singh 1/4 part .
			423	Private	Agriculture	0.0443	Kashmir Singh 65/496 part Surjit Singh 60/496 part S/o Mohan Singh S/o Moti Ram and Narinder Singh S/o Surjit Singh S/o Mohan Singh 83/496 part resident Sarai Banjara Kashmir Singh S/o Gurdev Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Jasvir Singh S/o Gurmail Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Satvir Singh S/o Ratan Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Gurdarshan Singh S/o Baldev Singh S/o Joginder Singh 72/496 part .
			422	Private	Agriculture	0.0563	Kashmir Singh 65/496 part Surjit Singh 60/496 part S/o Mohan Singh S/o Moti Ram and Narinder Singh S/o Surjit Singh S/o Mohan Singh 83/496 part resident Sarai Banjara Kashmir Singh S/o Gurdev Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Jasvir Singh S/o Gurmail Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Satvir Singh S/o Ratan Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Gurdarshan Singh S/o Baldev Singh S/o Joginder Singh 72/496 part .
			421	Private	Agriculture	0.0256	Surjit Singh - Hardeep Singh - Mandeep Singh - Narinder Singh S/o Angrej Singh S/o Ram Singh resident Moili Bedwan Tehsil and District Mohali equal part
			421/1	Private	Agriculture	0.0845	Kashmir Singh 65/496 part Surjit Singh 60/496 part S/o Mohan Singh S/o Moti Ram and Narinder Singh S/o Surjit Singh S/o Mohan Singh 83/496 part resident Sarai Banjara Kashmir Singh S/o Gurdev Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Jasvir Singh S/o Gurmail Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Satvir Singh S/o Ratan Singh S/o Joginder Singh 72/496 part Gurdarshan Singh S/o Baldev Singh S/o Joginder Singh 72/496 part .
			420	Private	Agriculture	0.0129	Surjit Singh - Hardeep Singh - Mandeep Singh - Narinder Singh S/o Angrej Singh S/o Ram Singh resident Moili Bedwan Tehsil and District Mohali equal part
			413	Private	Agriculture	0.0259	Surjit Singh - Hardeep Singh - Mandeep Singh - Narinder Singh S/o Angrej Singh S/o Ram Singh resident Moili Bedwan Tehsil and District Mohali equal part
			412	Private	Motor House and Agriculture	0.0185	Bawa Singh S/o Sarup Singh S/o Jeon Singh 1/2 part Davinder Singh S/o Bawa Singh S/o Sarup Singh 1/2 part Bawa Singh S/o Sarup Singh S/o Jeon Singh.
			410	Private	Agriculture	0.0571	Bawa Singh S/o Sarup Singh S/o Jeon Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			409	Private	Agriculture	0.1222	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			408	Private	Agriculture	0.1302	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			197	Private	Agriculture	0.1801	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			198	Private	Agriculture	0.1804	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			203	Private	Agriculture	0.1753	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			204	Private	Agriculture	0.1748	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			209	Private	Agriculture	0.1789	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			141	Private	Agriculture	0.0118	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			122	Private	Agriculture	0.2113	Surjit Singh - Baljit Singh - Jaspal Singh S/o Joginder Singh S/o Harnam Singh equal part 3/4 part Jasvinder Kaur 1/16 part Widow Gurdeep Singh 3/16 part S/o Gurmit Singh S/o Joginder Singh resident Alluan
			394	Government	Road	0.0236	P.W.D.
			143	Private	Agriculture	0.1906	Nayab Singh - Pal Singh - Jasbir Singh - Bahadur Singh S/o Joginder Singh equal part 1/3 part Pyara Singh - Chota Singh - Channan Singh S/o Shadhu Singh equal part 1/4 part Gurdev Kaur Widow Shadhu Singh S/o Hajara Singh 1/12 part Avtar Singh - Harmit Singh - Daljit Singh S/o Bachan Singh S/o Hazara Singh equal part 1/3 part
			142	Private	Agriculture	0.1926	Nayab Singh - Pal Singh - Jasbir Singh - Bahadur Singh S/o Joginder Singh equal part 1/3 part Pyara Singh - Chota Singh - Channan Singh S/o Shadhu Singh equal part 1/4 part Gurdev Kaur Widow Shadhu Singh S/o Hajara Singh 1/12 part Avtar Singh - Harmit Singh - Daljit Singh S/o Bachan Singh S/o Hazara Singh equal part 1/3 part
			141/1	Private	Agriculture	0.1776	Bhajan Singh Pesar Mutbana Chanan Singh S/o Varyam Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			125	Private	Agriculture	0.1892	Bhajan Singh Pesar Mutbana Chanan Singh S/o Varyam Singh
			124	Private	Agriculture	0.1917	Rajvant Kaur W/o Dalip Singh S/o Amar Singh
			123	Private	Trees	0.2035	Pritam Singh 124 1/2/663 Ranjit Singh 74 1/2/663 part S/o Labh Singh S/o Lal Singh. Dalip Singh 215 1/2/663 part Lakhvinder Singh 165 1/2/663 part S/o An ar Singh S/o Lal Singh and Jasvir Singh S/o Lal Singh 83/663 part Rajvant Kaur W/o Dalip Singh S/o Amar Singh.
			113	Private	Agriculture	0.1571	Indrajit Singh - Sarabjit Singh - Gurmit Singh S/o Ramdur Singh S/o Sant Singh equal part 653 1/2/871 part Ramdur Singh S/o Sant Singh S/o Sher Singh 217 1/2/871 part .
			112	Private	Agriculture	0.1488	Indrajit Singh - Sarabjit Singh - Gurmit Singh S/o Ramdur Singh S/o Sant Singh equal part 653 1/2/871 part Ramdur Singh S/o Sant Singh S/o Sher Singh 217 1/2/871 part .
			90	Private	Agriculture	0.1466	Inderjit Singh - Sarabjit Singh - Gurmit Singh S/o Ramdur Singh S/o Sant Singh equal part 704/1098 part Ramdur Singh S/o Sant Singh S/o Sher Singh 235/1098 part Niranjn Das S/o Parshotam Das S/o Ishar Das 79/1098 part Nasib Kaur Widow and Amarjit Das - Baljit Das S/o Ram Das S/o Shyam Das equal part 80/1098 part .
			89	Private	Agriculture	0.1491	Surjit Singh Urf Sita Das S/o Shyam Das S/o Ishar Das Indrajit Singh - Sarabjit Singh - Gurmit Singh S/o Ramdur Singh S/o Sant Singh equal part 3/4 part Ramdur Singh S/o Sant Singh S/o Sher Singh 1/4 part .
			88	Private	Agriculture	0.1491	Surjit, Singh Urf Sita Das S/o Shyam Das S/o Ishar Das
			79	Private	Agriculture	0.1474	Surjit Singh Urf Sita Das S/o Shyam Das S/o Ishar Das Nasib Kaur Widow and Amarjit Das - Baljit Das S/o Ram Das S/o Shyam Das equal part
			78	Private	Agriculture	0.1433	Nasib Kaur Widow and Amarjit Das - Baljit Das S/o Ram Das S/o Shyam Das equal part
			77	Private	Agriculture	0.0755	Karnail Singh S/o Ronki Ram S/o Ram Ditta 1/8 part Rajinder Kaur Widow Jarnail Singh S/o Ronki Ram 1/8 part Mukhtiyar Singh - Jeet Singh - Raja Singh S/o Ronki Ram S/o Ram Ditta equal part 3/4 part Raja Singh Hissedar Rahan : Charan Singh S/o Bud Singh S/o Bagga Singh 1/4 part leaser against Rs. 350000/-
12	Rajpura		527	Punjab Govt.	By Pass way	0.2006	Punjab Government
			610	Punjab Govt.	Bypass way, Samadh, House & Temple	0.0505	Punjab Government
			297	Punjab Govt.	Bypass way	0.3662	Punjab Government
			275	Nagar Palika	Plot	0.0025	Nagar Palika Rajpura
			277	Nagar Palika	Non-Agriculture	0.0050	Nagar Palika Rajpura
			276	Nagar Palika	Plot	0.2143	Nagar Palika Rajpura
			295	Nagar Palika	Non-Agriculture Plot	0.0102	Nagar Palika Rajpura
			296	Nagar Palika	Non-Agriculture	0.0107	Nagar Palika Rajpura

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			368	Nagar Palika	Non-Agriculture	0.2041	Nagar Palika Rajpura
			369	Nagar Palika	Non-Agriculture	0.1002	Nagar Palika Rajpura
			363	Private	Plot & House	0.0155	Kashmiri Lal S/o Sukhram S/o Shankar Ram..... Hariram S/o Munshi Ram 1/3 part Bagdia Ram S/o Prem Chand S/o Dataram 16 2/3/ 350 part Neelam W/o Vijay Kumar 100/350 part Praveen D/o Fakir Chand 1/3 part Amarjit Singh - Manmohanjit Singh - Davinder Singh - Avtar Singh - Jaswant Singh S/o & Manmohanjit Kaur 6/10 part Indrajit Singh 1/5 part S/o Kirpa Singh S/o Basta Singh & Sukhdev Singh - Darshan Singh S/o Raminder Singh S/o Kirpa Singh 1/5 part rate 9/10 part Mahinder Singh S/o Jagir Singh S/o Daya Singh 1/10 part .
			364/1/1	Private	Plot & House	0.0444	Sukhedarshan Singh - Balvinder Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Kartar Singh 668/3445 part Pala ram S/o Preetam Ram S/o Fakira Ram 100/3445 part Mohanlal S/o Indra Ram S/o Matu Ram 125/3445 part Bant Ram 125/3445 part Surinder Singh 200/3445 part Harbans Singh S/o Amar Singh S/o Munsu 39/3445 part Nitika Goyal W/o Vimal Goyal 213/3445 part Gurdial Singh S/o Tarlok Singh S/o Variam Singh 25/342 part Sunit Rani W/o Kuldeep Kumar S/o Hari Ram 50/342 part Jagjivan Ram - Saurav Kumar S/o Hari chand 21/342 part Nand Lal S/o Kishan Das S/o Neta Ram 10/114 part Ram Bilas S/o Siri Ram, & Kima Devi W/o Ram Vilas 10/342 part .
			Way 364	Private	Way Non-Agriculture Way & House	0.0398	Way
						0.1249	Sukhedarshan Singh - Balvinder Singh S/o Harbans Singh S/o Kartar Singh 2/3 part Karnail Singh - Jarnail Singh S/o Ratan Singh 1/3 part Jarnail Singh - Karnail Singh S/o Ratan Singh S/o Kartar Singh 104/330 part Hari Ram S/o Munsu Ram S/o Sukhram 60/330 part Sohan Lal S/o Indra Ram S/o Matu Ram 50/330 part Joginder Singh S/o Jeona S/o Haria 15/330 part Kuldeep Kumar S/o Hari Chand S/o Savan Ram 50/1660 part Kailash Devi W/o Om Prakash 50/1660 part Balvir Kaur W/o Lajja Ram 140/1660 part Pyara Singh - Buta Singh S/o Joginder Singh S/o Jeon Singh 53/330 part .
			366	Private	Factory	0.1241	Amarjit Singh S/o Bhagwan Singh S/o Uttam Singh 2865/22920 part Gurinder Singh S/o Bhagwan Singh 1365/22920 part Kiranjot Kaur W/o Sukhjeet Singh S/o Balwant Singh 1500/22920 part Surinder Singh S/o Sardar Singh S/o Atma Singh 4230/22920 part Sukhjeet Singh S/o Balwant Singh 1300/22920 part Raj Kumar S/o Tek Chand S/o Pyare Lal 200/22920 part Mahinder Kumar S/o Pishori Lal S/o Mahesh Das 3084/22920 part Gurmit Singh S/o Jang Singh 1500/22920 part Dinesh Kumar S/o Narinder Lal S/o Sitaram 1146/22920 part Indrajit Singh S/o Narain Singh S/o Uttam Singh 2865/22920 part Bhupender Singh S/o Niranjana Singh 1500/22920 part .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			367	Private	Factory	0.1031	Amarjit Singh S/o Bhagwan Singh S/o Uttam Singh 2865/22920 part Gurinder Singh S/o Bhagwan Singh 1365/22920 part Kiranjot Kaur W/o Sukhjeet Singh S/o Balwant Singh 1500/22920 part Surinder Singh S/o Sardar Singh S/o Atma Singh 4230/22920 part Sukhjeet Singh S/o Balwant Singh 1300/22920 part Raj Kumar S/o Tek Chand S/o Pyare Lal 200/22920 part Mahinder Kumar S/o Pishori Lal S/o Mahesh Das 3084/22920 part Gurmit Singh S/o Jang Singh 1500/22920 part Dinesh Kumar S/o Narinder Lal S/o Sitaram 1146/22920 part Indrajit Singh S/o Narain Singh S/o Uttam Singh 2865/22920 part Bhupender Singh S/o Niranjn Singh 1500/22920 part.
			372/1	Private	Factory	0.0322	Amarjit Singh S/o Bhagwan Singh S/o Uttam Singh 2865/22920 part Gurinder Singh S/o Bhagwan Singh 1365/22920 part Kiranjot Kaur W/o Sukhjeet Singh S/o Balwant Singh 1500/22920 part Surinder Singh S/o Sardar Singh S/o Atma Singh 4230/22920 part Sukhjeet Singh S/o Balwant Singh 1300/22920 part Raj Kumar S/o Tek Chand S/o Pyare Lal 200/22920 part Mahinder Kumar S/o Pishori Lal S/o Mahesh Das 3084/22920 part Gurmit Singh S/o Jang Singh 1500/22920 part Dinesh Kumar S/o Narinder Lal S/o Sitaram 1146/22920 part Indrajit Singh S/o Narain Singh S/o Uttam Singh 2865/22920 part Bhupender Singh S/o Niranjn Singh 1500/22920 part.
			371	Private	Factory	0.0358	Amarjit Singh S/o Bhagwan Singh S/o Uttam Singh 2865/22920 part Gurinder Singh S/o Bhagwan Singh 1365/22920 part Kiranjot Kaur W/o Sukhjeet Singh S/o Balwant Singh 1500/22920 part Surinder Singh S/o Sardar Singh S/o Atma Singh 4230/22920 part Sukhjeet Singh S/o Balwant Singh 1300/22920 part Raj Kumar S/o Tek Chand S/o Pyare Lal 200/22920 part Mahinder Kumar S/o Pishori Lal S/o Mahesh Das 3084/22920 part Gurmit Singh S/o Jang Singh 1500/22920 part Dinesh Kumar S/o Narinder Lal S/o Sitaram 1146/22920 part Indrajit Singh S/o Narain Singh S/o Uttam Singh 2865/22920 part Bhupender Singh S/o Niranjn Singh 1500/22920 part.
			370	Private	Road	0.2687	Joint Ownership of combined village Khewat
		30//	25	Private	Non-Agriculture	0.0885	Joint Ownership of combined village Khewat
			24	Private	Non-Agriculture	0.2580	Joint Ownership of combined village Khewat
			18	Private	Non-Agriculture	0.2757	Joint Ownership of combined village Khewat
			12	Private	Non-Agriculture	0.2808	Joint Ownership of combined village Khewat
			370/1	Private	Non-Agriculture	0.0311	Combined villages
		35//	5	Private	Road	0.1312	Joint Ownership of combined villages Khewat
			69	Punjab Govt. & Private	Non-Agriculture	1.5246	Kishan Dev S/o Jai Dayal S/o Ditta Ram..... Punjab Government
		30//	11	Waqf Board	Graveyard	0.2934	Punjab Waqf Board
			1	Private	Agriculture	0.0788	Rajinder Kaur Widow & Armit Singh - Kamalprit Singh - Mandip Singh S/o Narinder Pal Singh 2/9 part Jatinder Pal Singh - Kamalindra Singh Sons 4/9 part Gurindarpal Singh S/o & Davindra Kaur 1/3 part D/o Niranjn Singh S/o Gurbaksh Singh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		31//	6	Private	Agriculture	0.1290	Parsewak Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Matbana Jati Singh Rajinder Kaur Widow & Armit Singh - Kamalprit Singh - Mandip Singh S/o Narinder Pal Singh 2/9 part Jatinder Pal Singh - Kamalindra Singh Sons 4/9 part Gurindarpal Singh S/o & Davindra Kaur 1/3 part D/o Niranjan Singh S/o Gurbaksh Singh.
			5	Private	Agriculture	0.3827	Parsewak Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Matbana Jati Singh Rajinder Kaur Widow & Armit Singh - Kamalprit Singh - Mandip Singh S/o Narinder Pal Singh 2/9 part Jatinder Pal Singh - Kamalindra Singh Sons 4/9 part Gurindarpal Singh S/o & Davindra Kaur 1/3 part D/o Niranjan Singh S/o Gurbaksh Singh.
			4	Private	Agriculture	0.1922	Prabhudutt - Lok Nath - Baldev Raj S/o Manu Ram S/o Ditta Ram.
		16//	25	Private	Agriculture	0.0503	Prabhudutt - Lok Nath - Baldev Raj S/o Manu Ram S/o Ditta Ram.
			24	Private	Agriculture	0.3239	Prabhudutt - Lok Nath - Baldev Raj S/o Manu Ram S/o Ditta Ram.
			17	Private	Agriculture	0.0164	Prabhudutt - Lok Nath - Baldev Raj S/o Manu Ram S/o Ditta Ram.
			23	Private	Agriculture	0.2732	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			18	Private	Agriculture	0.2823	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			19	Private	Agriculture	0.3592	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			13	Private	Agriculture	0.0026	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			12	Private	Agriculture	0.1983	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			11	Private	Agriculture	0.4095	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			10	Private	Agriculture	0.1177	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
		15//	6	Private	Agriculture	0.3626	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			5	Private	Agriculture	0.0515	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			7	Private	Agriculture	0.1239	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			4	Private	Agriculture	0.3379	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			3	Private	Agriculture	0.1872	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		13//	24	Private	Agriculture	0.0225	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part
			23	Private	Agriculture	0.0575	Munish Chander - Satish Chander - Subhash Chander - Ramesh Chander - Raj Kumar S/o Sobhraj S/o Ditta Ram equal part

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director (Land and Amenities-1)